



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 4—नवम्बर 10, 2006 (कार्तिक 13, 1928)  
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 4—NOVEMBER 10, 2006 (KARTIKA 13, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय

कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर (बिहार)

मुजफ्फरपुर-842001, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. पीआरएस(एसएण्डएफ/02/2006-07/207)--उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम 2006 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जो प्रायोजक बैंक है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियम)

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

- ये विनियम उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम 2006 वर्ष कहलाएंगे।
- ये विनियम से प्रभावी होंगे।
- वे बैंक के प्रत्येक, अधिकारी और कर्मचारी पर लागू होंगे। परन्तु यह कि वे, इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए या निदेशक मण्डल द्वारा विशिष्ट रूप से या सामान्य रूप से यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक।

- दैनिक मजदूरी पर अस्थायी रूप से नियोजित किसी व्यक्ति पर अथवा संविदा के आधार पर लगे हुए ऐसे व्यक्ति पर,
- प्रायोजक बैंक या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो --

- 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।
- 'नियत दिन' से सितम्बर 1987 का पहला दिन अभिप्रेत है।
- 'नियुक्ति प्राधिकारी' से विनियम 5(1) में निर्धारित प्राधिकारी अभिप्रेत है।
- 'क्षेत्र प्रबंधक' से तत्समय क्षेत्र कार्यालय का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है।
- 'बैंक' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अन्तर्गत स्थापित उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।
- 'निदेशक मण्डल' से बैंक का निदेशक मण्डल अभिप्रेत है।
- 'शाखा प्रबन्धक' से तत्समय शाखा का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है।

- (ज) 'कैलेण्डर वर्ष' से किसी वर्ष की पहली जनवरी से प्रारंभ होकर उस वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है।
- (झ) 'सक्षम प्राधिकारी' से अधिकारियों के मामले में अध्यक्ष और कर्मचारियों के मामले में अध्यक्ष द्वारा पदनामित अधिकारी अभिप्रेत है।
- (ञ) 'ड्यूटी' में निम्नलिखित शामिल है :-
- (क) परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में सेवा;
- (ख) वह अवधि, जिसके दौरान अधिकारी या कर्मचारी कार्य ग्रहण समय पर है;
- (ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश पर व्यतीत की गई अवधि; और
- (घ) सेवा के दौरान प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि।
- (ट) 'परिलब्धियों' से संवेतन और भत्तों का, यदि कोई हो, जोड़ अभिप्रेत है।
- (ठ) 'कर्मचारी' से विनियम 3 (क) 2 और (3) में विनिर्दिष्ट पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनकी सेवाएँ अस्थायी रूप से अन्य संगठनों को उधार दी जाती हैं।
- (ड) 'परिवार' से अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी/का पति (यदि पति/पत्नी भी बैंक का/की अधिकारी या कर्मचारी नहीं है) और अधिकारी या कर्मचारी की ऐसी संतान, माता-पिता, भाई और बहनें, जो पूर्णतः अधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित हैं, अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत विधिक रूप से पृथक पति/पत्नी शामिल नहीं है।
- (ढ) 'अधिकारी' से विनियम 3(क) (1) में विनिर्दिष्ट पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।
- (ण) 'वेतन' से अवरोध वेतनवृद्धि और परिलब्धियों के किसी भाग सहित, जिसे इन विनियमों के अन्तर्गत विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जाए, किसी वेतन-मान में अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह प्राप्त किया जाने वाला मूल वेतन अभिप्रेत है।
- (त) 'संवेतन' से वेतन और मंहगाई भत्ते का जोड़ अभिप्रेत है।
- (थ) 'प्रायोजक बैंक' से सेन्ट्रल ऑफ इंडिया अभिप्रेत है और
- (द) 'वरिष्ठ प्रबंधक' से प्रधान कार्यालय में किसी विभाग का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी, जिसका रैंक स्केल-11 के अधिकारी से कम न हो, अभिप्रेत है।

## अध्याय - 11

अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति, परिवीक्षा और सेवा की समाप्ति3. अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण

(क) बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :-

- (1) समूह-क अधिकारी संवर्ग
  - (i) स्केल-1
  - (ii) स्केल-11
  - (iii) स्केल-111

किसी वेतनमान के संबंध में पदनाम इस प्रकार होगा :-

- (i) अधिकारी
- (ii) शाखा प्रबन्धक
- (iii) क्षेत्र प्रबन्धक
- (iv) वरिष्ठ प्रबन्धक

और ऐसे अन्य वेतनमान और पदनाम, जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) समूह-ख लिपिकीय संवर्ग

लिपिकीय संवर्ग अर्थात् लिपिक-सह-खजांची, लिपिक-सह-टंकन, आशुलिपिक और ऐसी अन्य श्रेणियाँ, जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) समूह-ग अधीनस्थ संवर्ग

अधीनस्थ स्टाफ अर्थात् संदेशवाहक, संदेशवाहक-सह-सफाई कर्मचारी, ड्राइवर-सह-संदेशवाहक, अंशकालिक संदेशवाहक-सह-सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और ऐसी अन्य श्रेणियाँ, जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) इस विनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए अधिकारी या कर्मचारियों के सभी संवर्गों या श्रेणियों का हर समय बैंक में कार्यरत होना अपेक्षित है।

#### 4. अस्थायी कर्मचारी

इन विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अध्यक्ष ऐसे सामान्य या विशिष्ट अनुदेशों के अध्यक्षीन, जो समय-समय पर निदेशक मण्डल द्वारा जारी किए जाएँ, किसी विशिष्ट जरूरत या परिस्थिति से निपटने के लिए किसी व्यक्ति को लिपिकीय संवर्ग और/या अधीनस्थ संवर्ग में वर्ष में 60 दिन से अनधिक की अवधि के लिए तदर्थ और/या अस्थायी आधार पर नियोजित कर सकता है।

परन्तु यह कि तदर्थ और/या अस्थायी आधार पर ऐसी नियुक्तियाँ प्रायोजक बैंक के परमर्श से की जाएगी।

#### 5. बैंक की सेवा में नियुक्ति

(1) अधिकारियों के संबंध में अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा। कर्मचारियों के संबंध में महाप्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी होगा;

परन्तु यह कि यदि महाप्रबंधक के पद पर कोई पदधारी न हो, तो कर्मचारियों के संबंध में भी अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(2) बैंक में सभी नियुक्तियाँ विनियम 4 में यथा उपबंधित के सिवाय अधिनियम की धारा 29 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

(3) बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को बैंक द्वारा यथा निर्धारित या मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्राधिकारी से स्वस्थता (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) (i) अनर्हता-ऐसा कोई भी व्यक्ति :-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो,

#### अथवा

(ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित होते हुए भी, किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह करने का करार किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :-

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

## ii. घोषणा

बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अनुसूची-॥ के अनुसार अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

## 6. वेतन-मान और भत्ते

विनियम 3 में उल्लिखित किसी भी समूह में किसी भी पद पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी का वेतन-मान, भत्ते और वेतनवृद्धियाँ उस प्रकार की होंगी, जो अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित की जाएं।

## 7. सेवा का प्रारम्भ

बैंक में नियुक्त किसी भी व्यक्ति की सेवा, उसे दिए गए नियुक्ति के प्रस्ताव के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार किसी भी पद पर ड्यूटी के लिए उसके रिपोर्ट करने के कार्य दिवस से आरम्भ होगी :-

परन्तु यह कि यदि वह ऐसे कार्य दिवस क अपराहन में कार्यग्रहण करता है, तो वह उस दिन का वेतन और भत्ते प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

## 8. परिवीक्षा

(i) स्केल-1 में सीधे नियुक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ii) अधिकारी संवर्ग के स्केल-1 में किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(iii) उच्चतर स्केल में पदोन्नत अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी छः महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(iv) (क) लिपिकीय या अधीनस्थ संवर्ग में सीधे नियुक्त कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) अधीनस्थ संवर्ग का कर्मचारी लिपिकीय संवर्ग में किसी पद पर पदोन्नत किए जाने पर छः महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तीन माह से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

- (v) किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में परिवीक्षा की अवधि, उसके द्वारा ली गई असाधारण छुट्टी की मात्रा तक या नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उस अवधि के दौरान उसका कार्यनिष्पादन असंतोषजनक होने पर अनुज्ञेय सीमाओं के अन्दर बढ़ाई जा सकेगी।

#### 9. स्थायीकरण

- (i) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, तो उस अधिकारी या कर्मचारी को बैंक की सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा।
- (ii) यदि परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, सहित परिवीक्षा की अवधि के दौरान, नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि अधिकारी या कर्मचारी उक्त पद पर स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो :-
- (क) सीधे नियुक्त किए गए अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, उसकी सेवाएं एक महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक महीने का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
- (ख) बैंक की सेवा से पदोन्नत किए गए किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, उसे उसी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिससे उसे पदोन्नत किया गया था।

#### 10. नोटिस द्वारा सेवा की समाप्ति

- (i) (क) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नौकरी छोड़ने या आगे जारी न रखने या त्यागपत्र देने के अपने इरादे के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में पूर्व नोटिस दिए बिना बैंक में अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकेगा।
- (ख) नोटिस की अपेक्षित अवधि इस प्रकार होगी :-
- (i) किसी अधिकारी के मामले में तीन महीने और
- (ii) किसी कर्मचारी के मामले में एक महीने।
- (ग) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उप-विनियम (ख) के भंग के मामले में, उसे बैंक को क्षतिपूर्ति के रूप में, उससे अपेक्षित नोटिस की अवधि के उसके वेतन बराबर रकम भुगतान करना होगा।

2. उप-विनियम (i) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई अधिकारी या कर्मचारी, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ लम्बित हैं, नियुक्ति प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना बैंक की सेवा नहीं छोड़ सकेगा अथवा त्यागपत्र नहीं दे सकेगा और अनुशासनिक कार्यवाहियों से पूर्व या उसके दौरान ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र का कोई भी नोटिस तब तक प्रभावी नहीं होगा, जबतक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए।

## स्पष्टीकरण

यदि कोई किसी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया हो या उसे यह कारण बताने का कोई नोटिस जारी किया गया हो कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ क्यों न शुरू की जाए, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक इस विनियम के प्रयोजन के लिए उस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों को लंबित माना जाएगा।

## ॥ अधिवाषिता और सेवा निवृत्त

(1) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्त होगा।

परन्तु यह कि अध्यक्ष, इसमें इसके पश्चात उप-विनियम (2) में यथा उपबंधित विशेष समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए जाने पर, अपने विवेकानुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या बैंक में 30 वर्ष की कुल सेवा पूरी होने के बाद, जो भी पहले हो, किसी भी समय सेवा निवृत्त कर सकता है।

परन्तु यह भी कि इस उप-विनियम के तहत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को तबतक सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा, जबतक कि अधिकारी के मामले में कम से कम तीन महीने पहले और कर्मचारी के मामले में एक महीने पहले उसे लिखित में नोटिस न दे दिया जाए या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को उसके बदले अधिकारी के मामले में तीन महीने के बराबर और कर्मचारी के मामले में एक महीने के बराबर धनराशि न दे दी जाए।

परन्तु यह भी कि उप-विनियम (2) में किए गए प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष के आदेश से असंतुष्ट अधिकारी या कर्मचारी आदेश दिए जाने के एक महीने के भीतर अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध बोर्ड को लिखित अभ्यावेदन दे सकता है और ऐसा अभ्यावेदन मिलने पर बोर्ड तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा। जहाँ बोर्ड यह निर्णय लेता है कि अध्यक्ष द्वारा दिया गया आदेश न्यायोचित नहीं है, उस मामले में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी इस तरह से बहाल कर दिया जाएगा, जैसे कि अध्यक्ष ने कोई आदेश ही न दिया हो।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों वाली एक ऐसी विशेष पुनरीक्षा समिति का गठन करेगा, जो पुनरीक्षा करेगी कि उप-विनियम (1) के अनुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिए या नहीं। यह समिति प्रत्येक ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के मामले की समय-समय पर पुनरीक्षा करेगी और अध्यक्ष को सिफारिश करेगी।

## स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयाजन के लिए वह अधिकारी या कर्मचारी, जिनकी जन्म-तिथि महीने की पहली तारीख हो, अधिवार्षिता की आयु पूरी होने वाले महीने के पिछले महीने के आखिरी दिन सेवानिवृत्त होगा। जो अधिकारी या कर्मचारी कैलेण्डर माह के दौरान पहले दिन को छोड़कर किसी अन्य दिन अधिवार्षिता की आयु पूरी करता है, वह उस महीने के अंतिम दिन सेवा निवृत्त होगा।

### अध्याय - 3

## सेवा-रिकार्ड, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं प्रत्यावर्तन

### 12. सेवा-रिकार्ड

बैंक द्वारा प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए स्थान या स्थानों पर सेवा-रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में रखा जाएगा और उसमें निर्धारित जानकारी भिहित होगी।

### 12. वरिष्ठता

I. बैंक उप-विनियम (3), (4) और (5) के उपबंधों तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं मार्गनिर्देशों के अधीन अधिकारी या कर्मचारी के प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक वरिष्ठता सूचियां तथा संवर्ग के अन्तर्गत संवर्ग-वार सूचियां रखेगा।

II. इन वरिष्ठता सूचियों की बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अन्तरालों पर पुनरीक्षा की जाएगी एवं उन्हें अद्यतन किया जाएगा तथा इन्हें अधिकारियों या कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, के बीच परिचालित किया जाएगा।

III. (क) किसी संवर्ग या वेतनमान में पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी की वरिष्ठता की गणना उस संवर्ग या वेतनमान में उसकी नियुक्ति की तारीख के सन्दर्भ में की जाएगी।

(ख) जहाँ उस संवर्ग या वेतनमान में समान सेवा विस्तार वाले दो या अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हों, वहाँ उनकी परस्पर वरिष्ठता की गणना उनकी इसके ठीक पहले के संवर्ग या वेतनमान में उनकी वरिष्ठता के संदर्भ में की जाएगी।

(ग) जहाँ ऐसे पूर्ववर्ती संवर्ग या वेतनमान में समान सेवा विस्तार वाले दो या अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हो, वहाँ उनकी वरिष्ठता उससे ठीक पहले के संवर्ग या वेतनमान, जैसा भी मामला हो, सन्दर्भ में निर्धारित की जाएगी।

iv. जो भूतपूर्व क्षेत्र अधिकारी या शाखा प्रबंधक वित्तमंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग



नई दिल्ली के दिनांक 29 अप्रैल, 1980 के पत्र संख्या एफ. 2/17/79-आर.आर.बी. द्वारा परिचालित संशोधित वेतनमानों को बैंक द्वारा अपनाए जाने की तारीख को बैंक की सेवा में थे, शाखा प्रबन्धकों की तुलना में उनकी वरिष्ठता की गणना इस तरह की जाएगी कि सभी भूतपूर्व क्षेत्र अधिकारी और/या लेखाकार तत्कालीन मौजूद शाखा प्रबंधकों की तुलना में कनिष्ठ रैंक में होंगे, बशर्ते कि सरकार के दिनांक 22 फरवरी, 1991 के पत्र संख्या 11-3/90 आर.आर.बी. (1) से ठीक पहले मौजूद संवर्ग या वेतनमान के अन्तर्गत आनेवाले अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता वही रहे।

- (v) किसी संवर्ग या वेतनमान में किसी बैच में सीधे भर्ती हुए अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता की गणना उनके चयन के समय उनको आबंटित रैंक के सन्दर्भ में की जाएगी। बशर्ते की यदि सामान्य या आरक्षित श्रेणियों के तहत भर्ती किए गए अधिकारी या कर्मचारी बैंक को आबंटित किए जाते हैं तो एक ही तारीख को कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता आरक्षित श्रेणी के लिए अनुमानिक अंक जोड़े बिना ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

#### 14. पदोन्नति

सभी पदोन्नति बैंक के स्वनिर्णय से की जाएगी और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी पद या संवर्ग में पदोन्नति के लिए अधिकार पूर्व दावा नहीं कर सकता है।

परन्तु यह कि बैंक में अधिकारियों या कर्मचारियों की पदोन्नतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए नियमों के अनुसार जाएगी।

#### 15. प्रत्यावर्तन

कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जिसे अपेक्षाकृत उच्च संवर्ग या वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो या जहाँ उच्च संवर्ग या वेतनमान में स्थायीकरण किसी विशिष्ट अवधि या अन्यथा परिवीक्षा में रहने के अध्यक्षीन हो, वहाँ उसे बिना नोटिस दिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने या परिवीक्षा से किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

## अध्याय - ४

### आचरण, अनुशासन एवं अपील

#### १६. किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा की गुंजाईश

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक का पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी होगा और उसकी सेवाएं बैंक को प्रदान की जाएंगी तथा वह बैंक को उसके कारोबार में उस व्यक्ति या व्यक्तियों, जिनके न्याय-निर्णय, निगरानी या नियंत्रण में उसे रखा गया हो, के निर्देशानुसार क्षमता और स्थान पर सहायता देगा।

#### १७. विनियमों एवं आदेशों के अनुपालन का दायित्व

बैंक का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों के अनुसार कार्य करेगा और उनका अनुपालन करेगा तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी आदेशों एवं निर्देशों का भी अनुपालन करेगा, जिनके न्याय-निर्णय, निगरानी या नियंत्रण में उसे रखा गया हो।

#### १८. गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपने ग्राहकों के बैंक सम्बंधी कार्यों के मामलों के सम्बंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गोपनीय प्रकृति की सूचना को जनता के किसी व्यक्ति या बैंक के किसी कर्मचारी पर तब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक वह न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न हो या जब तक उसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु ऐसा करने के लिए न कहा जाए। इसे सूचित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी अनुसूची सं०-1 में यह घोषणा करेगा।

#### १९. बैंक-हित को बढ़ाने का दायित्व

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक की सेवा ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करेगा और बैंक का हित बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा तथा सरकारी अधिकारियों, बैंक के ग्राहकों के साथ लेन-देन करते समय शिष्टाचार दिखाएगा एवं उन पर ध्यान देगा।

#### २०. प्रेस, रेडियो आदि को योगदान

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस या रेडियो या दूरदर्शन आदि के लिए कोई भी लेख नहीं देगा और ऐसी मंजूरी के बिना ऐसे किसी दस्तावेज या जानकारी को सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं करेगा, जो उनकी सरकारी क्षमता में उसके अधिकार में हो।

## २१. अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बाहर के रोजगार या व्यवसाय या पारिवारिक व्यवसाय बढ़ाने में भाग न लेना

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी बाहरी क्रियाकलाप, रोजगार या कार्यालय, चाहे वह वेतनभोगी हो या अवैतनिक, को स्वीकार, उसके लिए अनुरोध या मांग नहीं करेगा।

परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना किसी सामाजिक या धर्मदाय स्वरूप का अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक, कलात्मक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक प्रकृति का आकस्मिक कार्य इस शर्त के अधीन रहते हुए कर सकता है कि उसमें उसके कार्यालयीन कार्यों में कोई बाधा न पहुँचे।

परन्तु यह भी कि उस कार्य को वह हाथ में नहीं लेगा या उसे करना बन्द कर देगा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैसा करने का निर्देश दिया जाए।

### स्पष्टीकरण

(i) अधिकारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य यदि किसी व्यापार या किसी कारोबार में लगा है या किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी या कमीशन एजेंसी का स्वामी है या उसका प्रबंध करता है तो वह इसकी सूचना बैंक को देगा।

(ii) किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी के जो उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में या प्रबंध के अधीन हो, व्यापार में सहायता के लिए प्रचार करने के कार्य को इस उप विनियम का उल्लंघन माना जायेगा।

(iii) कोई अधिकारी या कर्मचारी बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना और अपने अधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के सिवाय, किसी ऐसे बैंक या अन्य कंपनी के, जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित है, अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी सरकारी समिति के रजिस्ट्रीकरण, प्रवर्तन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा।

परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी सहकारी समिति के, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या परोपकारी समिति के रजिस्ट्रीकरण, प्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकता है।

(iv) कोई अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक संस्था या प्राइवेट व्यक्ति से उसके लिए अपने द्वारा किये गए किसी काम के बदले कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा।

### २२. अधिकारी या कर्मचारी का अनुमति लिए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होना या उपस्थिति में देर न करना

(i) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और न ही वह बीमारी या दुर्घटना के मामले में समुचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किए बिना अनुपस्थित रहेगा।

(ii) कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है या मंजूर की गई छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है तो वह ऐसी अनुपस्थिति या अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की अवधि के लिए कोई वेतन एवं भत्ते लेने का हकदार नहीं होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अधिकारी या कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित या अधिक छुट्टी में रहा जो उसके नियंत्रण से बाहर थी तो वह ऐसी अनुपस्थिति या अधिक छुट्टी की अनदेखी कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि ऐसी अनुपस्थिति या अधिक छुट्टी को स्वीकार्य छुट्टी द्वारा नियमित किया जाए।

### २३. स्टेशन से बाहर रहना

यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अन्य मामलों में शाखा प्रभारी या प्रभारी अधिकारी या शाखा प्रबन्धक का कार्यभार लेता है तो वह अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना रात भर मुख्यालय से बाहर नहीं रह सकता।

### २४. उपहार और दहेज स्वीकार करने से मनाही

(i) कोई अधिकारी या कर्मचारी न तो स्वयं बैंक के किसी ग्राहक से या अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी से कोई उपहार स्वीकार्य नहीं करेगा। और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा।

(ii) कोई अधिकारी या कर्मचारी :-

(1) दहेज नहीं देगा या नहीं लेगा दहेज के लिए नहीं उकसाएगा या

(2) दुल्हन या दूल्हे के माता-पिता या सरंक्षक से, जैसा भी मामला हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दहेज नहीं माँगेगा।

**स्पष्टीकरण**

इस विनियम के "दहेज" का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1996 (1996 का 28) में है।

**२५. स्टॉकों, शेयरों आदि में सट्टेबाजी**

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी संस्था के स्टॉकों, शेयरों, प्रतिभूतियों या किसी किस्म की वस्तुओं में सट्टेबाजी नहीं करेगा।

परन्तु यह विनियम किसी रूप में किसी अधिकारी या कर्मचारी को अपने तरीके से अपनी निधियों का प्रमाणिक निवेश करने से रोकने वाला नहीं माना जायेगा।

**स्पष्टीकरण**

किसी संस्था के स्टॉकों, शेयरों या प्रतिभूतियों या किसी किस्म की वस्तु की जल्दी-जल्दी क्रय या विक्रय करना

इस विनियम के प्रयोजन के लिए सट्टेबाजी माना जायेगा।

**२६. कर्ज लेने और देने तथा निवेशों पर प्रतिबंध :-****१. कोई अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से :-**

(i) किसी दलाल या साहूकार या बैंक के किसी अधिनस्थ अधिकारी या कर्मचारी या किसी ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के संघ, फर्म कंपनी या संस्था से, चाहे वह निगमित हो या न हो, जिसके साथ बैंक का लेन-देन का व्यवहार हो, कर्ज नहीं लेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य को कर्ज लेने की अनुमति नहीं देगा या अन्यथा स्वयं को या अपने किसी परिवारजन को किसी आर्थिक बाध्यता में नहीं डालेगा।

(ii) किसी बिक्री के मामले में डिलीवरी या स्क्रिप्स की खरीदारी के मामले में पूरी कीमत चुकाने के लिए धन के बिना स्टॉकों, शेयरों या किसी भी तरह की प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त नहीं करेगा।

(iii) किसी घुड़दौड़ के समय ऋण नहीं लेगा।

(iv) बैंक के किसी संघटक को निजी हैसियत में कर्ज नहीं देगा या विनियम पत्रों, सरकारी ऋण पत्र या किन्हीं अन्य प्रत्याभूतियों की खरीद-फरोख्त में ऐसे संघटक से कोई व्यक्तिगत लेन-देन का व्यवहार नहीं रखेगा; और

(v) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपनी निजी हैसियत से किसी अन्य व्यक्ति की आर्थिक बाध्यताओं की गारंटी नहीं देगा या उस हैसियत में किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं होगा।

परन्तु कोई अधिकारी कर्मचारी किसी रिश्तेदार या निजी मित्र से बिना ब्याज की रकम वाला बिलकुल अस्थायी कर्ज ले सकता है या उन्हें दे सकता है, या किसी वास्तविक व्यापारी के पास उधारखाता खोल सकता है या अपने किसी निजी कर्मचारी को वेतन अग्रिम दे सकता है।

परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी ऐसी सहकारी उधार सोसाइटी से ऋण प्राप्त कर सकता है जिसका वह सदस्य हो या जिस सहकारी उधार सोसाइटी को वह सदस्य हो, उससे किसी अन्य सदस्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए जमानत दे सकता है।

(2) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने निजी कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करेगा कि वह दिवालियापन या आदतन ऋणग्रस्तता से बच सके। ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो ऋणग्रस्त हो, सक्षम प्राधिकारी को 30 जून एवं 31 दिसम्बर को अपनी छमाही स्थिति का विवरण हस्ताक्षर करके देगा और विवरण में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उपायों का उल्लेख करेगा। ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो इस नियम के तहत झूठा विवरण देता है या जो निर्धारित विवरण नहीं दे पाता या जो उचित समय-सीमा के अन्दर अपना ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है या बचाव के लिए दिवालियापन से संबंधित न्यायालय में आवेदन करता है, उसे बर्खास्त किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :- 1: इस नियम के प्रयोजन से किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को ऋणी समझा जाएगा अगर उसकी कुल देयताएँ पूरी तरह से सुरक्षित देयताओं को छोड़कर, बारह माह के मूल वेतन से अधिक हैं।

स्पष्टीकरण :- 2: किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को पर्याप्त समय के भीतर अपने ऋण परिसमाप्त करने में असमर्थ समझा जाएगा अगर उसके निजी संसाधनों एवं अपरिहार्य चालू खर्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह दो वर्षों की अवधि के भीतर ऋण से मुक्त नहीं होगा।

## २७. चल, अचल और बहुमूल्य सम्पत्ति

1. प्रत्येक अधिकारी अपनी पहली नियुक्ति पर निम्नलिखित के संबंध में पूरा ब्यौरा देते हुए अपनी अस्तियों एवं देयताओं से संबंधित एक विवरणी प्रस्तुत: करेगा :-

(क) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके द्वारा अपने नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे या बंधक के रूप में धारित अचल सम्पत्ति।

(ख) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उपर्युक्त रूप से उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा

अर्जित या धारित शेयर डिबेन्चर और नकदी, जिसके अंतर्गत बैंक में जमा धन भी है :

- (ग) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त और उपर्युक्त रूप में उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित या धारित अन्य चल सम्पत्ति : तथा
- (घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए कर्ज और उठाए गए अन्य दायित्व । परन्तु उस अधिकारी के मामले में, जो उस तारीख को जब ये विनियम लागू हो, बैंक में सेवारत हो, वह इन विनियमों के लागू होने के तीन महीने के भीतर इस विनियम की शर्तों के अनुरूप विवरणी प्रस्तुत करेगा । यह विवरणी अधिकारी की अस्तियों और देयताओं की उस तारीख की स्थिति के बारे में होगी जब से ये विनियम लागू हों ।

2. प्रत्येक अधिकारी प्रति वर्ष उस वर्ष के 30 अप्रैल से पहले उस वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी चल, अचल सम्पत्ति की एक विवरणी बैंक को प्रस्तुत करेगा।
3. कोई अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई अचल सम्पत्ति पट्टे, बंधक, क्रय, विक्रय उपहार या किसी अन्य रूप में न तो अर्जित करेगा और न उसका निस्तार करेगा ।

परन्तु अधिकारी कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी यदि ऐसा कोई लेन-देन :

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाए जिसके साथ अधिकारी के आधिकारिक संबंध हो :
- (ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से करने के बजाए अन्यथा किया जाए ।

4. प्रत्येक अधिकारी उस चल सम्पत्ति से संबंधित प्रत्येक लेन - देन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा, जो उसके अपने नाम में या उसके किसी परिवार जन के नाम से उसके पास हो या स्वामित्व में हो, यदि उस सम्पत्ति का मूल्य 10,000/- रु० से अधिक हो ।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी को पूर्व मंजूरी तब अवश्य प्राप्त करनी होगी यदि ऐसा कोई लेन - देन :

- (क) ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका अधिकारी के साथ आधिकारिक व्यवहार हो, या
- (ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से न होकर अन्यथा हो ।

5. पूर्वगामी उपविनियम में दिए गए किसी तथ्य के बावजूद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय सामान्य अथवा

विशेष आदेश के द्वारा किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से उस चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से उसके किसी परिवार जन द्वारा धारित हो या अर्जित की गई हो, उक्त आदेश में निर्देश के अनुसार और आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर व्योरेवार सम्पूर्ण विवरण पेश करने की मांग कर सकता है। यदि बैंक द्वारा कहा गया हो तो उसक विवरण में उन स्रोतों के ब्यौरे भी जिनसे यह सम्पत्ति अर्जित की गई हो, शामिल करने होंगे।

## २८. विवाद संबंधी पाबंदी :

- (i) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हो, न तो विवाह करेगा और न ही विवाह करने की सविदा करेगा; और
- (ii) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से न तो विवाह करेगा और न ही विवाह करने की सविदा करेगा;

परन्तु किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को खण्ड (1) या खण्ड (2) में उल्लिखित कोई ऐसा विवाह करने या विवाह सविदा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमति दे सकता है बशर्ते उसका यह समाधान हो जाए कि :

- (क) ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी और विवाह के दूसरे पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल ला) के अधीन ऐसे विवाह के लिए अनुमति दी जा सकती है; और
- (ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं।

2. यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी ने किसी ऐसे व्यक्ति से जो भारतीय नागरिक नहीं है, विवाह किया है या करता है तो वह इस तथ्य को सूचना बैंक को तुरंत देगा।

## २९. कर्ज अथवा दण्डनीय अपराध के लिए गिरफ्तार अधिकारी अथवा कर्मचारी

- (1) अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसे कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में कर्ज के लिए अथवा किसी दंडनीय आरोप के लिए गिरफ्तार किया जात है अथवा नजरबंद किया जाता है, सक्षम अधिकारी द्वारा यथा निर्देशित, उसकी गिरफ्तारी की तारीख से अथवा जैसा मामला हो, उसे नजरबंद करने की तारीख से ऐसी तारीख तक अथवा ऐसी अवधि के दौरान जैसा सक्षम प्राधिकारी ने निदेश दिया हो, निलम्बित अथवा निलम्बनाधीन माना जाएगा। बशर्ते कि उस अवधि के संबंध में जिसके लिए उसे ऐसा माना



जाता है, उसे विनियम 44 में यथा विनिर्दिष्ट निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

- (2) किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को उप विनियम (i) के अंतर्गत किया गया कोई भुगतान उसके वेतन एवं भत्ते के समायोजन के अध्यक्षीन होगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार तथा इस निर्णय के संबंध में कि क्या ऐसी अवधि की गणना ड्यूटी की अवधि अथवा छुट्टी के रूप में मानी जाए, के अनुसार किया जाएगा ।

पूरा वेतन तथा भत्ते अनुमत्य होंगे बशर्ते कि अधिकारी अथवा कर्मचारी को

- (क) ऐसी अवधि के दौरान ड्यूटी पर होना माना जाता है; तथा
- (ख) सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है अथवा सक्षम प्राधिकारी को अपने नजरबंदी से रिहाई के मामलों में अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अपनी नजरबंदी अपास्त करवाने में संतुष्ट कर देता है कि वह अनुचित आचरण का दोषी नहीं पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप उसे नजरबंद किया गया था ।
3. (क) अधिकारी अथवा कर्मचारी पदच्युत अथवा विनियम 38 में उल्लेखित अन्य किसी शास्ति का जिम्मेदार होगा अगर वह कर्ज के लिए जेल जाता है अथवा कोई ऐसा अपराध करता है जो सक्षम प्राधिकारी के मत में किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़ा हुआ है, अथवा बैंक के किसी कार्य से संबंध रखता है अथवा बैंक में अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा की गई अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का मत अंतिम एवं अधिकारी अथवा कर्मचारी पर बाध्य होगा ।
- (ख) ऐसी पदच्युत अथवा अन्य शास्ति उसके जेल जाने की अथवा दोषी पाए जाने की तारीख से अधिरोपित की जायेगी तथा ऐसे अधिरोपण पर विनियम 38 को कोई अंश लागू नहीं होगा ।
4. जहां कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी की पदच्युत उप विनियम (3) के अनुसरण में किया जाता है तथा उच्च न्यायालय द्वारा सापेक्ष दोषारोपण अपास्त कर दिया जाता है तथा अधिकारी अथवा कर्मचारी को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया जाता है, तब उसे सेवा में बहाल किया जाएगा ।
5. जहां किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की अनुपस्थिति छुट्टी लिए बिना है अथवा उसका स्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने का कारण कर्ज के लिए अथवा दंडनीय आरोप के कारण हिरासत में होना अथवा कानूनी प्रक्रिया के अनुसरण में नजरबंद किया जाना है, विनियम 22 के उपबंध भी लागू होंगे, यथा लागू विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी अथवा कर्मचारी को छुट्टी के बिना अनुपस्थित होना माना जाएगा अथवा जैसा मामला हो, उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में अन्यथा छुट्टी से अधिक रूका हुआ माना

जाएगा ।

### ३०. राजनीति में भाग लेने तथा चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी राजनीति में अथवा राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा अथवा नगर परिषद, जिला परिषद, जिला मंडल/बोर्ड अथवा अन्य किसी स्थानीय अथवा विधायी निकाय सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा ।

### ३१. कुछ संघों का सदस्य बनने, हड़ताल आदि में भाग लेने पर प्रतिबंध

- (1) कोई अधिकारी, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दिए गए अर्थ के अनुसार 'कर्मकार' नहीं है,
  - (क) बैंक के कर्मचारियों जो उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकार है, के किसी मजदूर संघ अथवा ऐसे मजदूर संघों के किसी महासंघ का सदस्य नहीं बनेगा अथवा सदस्य बना रहेगा अथवा पदधारी अन्यथा स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से उससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा ।
  - (ख) बैंक के किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों अथवा अपनी सेवा शर्तों से संबंधित किसी मामले के संबंध में किसी प्रदर्शन का आश्रय अथवा किसी रूप में उकसाना, किसी रूप में हड़ताल अथवा किसी हिंसात्मक, अनुचित अथवा अशोभनीय कृत्य नहीं करेगा ।
- (2) कोई कर्मचारी, जो उस ग्रेड अथवा पद स्थापनापन्न रूप से कार्य करता है जो उपर्युक्त उल्लेखित 'कर्मकार' या ग्रेड अथवा पद नहीं है के संबंध में ये विनियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कर्मचारी ऐसे उच्च ग्रेड अथवा पद पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहेगा ।
- (3) कोई कर्मचारी किसी ऐसी संस्था का सदस्य नहीं बनेगा अथवा बना रहेगा जिसके उद्देश्य और गतिविधियाँ भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता के हितों के, राज्य की सुरक्षा के, बाह्य राज्यों के साथ मित्रता के संबंधों के, सार्वजनिक व्यवस्था, निन्दा अथवा अपराध प्रेरण के प्रतिकूल हों ।

### ३२. साक्ष्य देना

- (i) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी जांच के सिलसिले में साक्ष्य नहीं देगा ।
- (ii) जहां उप विनियम (i) के अंतर्गत अनुमति दी गई हो, वहाँ कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी ऐसा साक्ष्य देते हुए केन्द्रीय सरकार की, राज्य सरकार बैंक की नीति या उसके किसी कार्य की आलोचना

नहीं करेगा ।

### ३३. बैंक अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्मान में कार्यक्रम

- (i) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई सम्मानार्थ या बिदाई अभिनंदन स्वीकार नहीं करेगा या कोई प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं करेगा या अपने सम्मान में या बैंक के किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्मान में अयोजित किसी सभा या सत्कार आयोजन में भाग नहीं लेगा :

परन्तु यह उप विनियम किसी भी रूप में निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा -

- (क) अधिकारी अथवा कर्मचारी या बैंक के अन्य किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवानिवृत्त या बदली होने के अवसर पर या जिस व्यक्ति ने हाल ही में बैंक की नौकरी छोड़ दी हो, उसके सम्मान में आयोजित पर्याप्त रूप से निजी और अनौपचारिक प्रकृति का बिदाई आयोजन; और
- (ख) बैंक अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के संघ द्वारा आयोजित साधारण तथा कमखर्च वाला सत्कार स्वीकार करना ।
- (ii) (क) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर प्रभाव के द्वारा उसे विदाई आयोजन में चन्दा देने के लिए राजी या बाध्य नहीं करेगा।
- (ख) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी उच्च ग्रेड वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी के सत्कार के लिए किसी मध्यम या निम्न ग्रेड वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी से बिदाई आयोजन के लिए चन्दा एकत्र नहीं करेगा ।

### ३४. अनुयाचन

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बैंक के अधीन अपने सेवा से संबंधित मामलों के बारे में अपने हितों को बढ़ाने के लिए किसी उच्च अधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डलवाएगा और न ही डलवाने का प्रयास करेगा ।

### ३५. चन्दा

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य

की पूर्ति के लिए ग्राहकों से कोई निधि बनाने या नकद या वस्तु के रूप में कोई अन्य संग्रहण करने के काम में स्वयं को शामिल नहीं करेगा या उसके लिए चन्दा स्वीकार नहीं करेगा या चन्दा नहीं मांगेगा।

### ३६. मादक द्रव्यों का सेवन

अधिकारी अथवा कर्मचारी

- (क) जिस किसी क्षेत्र में जिस समय भी मौजूद हो, वहां वह उस क्षेत्र में मादक पेय, औषध द्रव्यों, (ड्रग) या अन्य पदार्थों से संबंधित लागू किसी भी कानून का ठीक पालन करेगा :
- (ख) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी मादक पेय, औषध अथवा अन्य पदार्थ के असर में नहीं रहेगा और यह सावधानी बरतेगा कि उसके कर्तव्यों के पालन किए जाने में ऐसे पेय, औषध अथवा अन्य पदार्थों का किसी तरह से कोई दुष्प्रभाव न हो;
- (ग) सार्वजनिक स्थल पर मादक पेय, औषध अथवा अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा;
- (घ) नशे के हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर उपस्थित नहीं होगा ।

### स्पष्टीकरण :

इस नियम के प्रयोजन के लिए 'सार्वजनिक स्थान' से ऐसा कोई भी स्थान या परिसर (जिसके अंतर्गत क्लब, चाहे वे ऐसे सदस्यों के लिए अनन्य रूप से हों जहां उन्हें गैर सदस्यों को मेहमानों के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति प्राप्त है, बार और रेस्तरां, भी है) अभिप्रेत है जहां साधारण जन भुगतान करके अथवा अन्यथा प्रवेश कर सकता है या उसे प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है ।

### ३७. यौन उत्पीड़न

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी कार्य स्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न का कोई कृत्य नहीं करेगा ।

### स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'यौन उत्पीड़न' में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः ऐसे अवांछनीय कामुक व्यवहार शामिल है, जैसे :-

- (क) शारीरिक स्पर्श और पहल

- (ख) यौन चाह की मांग अथवा अनुरोध
- (ग) यौन रंजित अभ्युक्तियां
- (घ) कोई अश्लील साहित्य दिखाना, अथवा
- (ङ) कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर-मौखिक यौन प्रकृति का आचरण

### ३८. शास्तियाँ

इस अध्याय के पूर्ववर्ती विनियमों के पूरा होने के बिना, अगर कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी इन विनियमों का उल्लंघन करता है अथवा उपेक्षा, अकुशलता अथवा निष्क्रियता दर्शाता है अथवा बैंक के हितों के लिए हानिकर अथवा इसके अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य करता है अथवा अनुशासन भंग का कार्य करता है अथवा कदाचार के किसी कार्य के लिए दोषी है, नीचे दी गई शास्तियों में से किसी एक अथवा अधिक का दोषी होगा।

#### I. अधिकारी

(क) छोटे दण्ड :

- (i) निन्दा करना :
- (ii) संचयी प्रभाव सहित या रहित वेतन बृद्धियां रोक रखना :
- (iii) पदोन्नपति रोक रखना :

(ख) बड़े दण्ड :

- (i) लापरवाही या आदेश भंग के कारण बैंक को हुई आर्थिक हानि का पूरा अथवा अंशतः उसके वेतन से अथवा उसे देय अन्य रकम में से वसूली :
- (ii) निचले प्रक्रम या पद में कमी अथवा समय-मान में निचले वेतनमान;
- (iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति
- (iv) सेवा से वखास्तगी, जो भावी नियोजन हेतु अयोग्यता नहीं होगी;
- (v) पदच्युति

#### स्पष्टीकरण

निम्नलिखित को उस विनियम के अर्थ में शास्ति की कोटि में नहीं माना जायेगा।

- (i) किसी अधिकारी को उस पद पर नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, जिस पर वह कार्यरत हो, निर्धारित विभागीय टेस्ट या परीक्षा पास न कर पाने के कारण एक या अधिक वेतनवृद्धियों को रोक लेना :
- (ii) दक्षता रोध पार करने में अयोग्य होने के आधार पर किसी अधिकारी के वेतन को समय-मान में दक्षता रोध पर रोका जाना :
- (iii) किसी अधिकारी को उच्चतर ग्रेड अथवा पद जिसके लिए वह विचार करने के लिए पात्र हो सकता है, स्थानापन्न कार्यभार अथवा प्रोन्नति न देना, परन्तु उसके संबंध में विचार किए जाने के बाद जिसके लिए उसे अयोग्य पाया जाए;
- (iv) पदोन्नति के लिए कतिपय अपेक्षा अथवा अनुशासनिक प्रक्रियाओं के विचाराधीनता के पूरा करने जैसे कारणों के लिए किसी अधिकारी की पदोन्नति को रोकना अथवा स्थगित करना :
- (v) उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे किसी अधिकारी का इस कारण से निचले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन कि परीक्षण के बाद, उसे उस उच्चतर ग्रेड या पद के अयोग्य समझा जाए या उन पर प्रशासनिक कारणों से जो उसके आचरण से असंबंधित हों;
- (vi) किसी अधिकारी का, जो किसी दूसरे ग्रेड या पद पर परिवीक्षाधीन के दौरान या अंत में उसकी नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षावधि के नियामक नियमों या आदेशों के अनुसार उसके पिछले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन ;
- (vii) कोई अधिकारी यदि प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ है तो उसके मूल संगठन में प्रत्यावर्तन :
- (viii) अधिकारी की सेवा की समाप्ति :
- (क) किसी संविदा या करार के अन्तर्गत के अलावा अस्थायी रूप से नियुक्त किसी अधिकारी की उस अवधि के समाप्त हो जाने पर, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था या उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उससे पहले।
- (ख) किसी संविदा या करार के अंतर्गत नियुक्त किसी अधिकारी की, उस संविदा या करार की शर्तों के अनुसार; और
- (ग) छटनी के भाग के रूप में  
परन्तु यदि विनियम के खण्ड I के उप खण्ड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट किसी छोटे दण्ड को लगाने का

प्रस्ताव है, संबंधित अधिकारी को उसके विरुद्ध चूकों के व्योरे लिखित में सूचित किए जाएंगे और उसे 15 दिनों की विनिर्दिष्ट अनधिक अवधि अथवा ऐसी बढ़ी हुई अवधि जो सक्षम प्राधिकारी मंजूर करे, के अन्दर बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बचाव बयान पर यदि कोई हो, को आदेश पारित करने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा। परन्तु यह कि उपर विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दण्ड लगाने का कोई आदेश उस सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और लिखित रूप से आरोप पत्र अधिकारी को दिए जाने के बाद ऐसा कोई आदेश पारित किया जायेगा और जांच ऐसे की जायेगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरोपों का खण्डन करने और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर रहे।

परन्तु यह भी कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, यदि

- (i) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है, बैंक निष्कासन अथवा बरखास्तगी का दण्ड लगाने का इरादा नहीं रखता है; और
- (ii) बैंक ने अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और ऐसे कदाचार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे में कहा गया है; और
- (iii) अधिकारी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है।

## (II) कर्मचारी

(क) छोटे कदाचार के लिए दण्ड

(i) निंदा करना :

(ii) उसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी रिकार्ड करना :

(iii) 6 महीनों की अनधिक अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोक रखना :

(ख) बड़े कदाचार के लिए दण्ड

(i) जुर्माना

(ii) वेतनवृद्धि (वृद्धियों) को रोके रखना

(iii) विशेष भत्तों को वापस ले लेना

- (iv) उस मामले में यदि स्टाफ वेतनमान अधिकतम तक पहुंच गया है तो 2 वर्षों की अधिकतम अवधि तक अगले निम्न स्तर तक वेतन में कमी ।
- (v) सेवा से बर्खास्तगी परन्तु वह भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी,
- (vi) बर्खास्तगी ।

परन्तु यह कि उपर विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दण्ड लगाने का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और ऐसा कोई आदेश लिखित आरोप पत्र अधिकारी को दिए जाने के बिना पारित नहीं किया जाएगा और जाँच ऐसे की जाएगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरोपों का खण्डन करने और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर रहे। परन्तु यह भी कि कोई जाँच कराने की आवश्यकता नहीं है, यदि

- (i) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है, बैंक निष्कासन अथवा बरखास्तगी का दण्ड लगाने के इरादा नहीं रखता है :
- (ii) बैंक ने अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और ऐसे कदाचार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे में कहा गया है : और
- (iii) अधिकारी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया हो।

### 39. प्रक्रिया का अधित्याग

विनियम 38 की अपेक्षाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है।

- (क) यदि वे तथ्य जिनके आधार पर अधिकारी अथवा कर्मचारी पर दण्ड लगाया जाना है, वह न्यायालय अथवा सेवा न्यायालय में सिद्ध हो गये हैं, अथवा
- (ख) जहाँ अधिकारी अथवा कर्मचारी को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है ; अथवा
- (ग) जहाँ अधिकारी अथवा कर्मचारी फरार हो गया है ; अथवा
- (घ) जहाँ किसी अन्य कारण से उससे सम्पर्क करना अव्यवहारिक था, अथवा
- (ङ) जहाँ विनियम 38 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यवहारिक नहीं था। परन्तु यह कि विनियम 38 की अपेक्षा का अधित्याग नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा करने के कारणों को लिखित में और बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाता है।



#### 40. जाँच के लिए शक्ति का प्रायोजन

विनियम 38 के अंतर्गत जाँच और प्रक्रिया की शक्ति अंतिम आदेश को छोड़कर, सक्षम अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को, जो उस अधिकारी से वरिष्ठ है जिसके विरुद्ध प्रक्रियाएँ प्रारम्भ की गई हैं और कर्मचारी के मामले में किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती है।

परन्तु यह कि सक्षम अधिकारी, अपने विवेक से जाँच आयोजित करने हेतु अन्य संस्थाओं से प्रतिनियुक्त पर आए अधिकारियों सहित, बैंक में कार्यरत किसी अधिकारी को नामित कर सकते हैं।

#### 41. सामान्य जाँच

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, यदि विभिन्न ग्रेड के दो अधिकारी अथवा एक अधिकारी और एक कर्मचारी किसी घटना में सम्मिलित रूप से अंतर्ग्रस्त है और दोनों के विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई प्रारम्भ की जानी है और अध्यक्ष की राय है कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी दोनों के संबंध में, अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि अंतर्ग्रस्त अधिकारी और कर्मचारी दोनों के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एक ही होगा और उन दोनों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर सामान्य जाँच की जाएगी और विनियम 40 के अंतर्गत जाँच करने की शक्ति और प्रक्रिया, अंतिम आदेश के उपवादस्वरूप, उसी जाँच अधिकारी के पक्ष में होगी।

#### 42. भ्रष्ट प्रक्रियाएँ

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे जहाँ यह आरोप लगाया जाता है कि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्ट प्रक्रियाओं का दोषी पाया गया है, अर्थात्;

- (i) जहाँ यह आरोप लगाया जाता है कि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अनुपातहीन आस्तियां रखता है अथवा उसने आपराधिक कदाचार किया है अथवा जहाँ आरोप की जाँच और प्रमाण में उन व्यक्तियों की गवाही की आवश्यकता होगी जो बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं हैं, अथवा जहाँ, अध्यक्ष की राय में, आरोपों की जाँच बैंक द्वारा सुविधाजनक रूप से नहीं की जा सकती है, आरोपों की जाँच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा अन्य प्राधिकरण जिसका अध्यक्ष अपुमोदन करे, को सौंपी जा सकती है।
- (ii) यदि जाँच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि अधिकारी अथवा

कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा ऐसा अन्य प्राधिकरण को जो अध्यक्ष इस संबंध में समय - समय पर निर्णय ले, को राय लेने के लिए जांच रिपोर्ट भेज सकता है कि क्या संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

- (iii) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा ऐसा प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, की राय पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी की राय है कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए, तब इस विनियम के अंतर्गत जांच विभागीय जांच आयुक्त अथवा इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित किसी व्यक्ति को सौंपी जा सकती है।
- (iv) जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और यह रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी उसकी राय के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग भेजेगा कि क्या आरोप अथवा आरोपों जैसा भी मामला हो, को लगाने के लिए विचार किया जा सकता है और विनियम 38 के अंतर्गत दण्ड अथवा दण्डों लगाए जाएं। लगाए जाने वाले दण्ड अथवा दण्डों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की राय पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेगा।

### स्पष्टीकरण

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्ट कार्यों का दोषी माना जाएगा यदि उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा 13, 14, 15 और 16 में परिभाषित आपराधिक कदाचार का कार्य किया है अथवा उसने अनुचित, प्रयोजन के लिए अथवा भ्रष्ट ढंग से कार्य किया है अथवा उसने भ्रष्ट उद्देश्य से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया अथवा शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है।

### ४३. वकील के विनियोजन पर प्रतिबंध

जांच के प्रयोजन हेतु, अधिकारी अथवा कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वकील को व्यवस्था नहीं करेगा।

### ४. सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्रवाई

- (i) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो कदाचार के आरोप से निलंबनाधीन है जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है उसे अधिवर्षिता की आयु के पश्चात भी अनुशासनिक कार्रवाई जारी रखने

तथा समाप्त करने तक तथा उसके संबंध में अंतिम आदेशों के पारित होने तक विशिष्ट प्रयोजन हेतु सेवा में माना जाएगा। ऐसा निलम्बित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख से परे अवधि के लिए किसी गुजारा भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

- (ii) अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई प्रारम्भ की गई है अधिवर्षिता की तारीख को सेवा में नहीं माना जाएगा परन्तु अनुशासनिक कारवाई चलती रहेगी जैसे कि वह सेवा में था जब तक कि कारवाई समाप्त नहीं हो जाती है और उस पर अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता है। संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख के बाद वेतन और/अथवा भत्ते प्राप्त नहीं करेगा। कारवाई के पूरा होने और अंतिम आदेशों के पारित होने तक वह सेवानिवृत्त लाभ के भुगतान के लिए भी हकदार नहीं होगा सिवाय अपने स्वयं के सी पी एफ अंशदान के।

### स्पष्टीकरण

विशेषाधिकार छुट्टी और उपदान के नकदीकरण जैसे सेवानिवृत्त लाभ, अनुशासनिक कारवाइयों के पूरा होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश के पारित होने तक रोक दिए जाने चाहिए। लाभों का जारी करना उक्त प्राधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार होगा।

### ४५. निलंबन

किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन किया जा सकता है। ऐसे निलंबन के दौरान, अधिकारी अथवा कर्मचारी नीचे दिए गए अनुसार गुजारा भत्ते का हकदार होगा;

#### (१) अधिकारी के मामले में

##### (क) मूल वेतन

- (i) निलंबन से पहले तीन महीने उस मूल वेतन का 1/3 जो अधिकारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था चाहे जांच किसी भी प्रकार की हो।
- (ii) बाद की अवधि के लिए :-
- (क) यदि जांच बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती है तो उस मूल वेतन का 1/2 जो वह अधिकारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था।
- (ख) यदि जांच किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा की जाती तो अगले तीन महीने के लिए मूल वेतन का 1/3 और निलंबन

की शेष अवधि का 1/2

(ख) भत्ते

निलंबन की संपूर्ण अवधि के लिए विशेष भत्ते को छोड़कर मंहगाई भत्ता अन्य भत्तों का हिसाब घटे हुए वेतन पर जैसा कि खण्ड (क) के उप खण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट के और चालू दरों पर अथवा इसी वर्ग में अधिकारियों पर लागू दरों पर लगाया जाएगा ।

२. कर्मचारी के मामले में

(क) मूल वेतन

- (i) निलंबन से पहले तीन महीने उस मूल वेतन का 1/3 जो कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था चाहे जांच किसी भी प्रकार की हो ।
- (ii) बाद की अवधि के लिए
- (क) यदि जांच बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती है तो उस मूल वेतन का 1/2 जो वह कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था ।
- (ख) एक वर्ष के पश्चात पूर्ण वेतन यदि विभागीय जांच संबंधित कर्मचारी अथवा उसके किसी प्रतिनिधियों के कारण देरी नहीं हुई ।
- (ग) जहां जांच बाहरी एजेंसी द्वारा की जाती है और उक्त एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कर्मचारी पर मुकदमा न चलाया जाए, ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से छः महीनों अथवा निलंबन के बाद एक वर्ष के बाद जो भी बाद में हो, और उस हालत में, जब जांच में देरी कर्मचारी अथवा कर्मचारी के किसी प्रतिनिधि के कारण नहीं हुई, पूर्ण वेतन देय होगा ।

(ख) भत्ते

निलंबन की संपूर्ण अवधि के लिए विशेष भत्तों को छोड़कर, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों का हिसाब, घटे हुए वेतन जैसा कि खण्ड (क) उपखण्ड (i) और (ii) (क) में विनिर्दिष्ट है चालू दरों पर अथवा इसी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू दरों पर लगाया जाएगा ।

परन्तु यह कि कोई अधिकारी या कर्मचारी तब तक गुजारा भत्ते का भुगतान प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह इस आशय का घोषणा-पत्र नहीं उपलब्ध करा देता है कि वह किसी अन्य रोजगार,

कारोबार या व्यवसाय में नहीं लगा है ।

परन्तु यह और कि यदि निलंबन की अवधि के दौरान कोई कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के कारण सेवानिवृत्त हो गया तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

#### ४६. निलम्बन की अवधि और सम्बद्ध मामलों का निरूपण

सक्षम प्राधिकारी, दंड लगाते समय इस आशय का निर्देश भी दे सकता है कि अधिकारी या कर्मचारी को गुजारा भत्ते और उस अवधि, जिसमें वह निलंबित था, के लिए परिलब्धियों, जो उसने ऐसे निलम्बन के लिए प्राप्त किया होगा, के बीच के अंतर का भुगतान किया जाएगा या नहीं और कि यदि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्णय लेता है तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जिसके प्रभाव से अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे गुजारा भत्ते को वापस करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उस अवधि जिसके दौरान कोई अधिकारी या कर्मचारी निलंबनाधीन है, को जैसा सक्षम प्राधिकारी निदेश दे, ड्यूटी पर बिताई गई अवधि या अन्यथा के रूप में माना जाएगा यदि उसे सेवाओं से बर्खास्त न कर दिया गया हो ।

#### ४७. अपील करने का अधिकार

- (i) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसे विनियमों के अन्तर्गत जारी किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा जो उसके हितों को हानिकारक ढंग से प्रभावित करते हैं ।
- (ii) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी हो उसके प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के भीतर विनियम 48 में वर्णित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील प्रस्तुत की जायेगी । अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और अधिमान्तयः 6 महीने की अवधि के भीतर उपर्युक्त आदेश जारी करेगा।

#### ४८. अपीलीय प्राधिकारी

अपील :

- (i) बोर्ड के पास की जाएगी जहां अध्यक्ष या निदेशकों की समिति सक्षम प्राधिकारी है ।
- (ii) अध्यक्ष के पास की जाएगी जहां कोई अन्य अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है ।

#### ४९. अपील की अपेक्षा

प्रत्येक अपील के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा :

- (क) यह लिखित रूप में होगी और नम्र एवं आदरपूर्ण भाषा में व्यक्त की जाएगी और अनावश्यक विस्तार या अतिशय शब्दाडंबर से मुक्त होगी ।
- (ख) इसमें सभी महत्वपूर्ण विवरण और बहस राहत होंगी तथा स्वयं में पूर्ण होंगी ।
- (ग) इसमें अपेक्षित विनिर्दिष्ट होंगी ।
- (घ) यह व्यक्तिगत रूप से निदेशकों को सम्बोधित नहीं की जाएगी ।

## अध्याय - V

### वेतन और भत्ते

#### ५०. कब प्रोद्भूत और देय होगा

इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन वेतन और भत्ते किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा के शुरुआत से प्रोद्भूत होंगे और प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस को उक्त महीने के दौरान दी गई सेवा के लिए देय होंगे ।

#### ५१. समाप्ति का समय

- (i) जैसे ही किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है वेतन और भत्ते का प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा ।
- (ii) बैंक की सेवा से किसी अधिकारी या कर्मचारी के बर्खास्त कर दिए जाने की स्थिति में बर्खास्तगी की तारीख से वेतन और भत्ते समाप्त हो जाएंगे ।
- (iii) वैसे अधिकारी या कर्मचारी के मामले में जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, वेतन और भत्ते मृत्यु के अगले दिन से समाप्त हो जाएंगे ।

#### ५२. वेतन - वृद्धि

किसी वेतनमान में उस वेतनमान के प्रत्येक चरण में सेवा की प्रत्येक विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर वेतनवृद्धि प्रोद्भूत होगी ।

परन्तु यह कि अधिकारी या कर्मचारी इसके प्रोद्भूत होने की वास्तविक तारीख के स्थान पर उस महीने की पहली तारीख को वेतनवृद्धि आहरित करेगा जिस महीने में यह देय है ।

## अध्याय - VI

**५३. छुट्टी और कार्य ग्रहण का समय****छुट्टी के प्रकार**

इन विनयों के प्रावधानों के अधीन अधिकारी या कर्मचारी :

निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी के लिए पात्र होगा :

- (क) आकस्मिक छुट्टी
- (ख) विशेषाधिकार छुट्टी
- (ग) बीमारी छुट्टी
- (घ) असाधारण छुट्टी
- (ङ) विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष छुट्टी
- (च) प्रसुति छुट्टी

**५४. छुट्टी मंजूर करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी**

छुट्टी देने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारी को होंगी ।

**५५. छुट्टी देने से मना करने तथा छुट्टी पर गए अधिकारी या कर्मचारी को वापस बुलाने की शक्ति**

- (i) छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है । जब सेवा की अनिवार्यता होगी तो किसी भी प्रकार की छुट्टी से मना करने या उसे रद्द करने का विवेकाधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित है ।
- (ii) बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर छुट्टी पर गए अधिकारी या कर्मचारी को सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्य पर वापस बुलाया जा सकता है ।

परन्तु यह कि यदि उस समय अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर है तो वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा मुख्यालय लौटने के लिए किए गए वास्तविक खर्च को पाने का पात्र होगा ।

**५६. छुट्टी के वापस आने पर रिपोर्ट करने का स्थान**

छुट्टी पर गया अधिकारी या कर्मचारी, जब तक कि इसके विपरीत अन्यथा कोई अनुदेश न जारी किया गया हो, उसी स्थान पर छुट्टी पर वापस आएगा जहां वह छुट्टी पर जाने से पूर्व तैनात था ।

**५७. निलंबनाधीन अधिकारी या कर्मचारी के लिए छुट्टी स्वीकार्य नहीं ।**

निलंबनाधीन अधिकारी या कर्मचारी को कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी।

#### ५८. आकस्मिक छुट्टी

(1) अधिकारी या कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में पूरी परिलब्धियों पर 12 कार्य दिवस की आकस्मिक छुट्टी ले सकता है।

परन्तु यह कि एक बार में चार दिन से अधिक की आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती है, और परन्तु यह और कि ऐसी छुट्टी के साथ अवकाश वाले दिनों और रविवारों को इस ढंग से नहीं जोड़ा जाएगा कि एक बार में अनुपस्थिति बढ़कर छः दिन से अधिक हो जाए।

(2) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रथम कैलेंडर वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश पूरे हुए प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए एक दिन की दर से समानुपातिक आधार पर स्वीकार्य होंगे।

(3) (क) अधिकारी के मामले में किसी कैलेंडर वर्ष में उसके द्वारा नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी अगले वर्ष में बीमारी छुट्टी में आगे या पीछे जोड़ दी जाएगी।

(ख) कर्मचारी के मामले में किसी कैलेंडर वर्ष में उसके द्वारा नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी को पर्याप्त वेतन पर बीमारी छुट्टी में परिवर्तन किया जा सकता है। यह बीमारी छुट्टी विनियम 60 में निर्धारित पात्र बीमारी छुट्टी सीमाओं के अतिरिक्त होंगी।

(4) आकस्मिक छुट्टी उपर्युक्त उप-विनियम (3) (क) में यथा निर्धारित विनियम - 62 के अंतर्गत विशेष आकस्मिक छुट्टी और विनियम 63 के अंतर्गत प्रसूति छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं दी जा सकती है।

#### ५९. विशेषाधिकार छुट्टी

(क) रकेल जिस पर विशेषाधिकार छुट्टी अर्जित की जाती है।

(1) अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर सेवा के 11 दिन के लिए एक दिन के हिसाब से विशेषाधिकार छुट्टी का पात्र होगा। परन्तु यह कि सेवा के प्रारम्भ में ड्यूटी पर सेवा के ग्यारह महीने पूरे होने से पूर्व कोई विशेषाधिकार छुट्टी नहीं ली जा सकेगी।

(2) अधिकारी या कर्मचारी किसी भी समय अपने द्वारा अर्जित विशेषाधिकार छुट्टी में से ली गई छुट्टी को घटाकर शेष बची विशेषाधिकार छुट्टी का पात्र होगा।



- (3) विशेषाधिकार छुट्टी पर चलने वाला अधिकारी छुट्टी की अवधि के लिए पूरी परिलब्धियां पाने का हकदार होगा।
- (4) 31 दिसम्बर, 1989 तक कुल 180 दिनों तक की अवधि के लिए विशेषाधिकार छुट्टी और 1 जनवरी, 1990 से 240 दिन से अनधिक तक की विशेषाधिकार छुट्टी संचित की जा सकती है।

### (ख) कब आवेदन दिया जाना चाहिए

- (i) अधिकारी या कर्मचारी द्वारा विशेषाधिकार छुट्टी के लिए आवेदन उस तारीख से एक माह पूर्व दिया जाएगा जिस तारीख से छुट्टी अपेक्षित है।
- (ii) उन आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है जो उप-विनियम (ख) (1) की उपर्युक्त अपेक्षा को पूरा नहीं करते हैं।

परन्तु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा नोटिस संभव नहीं था तो वह अपने विवेक से इस अपेक्षा को समाप्त कर सकता है।

### ६०. बीमारी छुट्टी

- (1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के बीमारी छुट्टी / मेडिकल छुट्टी अग्रिम में मेडिकल छुट्टी दस दिन की दो किस्तों, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन में नामें डाली जाएगी।
- (2) (क) इस छुट्टी को सेवा के प्रत्येक पूरे माह के लिए 5/3 दिन की दर से उक्त छुट्टी खाते में नामें डाला जायेगा जिसे वह उस कैलेंडर वर्ष की बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी में देगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है।
- (ख) बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी, जिसमें अधिकारी या कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से त्यागपत्र देनेवाला है, के लिए सेवानिवृत्त और त्यागपत्र की तारीख तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिन की दर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- (ग) जब किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है या सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तब उस कैलेंडर माह जिसमें उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया है या उसकी मृत्यु हो जाती है, के पहले वाले कैलेंडर माह के अंत तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह में 5/3 दिन की दर से बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी को जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(घ) जहां अधिकारी या कर्मचारी की अनुपस्थिति या निलंबन की अवधि को बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी में "छूट-दिवस" के रूप में माना गया है, अगली बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी के शुरू होने पर जमा की जाने वाली उसकी बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी को अधिकतम दस दिन के अध्यक्षीन "छूट-दिवस" अवधि के एक के अठारहवे भाग से घटा दिया जाएगा।

परन्तु यह कि बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन उसकी समस्त सेवा के दौरान संचित की जा सकती है।

- (i) अधिकारी या कर्मचारी बीमारी/मेडिकल छुट्टी की अवधि के दौरान एक महीने की पूरी परिलब्धियां प्राप्त करने का पात्र होगा।

परन्तु यदि अधिकारी या कर्मचारी चाहे तो बैंक उसे मंजूर की गई बीमारी/मेडिकल छुट्टी के किसी भी भाग के संबंध में पूरी परिलब्धियां प्राप्त करने की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि उसकी बीमारी/मेडिकल छुट्टी/मेडिकल छुट्टी खाते में से दुगुनी अवधि की छुट्टियां घटा दी जाएगी।

- (ii) प्रथम वर्ष के दौरान बीमारी/मेडिकल छुट्टी समानुपातिक आधार पर मंजूर की जायेगी।
- (iii) बैंक को स्वीकार्य किसी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके ही बीमारी/मेडिकल छुट्टी ली जा सकती है।
- (iv) बीमारी/मेडिकल छुट्टी की समाप्ति पर फिर से ड्यूटी पर आने के इच्छुक अधिकारी या कर्मचारी से बैंक इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। कि अब वह ड्यूटी पर आने योग्य है।

### स्पष्टीकरण :

- (1) नियुक्ति की तारीख तक अधिकारी या कर्मचारी सेवा में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन की बीमारी/मेडिकल छुट्टी का पात्र होगा। ऐसा छुट्टी 180 दिन तक संचित की जाती है।
- (2) नियुक्ति की तारीख से अधिकारी या कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष लिए 20 दिन की बीमारी/मेडिकल छुट्टी का पात्र होगा।

### ६१. असाधारण छुट्टी

- (1) अधिकारी या कर्मचारी को असाधारण छुट्टी उसी अवस्था में दी जायेगी जब उसके पास कोई

साधारण छुट्टी शेष न हो और तब जब उसकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीमारी छुट्टी को न्यायोचित नहीं माना जाता है। अधिकारी या कर्मचारी की मंजूर की जाने वाली असाधारण छुट्टी की अवधि किसी भी समय 90 दिन या उसकी सेवा की समस्त अवधि के दौरान 360 दिन से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह कि आपवादित परिस्थितियों में अध्यक्ष बोर्ड के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी को कुल 720 दिन की अवधि तक असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है।

परन्तु यह और कि अधिकारी या कर्मचारी की पुरानी बीमारी के मामले में बोर्ड के अनुमोदन से अध्यक्ष उसे 720 दिन के बाद असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है और बोर्ड, ऐसा अनुमोदन देते समय, लिखित रूप में उसके लिए विशेष कारण दर्ज करेगा।

- (2) सक्षम प्राधिकारी इन विनयों में अन्यथा दिए गए अनुमार ही अधिकारी या कर्मचारी को स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ या उसके आगे असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है।
- (3) असाधारण छुट्टी की अवधि के दौरान वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे और इस प्रकार की छुट्टी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी बशर्ते कि जहां सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि असाधारण छुट्टी की मंजूरी बीमारी या किसी अन्य ऐसे कारण से आवश्यक हुई कि अधिकारी या कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थी, वह निदेश दे सकता है कि असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए की जाए।

### ६२. विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छुट्टी

किसी अधिकारी या कर्मचारी को खेलकूद, रक्तदान, परिवार नियोजन, जाँच में किसी अधिकारी या कर्मचारी के बचाव या सिविल डिफेन्स ज्वाइन करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जैसा कि केन्द्रीय सरकार के निशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है।

### ६३. प्रसूति छुट्टी

- (i) प्रसूति छुट्टी के रूप में एक बार में 135 दिन तक की अवधि की छुट्टी मंजूर की जा सकती है जिराके अंतर्गत प्रसूति के बाद की अवधि या गर्भस्त्राव अथवा गर्भपात के समय की छुट्टी भी

- शामिल है। किन्तु ऐसी छुट्टी महिला अधिकारी या कर्मचारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान दो बार से अधिक नहीं होगी।
- (ii) प्रसूति छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है किन्तु प्रसूति छुट्टी के साथ आवेदित किसी अन्य प्रकार की छुट्टी को तभी मंजूरी प्रदान की जायेगी जबकि ऐसे अनुरोध के साथ बैंक को स्वीकार्य चिकित्सक का प्रमाण पत्र में संलग्न किया गया हो।
- (iii) पुरुष कर्मचारी/अधिकारी भी कुल 15 दिनों की पितृत्व छुट्टी का लाभ लेने के पात्र होंगे। उक्त लाभ पूर्ण सेवा अवधि में सिर्फ दो बार प्राप्त होगा।

#### ६४. छुट्टी का व्यपगत होना

अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु पर या उसके बैंक की सेवा में न रहने पर उसकी सभी छुट्टियां व्यपगत हो जायेंगी। परन्तु यह कि यदि अधिकारी या कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होती है तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को ऐसी राशियां देय होगी जो उस अधिकारी या कर्मचारी को उसकी मृत्यु के समय विनियम 59 के उप विनियम (क) (4) के अध्यक्षीन संचित विशेषाधिकारी छुट्टी लेने की स्थिति में देय होगी।

परन्तु आगे यह कि जब कोई कर्मचारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उसे उसके संचित विशेषाधिकार छुट्टी के समतुल्य राशि देय होगी जो विनियम 59 के उपविनियम (क) (4) अध्यक्षीन संचित है।

परन्तु यह भी कि ऐसे कर्मचारी के संबंध में जहां कि छंटनी के फलस्वरूप उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, उसे उसके खाते की विशेषाधिकार छुट्टी की अवधि के लिए वेतन और भत्ते देय होंगे।

#### ६५. बैंक को छुट्टी की अवधि के दौरान का पता देना

जिस अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी मंजूर कर दी गई है और जो अपनी तैनाती के स्थान से बाहर जा रहा है वह बैंक को अपनी उस पते की सूचना देगा जिस पते पर मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान उससे संपर्क किया जा सके

#### ६६. छुट्टी का प्रारंभ और समाप्त होना

- (i) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन अपना कार्यभार सौंपेगा उसके ठीक बाद के पहले कार्यदिवस से उसकी छुट्टी आरंभ होगी ।
- (ii) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन वापस ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा उसके पहले का कार्य दिवस उसकी छुट्टी का अंतिम दिन होगा ।

### ६७. कार्यग्रहण अवधि

- (1) अधिकारी या कर्मचारी एक बार कार्य ग्रहण अवधि के लिए पात्र होगा ताकि वह
  - (क) ड्यूटी के दौरान अपने पुराने पद से नियुक्ति के लिए नए पद पर कार्यग्रहण कर सकेगा ।
  - (ख) छुट्टी से लौटकर नए पद पर कार्यग्रहण कर सके ।
- (2) कार्यग्रहण समय की अवधि निम्नप्रकार की होगी :
  - (क) अधिकारी के संबंध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर सात दिनों से अधिक की अवधि नहीं होगी ।
  - (ख) कर्मचारी के संबंध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर छः दिनों से अधिक की अवधि नहीं होगी ।
- (3) कार्यग्रहण समय की अवधि के दौरान अधिकारी या कर्मचारी नए या पुराने स्थान पर तैनाती के अनुसार, जो भी कम हो, परिलब्धियाँ लेने का पात्र होगा ।
- (4) अधिकारी या कर्मचारी को अनुमत कार्यग्रहण अवधि की गणना करते समय उसके पुराने पद से कार्यमुक्ति के दिन को छोड़ दिया जायेगा । परन्तु यह कि कार्यमुक्ति बाद के सार्वजनिक अवकाशों की गणना उसके कार्यग्रहण समय में नहीं की जायेगी ।
- (5) यदि स्थानांतरण में किसी भिन्न स्थान पर तैनाती अन्तर्निहित न हो तो अधिकारी या कर्मचारी को कार्यग्रहण अवधि नहीं दी जाएगी ।
- (6) यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अस्थायी रूप से कहीं और तैनात किया जाता है तो चाहे उसकी तैनाती उसकी स्थाई तैनाती से भिन्न किसी स्थान या स्टेशन पर क्यों न की गई हो उसे कोई कार्यग्रहण अवधि नहीं दी जाएगी ।
- (7) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उसके अनुरोध से स्थानांतरण होने पर कोई कार्यग्रहण समय नहीं दिया जाएगा ।

## अध्याय - VII

### विविध

#### ६८. भविष्य निधि तथा पेंशन

- (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) में विनिर्दिष्ट रूप के अनुसार निम्नतम अनवरत सेवा पूरी कर ली है, कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य होगा। अधिकारी या कर्मचारी और बैंक द्वारा भविष्य निधि में किया जाने वाला अंशदान उपर्युक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (2) (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ((1952 का 19) के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी या कर्मचारी, उक्त अधिनियम की धारा '6 ए' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।  
(ख) इस प्रकार तैयार की गई पेंशन योजना 16 नवम्बर 1995 से प्रभावी होगी।

#### ६९. उपदान

- (1) अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित उप विनियम 2 अनुसार उपदान के भुगतान का पात्र होगा।
- (2) किसी अधिकारी या कर्मचारी को देय उपदान की राशि या तो ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के उपबंधों या निम्नलिखित उप-विनियम (3) के अनुसार जो भी अधिक हो, देय होगी
- (3) (i) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित स्थितियों के उपदान के लिए पात्र होगा।
  - (क) सेवानिवृत्त पर
  - (ख) मृत्यु पर
  - (ग) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणपत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है, या
  - (घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग पत्र देने पर या
  - (ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद, दण्डस्वरूप सेवा समाप्ति को छोड़कर, अन्य किसी कारण से सेवा समाप्ति पर।

परन्तु यह कि कदाचार के कारण हटाए गए कर्मचारी के संबंध में उपदान की राशि को जब्त

नहीं किया जायेगा सिवाए ऐसे मामलों में केवल उस सीमा तक जहां कि ऐसे कदाचार के कारण बैंक को वित्तीय हानि हुई हो ।

- (ii) अधिकारी या कर्मचारी को देय उपदान की राशि, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा अथवा 6 महीने से अधिक के भाग के लिए एक महीने का वेतन देय होगी, जो अधिकतम 15 महीने के वेतन के अध्वधीन होगी।

परन्तु यह कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा ।

परन्तु यक किसी अधिकारी के संबंध में देय उपदान उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन पर आधारित होगा ।

परन्तु यह भी कि किसी कर्मचारी के संबंध में उपदान की गणना किए जाने के उद्देश्य के लिए मृत्यु देय अशक्तता, सेवानिवृत्त, त्यागपत्र या सेवा समाप्ति, जैसा भी मामला हो, से पहले 12 महीनों के दौरान देय, मूल वेतन (100%) मँहगाई भत्ते तथा विशेष भत्ते और स्थानापन्न भत्ते का औसत होगा ।

## ७०. निवास स्थान

- (1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपनी नियुक्ति के समय अनुसूची III में दिए गए फार्म बी में लिखित रूप से बैंक को अपने निवास स्थान की घोषणा करेगा और यदि ऐसा निवास स्थान उसका जन्म स्थान नहीं है तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि तक सिद्ध करना चाहिए ।
- (2) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो एक बार अपना निवास स्थान दर्शा चुका है उसे उसको बदलने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह बैंक को इस तथ्य के लिए संतुष्ट नहीं करता कि यह परिवर्तन वास्तविक है और किसी भी मामले में अधिकारी या कर्मचारी को अपने निवास स्थान में इस प्रकार से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे कि ऐसी किसी रियायत के लिए बैंक की लागत में वृद्धि हो ।

## ७१. स्थानांतरणीयता

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है।

### ७२. विनियमों का कार्यन्वयन और व्याख्या

- (1) अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकते हैं जो उनकी राय में इन विनियमों के उपबन्धों को लागू करने या इन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हो।
- (2) भारत सरकार, जब कभी भी आवश्यकता समझे, राष्ट्रीय बैंक से परामर्श के बाद इन विनियमों की व्याख्या कर सकती है।

### ७३. निरसन और व्यावृत्तियाँ

- (1) विनियमावली के किसी विनियम या समरूप प्रत्येक नियम, विनियम, उपनियम या किसी करार अथवा संकलन का कोई उपबन्ध जो इस विनियमावली के आरंभ होने के फौरन पहले प्रचलन में हो और उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
- (2) इस निरसन के बावजूद उन निरस्त उपबन्धों के अंतर्गत दिए गए आदेशों या की गई कार्रवाई इस विनियमावली के समरूपी उपबन्धों के अंतर्गत दिया गया या की गई मानी जाएगी।



## अनुसूची - १ (विनियम १८ देखें)

### निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा

स्थान .....

दिनांक .....

मैं .....एतद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैं बैंक के अधिकारी या कर्मचारी के रूप में उक्त बैंक में मेरे द्वारा धारित कार्यालय से संबंधित या स्थिति से संबद्ध मुझसे अपेक्षित कर्तव्यों को वफादारी, सत्यनिष्ठा तथा सर्वोत्तम कुशलता से निष्पादित और पूरा करूँगा/करूँगी।

मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उक्त बैंक के कार्यों से संबंधित कोई सूचना या उक्त बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित किसी कार्य के बारे में कोई सूचना उसके लिए विधिक रूप से अपात्र व्यक्ति को न तो प्रकट करूँगा/करूँगी और न ही ऐसा किए जाने की अनुमति दूँगा/दूँगी और न तो उक्त बैंक के अधिकार में किसी बही या इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज और न ही उक्त बैंक के कारोबार से संबंधी या उक्त बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कारोबार का निरीक्षण करने की अनुमति करने की अनुमति प्रदान करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

## सावधानी ( भारत सरकार के नियमों के अनुरूप किया जाए )

### अनुसूची - २

#### ( विनियम ५ ( ४ ) देखें )

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी से प्रथम नियुक्ति के समय प्राप्त किया जाने वाला घोषणा पत्र

- (1) मैं श्री/श्रीमती/कु० .....पुत्र/पत्नी/पुत्री..... निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ,
- (i) यह कि मैं अविवाहित / विधुर/विधवा हूँ ।
- (ii) यह कि मैं विवाहित हूँ और केवल एक पत्नी/पति जीवित हैं ।
- (iii) यह कि मैंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका प्रति/पत्नी जीवित है । छूट की अनुमति का आवेदन संलग्न है ।
- (iv) आशोधित किया जाए
- (2) मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि उपयुक्त घोषणा सत्य है और मेरी नियुक्ति के पश्चात इस घोषणा के असत्य पाए जाने पर मैं सेवा से वर्खास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हूँगा/हूँगी ।

दिनांक :

हस्ताक्षर

**अनुसूची - ३**  
**फार्म - ख**  
**निवास स्थान की घोषणा**  
**( विनियम ७० देखें )**

स्थान :

दिनांक

मैं अधोहस्ताक्षरी, ..... बैंक की सेवा में  
नियुक्ति के बाद एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि .....  
(स्थान) ..... (जिला) मेरा निवास स्थान है ।

2. \*उपर्युक्त स्थान मेरी जन्मभूमि है ।

या

\*उपर्युक्त स्थान मेरी जन्मभूमि नहीं है । मेरी जन्मभूमि .....

.....

(स्थान) ..... (जिला) है परन्तु .....

..... (स्थान)

को निम्नलिखित कारणों से अपना निवास स्थान घोषित किया गया है ।

.....

.....


पूरा नाम

पदनाम और नियुक्ति की प्रकृति

नियुक्ति की तारीख

हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो उसे काट दें



एस. एन. मेहरोत्रा

अध्यक्ष

UTTAR BIHAR KSHETRIYA GRAMIN BANK  
HEAD OFFICE  
KALAMBAGH CHOWK, MUZAFFARPUR  
BIHAR

Uttar Bihar Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2006

Muzaffarpur-842001, the 5th October 2006

No. PRS(S&F)/02/2006-07/207.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976), the Board of Directors of Uttar Bihar Kshetriya Gramin Bank after consultation with the Central Bank of India being the Sponsor Bank and National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

"Uttar Bihar K.G.B. (Officers & Employees) Service Regulation"

CHAPTER-1

Preliminary

1. Short title, Commencement, and application

- (i) These regulations may be called Uttar Bihar Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulation, 2006.
- (ii) These regulations shall come into force on the date of their Publication in the official gazette.
- (iii) They shall apply to every officer and employee of the Bank; Provided that they shall not apply, except as otherwise provided in these regulations or to such extent as may be specifically or generally specified by the Board to :
  - (a) a person employed temporarily on daily wages or to such person engaged on contract.
  - (b) a person on deputation from Sponsor Bank or the Central Government of the State Government or any other organisation.

2. Definitions :

In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context :—

- (a) 'Act' means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) :
- (b) "Appointed date" means the first day of September 1987.
- (c) "Appointing Authority" means the authority prescribed in Regulation 5(1).
- (d) "Area Manager" means an officer holding the charge of Area Office for the time being.
- (e) "Bank" means the Uttar Bihar Kshetriya Gramin Bank established under Sub-Section (1) of Section 3 of the Act :
- (f) "Board" means the Board of Directors of the Bank.
- (g) "Branch Manager" means an officer holding charge of a branch for the time being.

- (h) "Calendar Year" means the period commencing from the 1st day of January of an year and ending with 31st day of December of such year.
- (i) "Component Authority" means the Chairman in the case of officers and the officer designated by the Chairman in the case of employees.
- (j) "duty includes"
- (a) Service as a probationer.
  - (b) Period during which an officer or employee is on joining time.
  - (c) Period spent on casual leave, special casual leave duly authorised by the Competent authority, and
  - (d) Period spent on training while in service.
- (k) "Emoluments" means the aggregate of salary and allowances if any;
- (l) "Employee" means a person appointed to any of the posts specified in Regulation 3 (a) (2) and (3), and includes such employees whose services are temporarily lent to other organisations.
- (m) "Family" means includes the spouse of the officer or employee (if the spouse is also not the officer or employee of the Bank) and children, parents, brothers, and sisters of the officer or employee wholly dependent on the officer or employee but shall not include a legally seperated spouse.
- (n) "Officer" means a person appointed to any of the posts specified in Regulation 3(a)(1).
- (o) "Pay" means basic pay drawn per month by the officer or employee in a pay-scale including stagnation increments and any part of the emoluments which may specifically be classified as pay under these Regulations.
- (p) "Salary" means the aggregate of pay and dearness allowance.
- (q) "Sponsor Bank" means the Central Bank of India.
- (r) "Senior Manager" means an officer not below the rank of officer in Scale II holding charge of a department in Head Office.

## CHAPTER II

### CLASSIFICATION OF OFFICERS AND EMPLOYEES, APPOINTMENT, PROBATION AND TERMINATION OF SERVICE

#### 3. Classification of Officers and employees

- (a) The Officers and employees of the Bank shall be classified as follows :—
- (1) Group A-Officer cadre
    - (i) Scale I
    - (ii) Scale II
    - (iii) Scale III
- With designation in relation to any of the scales
- (i) Officer
  - (ii) Branch Manager

- (iii) Area Manager
- (iv) Senior Manager

and such other scales or designations as may be specified by the Board from time to time with the approval of the Central Government.

(2) Group B-Clerical cadre

Clerical staff, namely Clerk-cum-cashier, Clerk-cum-typist Stenographer and such other categories as may be specified by the Board from time to time with the prior approval of the Central Government.

(3) Group C-Subordinate cadre

Subordinate staff namely Messenger, Messenger-cum sweeper, Driver, Driver-cum Messenger, Part-time Messenger-cum-Sweeper, Security Guard and such other categories as may be specified by the Board from time to time with the prior approval of the Central Government.

- (b) Nothing in this Regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times all the cadres or categories of the officers or employees serving the Bank.

(4) Temporary employees

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations the Chairman may, subject to such general or specific instruction as may be issued by the Board from time to time, engaged persons in Clerical Cadre and/or Subordinate Cadre on adhoc and/or temporary basis for a period not exceeding 60 days in a year to meet any exceptional need or circumstance.

Provided that such appointments on adhoc and/or temporary basis shall be made in consultation with the Sponsor Bank.

(5) Appointment in the Bank's service

- (1) The Chairman shall be the Appointing Authority in respect of officers. The General Manager shall be the Appointing Authority in respect of employees.

Provided that if there is no incumbent in the post of General Manager, the Chairman shall be the Appointing Authority in respect of employees also.

- (2) All appointments in the Bank shall be made in accordance with the rules framed by the Central Government in terms of Section 29 of the Act same as provided in Regulation 4.
- (3) Every officer or employee on his first appointment in the service of the Bank, shall required to produce a certificate of fitness by the medical authority as may be prescribed or recognised by the Bank.
- (4) (i) Disqualification—No person
- (a) who was entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living.
  - (b) who having a spouse living, have entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Appointing Authority may, if satisfied that such marriage permissible.

under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing. exempt from the operation of this Rule.

(ii) Declaration

Even officer or employee on his first appointment in the service of the Bank shall furnish a declaration about his marital status, as per Schedule II.

(6) Scales of Pay and Allowances

The scales of pay, allowances and increments of an officer or employee appointed to a post in any of the Groups referred to in Regulation 3, shall be such as may be determined by the Central Government, from time to time, under Sub-Section (1) of Section 17 of the Act.

(7) Commencement of Service

Service of a person appointed in the Bank shall commence on the working day on which he reports for duty on a post in accordance with the terms and conditions of the appointment made to him.

Provided that in the event of his joining in the afternoon of such working day, he shall not be entitled to draw pay and allowances for that day.

(8) Probation

- (i) An officer directly appointed in Scale I shall be on probation for a period of two years, which shall be extendable by the appointing Authority for a period not exceeding one year.
  - (ii) An employee promoted to a post in Scale I of Officer Cadre shall be on probation for a period of one year which shall, be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding six months.
  - (iii) An officer promoted in higher scale shall be on probation for a period of one year which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding six months.
  - (iv) (a) An employee directly appointed in Clerical or Subordinate Cadre shall be on probation for a period of one year which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding six months.  
(b) An employee in subordinate Cadre promoted to a post in clerical cadre shall be on probation for a period of six months which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding three months.
  - (v) Probation period in case of an officer or employee shall be liable to be extended within the permissible limits to the extent of extra ordinary leave availed of by him or if in the opinion of Appointing Authority his performance was dissatisfactory during such period.
- (9) Confirmation
- (i) An officer or employee shall be confirmed in the Banks's service if in the opinion of the Appointing Authority, the officer or employee has satisfactorily completed his probation.
  - (ii) Where during the period of probation, including the period of extension of probation, if any, the Appointing Authority is of the opinion that the officer or employee is not fit for confirmation in the said post.
    - (a) In the case of a directly appointed officer or employee his services may be terminated after giving one month's notice or pay in lieu thereof.

- (b) In the case of an officer or employee promoted from the Bank's service he may be reverted to the post from which he was promoted.

(10) **Termination of Service by Notice**

- (1) (a) No officer or employee shall leave or discontinue his service in the Bank without first giving notice in writing to the Appointing Authority of his intention to leave or discontinue his service or resign.
- (b) The period of notice required shall be :
- (i) Three months in the case of an Officer and
- (ii) One month in the case of an employee
- (c) In case of breach by an officer or employee of Sub-Regulation (1) (b), he shall be liable to pay to the Bank as compensation, a sum equal to his pay for the period of notice required of him.
- (2) Notwithstanding anything to the contrary contained in Sub-Regulation (1), an officer or employee against whom disciplinary proceedings are pending, shall not leave, discontinue or resign from his service in the Bank without the prior approval in writing of the Appointing Authority and any notice of resignation given by such officer or employee before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.

***Explanation :***

Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against an officer or employee for the purpose of this Regulation, if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him until final orders are passed by the Competent Authority.

11. **Superannuation and Retirement**

- (1) An officer or employee shall retire on completion of 60 years of age : Provided that the Chairman may at his discretion, on recommendation by the Special Review Committee as provided hereinafter in Sub-Regulation (2), retire an officer



or employee at any time after completion of the 55 years of age or after the completion of 30 years of the total service in the bank, whichever is earlier.

Provided further that no officer or employee shall be retired under this Sub Regulation unless notice in writing has been served on him atleast three months in case of an officer and one month in case of an employee in advance or an amount equivalent to three months' pay in case of an officer and one month's pay in case of an employee shall be given to such officer or employee in lieu thereof.

Provided also that an officer or employee aggrieved by the order of the Chairman, as provided in Sub-Regulation (2), may within one month of the passing of the order give in writing a representation to the Board against the decision of the Chairman and on receipt of such representation the Board shall take a decision within a period of three months. Where the Board decides that the order passed by the chairman is not justified, the concerned officer or employee shall be reinstated as if the Chairman had not passed the order.

- (2) The Chairman shall constitute a Special Review Committee consisting of not less than three members of the Board to review, whether an officer or employee should be retired in accordance with the Sub-Regulation (1). Such committee, shall, from time to time, review the case of each of such officers or employees and make recommendation to the Chairman.

**Explanation :**

For the purpose of this Regulation the officer or employee whose date of birth is first day of month will retire on superannuation on the last day of the previous month on which he completes the age of superannuation. The officer or employee who attains the age of superannuation on a day other than the first day during a calendar month shall retire on the last day of that month.

**CHAPTER - III**

**Record of Service, Seniority, Promotion and Reversion**

**(12) Record of Service**

A record of service shall be maintained by the Bank in respect of each officer or employee at such place or places and shall be kept in such form and shall contain such information as may be specified from time to time by the Bank.

**13. Seniority**

- (i) The Bank shall maintain separate seniority lists for each cadre of officer or employee and category-wise seniority lists within a Cadre, Subject to the provision of sub-Regulation (iii) (iv) (v) and such instructions and guidelines as may be issued by the Board from time to time.
- (ii) The seniority lists shall be reviewed and updated at such intervals as may be decided by the bank and circulated amongst the officers or employees as the case may be.
- (iii)
  - (a) The seniority of a promotee officer or employee in a cadre or scale shall be reckoned with reference to the date of his appointment in the cadre or scale.
  - (b) Where there are two or more promotee officers or employees of the same length of service in that cadre or scale, their inter-se seniority shall be reckoned with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale.
  - (c) Where there are two or more promotee officers or employees having the same length of service in such preceding cadre or scale, their seniority shall be determined with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale, as the case may be.
- (iv) The inter-se seniority of the erstwhile Field Officers or Accountants vis-a-vis the Branch Managers who were in the service of the Bank on the date on which the revised pay scales circulated by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, New Delhi letter No. F.2/17/79-RRB dated the 29 April 1980 are adopted by the Bank, may be so reckoned that all erst while Field Officers and / or Accountants rank junior to all the then existing Branch

**Managers.**

Provided that the inter-se seniority of officers or employees amongst them selves within a cadre of scale as existing immediately prior to the Government letter No. 11-3/90-RRB (I) dated 22 February 1991 shall remain the same.

- (v) The inter-se seniority of officers or employees directly recruited in a batch to any cadre or scale shall be reckoned with reference to the rank allotted to them at the time of their selection.

Provide that if officers or employees recruited under the general or reserved categories are allotted to the Bank, the inter-se-seniority amongst the candidates so allotted who joined on the same date shall be determined in accordance with the marks obtained by such candidates without adding national marks for the reserved category.

(14) **Promotion**

All promotions shall be made at the discretion of the Bank and no officer or employee shall claim as a matter of right to be promoted to any post of cadre.

Provided that promotions of officers or employees in the Bank shall be made in accordance with the rules framed by the Central Government in terms of Section 29 of the Act.

(15) **Reversion**

An officer or employee who has been appointed to officiate in a higher cadre or scale or where confirmation in a higher cadre or scale is subject to the undergoing probation for any specific period or otherwise, shall be liable to be reverted without notice at any time where he is so officiating or undergoing probation.

#### CHAPTER - IV

#### **Conduct, Discipline and Appeals**

(16) **Scope of an officer's or employee's service.**

Every officer or employee shall be a whole time officer or employee of the Bank and shall be at the disposal of the Bank, and he shall serve the Bank in its business in such

capacity and at such place as he may, from time to time, be directed by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he may for the time being, be placed.

(17) **Liability to abide by the regulations and orders.**

Every officer or employee of the bank shall confirm to and abide by these Regulations, and shall also observe, comply with and obey all orders and directions which may, from time to time, be given to him by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he may, for the time being be placed.

(18) **Obligation to maintain secrecy**

Every officer or employee shall maintain the strict secrecy regarding the Bank's affairs of its constituents and shall not divulge, directly or indirectly, any information of a confidential nature either to a member of the public or to the Bank's staff, unless compelled to do so by judicial or other authority or unless instructed to do so by a superior Officer in the discharge of his duties. To signify this every staff subscribe to a declaration in Schedule No.1.

(19) **Obligation to Promote the Bank's Interest**

Every officer or employee shall serve the Bank honestly and faithfully, and shall use his utmost endeavour to promote the interest of the Bank and shall show courtesy and attention in all transactions and dealings with officers of Government, the Bank's constituents and customers.

(20) **Contribution to Press, Radio etc.**

No officer or employee shall contribute to the press or radio or television etc. anything relating to the affairs of the Bank without the prior sanction of the Competent Authority or without such sanction make public or publish any document, paper, or information which may come into his possession in his official capacity.

(21) **Officer or employee not to seek outside employment or business or to promote family business.**

No officer or employee shall accept, solicit or seek any outside activity, employment or office, whether stipendary or honorary without the previous sanction of the competent authority.

Provided that an officer or employee may, without such sanction, undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer.

Provided further that he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the Component Authority.

**Explanation**

- (i) Every officer or employee shall report to the Bank if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages insurance agency or commission agency.
- (ii) Convassing by an officer or employee in support of the business of insurance agency or commission agency, owned or managed by a member of his family shall be deemed to be a breach of this Sub-Regulation.
- (iii) No officer or employee shall, without the previous sanction of the Bank, except in the discharge of his official duties, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force or any co-operative society for commercial purposes.

Provided that an officer or an employee may take part in registration promotion or management of a co-operative society registered under the co-operative societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860) or any corresponding law in force.

- (iv) No officer or employee shall accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the Competent Authority.

(22) **Officer or employee not be absent from duty without permission or be late in attendance**

- (i) An officer or employee shall not absent himself from his duties without having obtained the permission of the Competent Authority, nor shall be absent himself in case of sickness or accident without submitting a proper medical certificate.
- (ii) An officer or employee who absents himself from duty without leave or overstays his leave, shall not be entitled to draw any pay and allowances for the period of such absence or overstayal, and shall be liable to such disciplinary measure as the Competent Authority may impose.

Provided that the Competent Authority may condone such absence or overstayal if he is satisfied that the Officer or Employee has remained absent or overstayed his leave under circumstances beyond his control and direct that such absence or overstayal be regularised by admissible leave.

(23) **Absence from Station**

An officer or employee shall not absent himself from his headquarters overnight without obtaining previous sanction from the chairman, if he holds the charge of a Branch or the Officer-in-Charge or Branch Manager in other cases.

(24) **Prohibition to accept gifts and dowry**

- (i) An officer or employee shall not solicit or accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift from a constituent of the Bank or from any subordinate officer or employee.
- (ii) No officer or employee shall ;
- (a) give or take or abet the giving or taking of dowry
- or
- (b) demand directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bride groom, as the case may be, any dowry.

**Explanation :**

For the purpose of this regulation, dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

(25) **Speculation in stocks, shares etc**

An officer or employee shall not speculate in stocks, share, securities of any institution or commodities of any description.

Provided that nothing in this Regulation shall be deemed to prohibit an officer or employee from making a bonafide investment of his own funds in such manner as he may wish.

**Explanation :**

Frequent purchase or sale of stocks, shares or securities of any institution or commodities of any description shall be deemed to be speculation for the purpose of this Regulation.

(26) **Restrictions on lendings borrowings and investments**

(1) No officer or employee shall, in his individual capacity,

- (i) Borrow or Permit any member of his family to borrow or otherwise place himself or a member of his family under a pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate officer or employee or any person, association of persons, firms, company or institutions, whether incorporated or not having dealings with the Bank.
- (ii) Buy or sell stocks, shares or securities of any description without funds to meet the full cost in the case of a purchase of scrips or delievery in the case of a sale.
- (iii) incur a debt at a race meeting.
- (iv) lend money in private capacity to a constituent of the bank or have personal dealings with such constituent in the purchase or sale of bills of exchange, Government paper or any other securities and
- (v) guarantee in private capacity the pecuniary obligations of another person or agree to indemnify in such capacity another person from loss except with the previous

permission of the Competent Authority.

Provided that an officer or employee may give to or accept from a relative or personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest or operate a credit account with a bona fide tradesman or make an advance of pay to his private employee.

Provided further that an officer or employee may obtain a loan from a co-operative credit society of which he is a member or stand as surely in respect of a loan taken by another member from a co-operative credit society of which he is a member.

- (2) An officer employee shall so manage his private affairs to avoid insolvency or habitual indebtedness. An officer or employee who is in debt shall furnish to the competent Authority a signed statement of his position half yearly on the 30th June and 31st December and shall indicate in the statement the steps he is taking to rectify his position. An officer or employee who, makes a false statement under this rule or who fails to submit the prescribed statement or appears unable to liquidate his debts within a reasonable time or applies for the protection of an insolvency court shall be liable to dismissal.

**Explanation 1.**

For the purpose of this Rule an officer or employee shall be deemed to be in debt if his total liabilities, exclusive of those which are fully secured, exceed his substantive pay for twelve months.

**Explanation 2.**

An officer or employee shall be deemed to be unable to liquidate his debts within a reasonable time if it appears, having regard to his personal resources and unavoidable current expenses, that he will not cease to be in debt within a period of two years.

- (27) **Movable, immovable and Valuable property**



- (1) Every officer on his first appointment shall submit a return of his assets and liabilities giving full particulars regarding :
- (a) The immovable property, inherited by him or owned or acquire by him or held by him on lease or mortgage, either in his name or in the name of any member of his family ;
  - (b) shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned or acquired or held by him;
  - (c) other movable property inherited by him or similarly owned or acquired or held by him;
  - (d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly;

Provided that in the case of an officer who is already in service in the Bank on the date these Regulations come into force, shall submit a return in term of this Regulation within three months of coming into force of these Regulation, the return being with reference to the assets and liabilities as enumerated above, of the officer on the date of these Regulations come into force.

- (2) Every officer shall submit a return of the immovable/movable property to the Bank as on 31st March of each year before 30th April of that year,
- (3) No officer shall except with the prior intimation to the Competent Authority acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name of any member of his family.

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained by the officer if any such transactions is :

- (a) with a person having official dealings with the officer
  - (b) otherwise than through a regular or reputed dealer.
- (4) Every officer shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his name or in the name of a member of his family if the value of such a property exceeds Rs. 10,000/-

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained if any such transaction is;

(a) with a person having official dealing with the officer

or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing Sub-Regulation the Competent Authority may at any time, by general or special order, require an officer or employee to furnish within a period to be specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order and such statement, if so required by the bank, include the details of the means by which or the sources from which such property was acquired.

(28) **Restrictions regarding marriage**

(1) (i) No officer or employee shall enter into, or contract, a marriage with a person having a spouse living.

(ii) No officer or employee, having a spouse living, shall enter into or contract, a marriage with any person,

Provided that the Competent Authority may permit an officer or employee to enter into or contract, any such marriage as referred to in clause (i) or clause (ii) if it is satisfied that;

(a) Such marriage is permissible under the personal law applicable to such officer or employee and the other party to the marriage; and

(b) there are other grounds for so doing.

(2) An officer or employee who has married, or marries, a person other than of Indian nationality, shall forth with intimate the fact to the Bank.

(29) **Officer or employee arrested for debt or on a criminal charge**

(1) An officer or employee who is arrested for debt or on a criminal charge or is detained in

pursuance of any process of law, may, if so directed by the Competent Authority, be treated as being or having been under suspension from the date of his arrest, or as the case may be, of his detention, upto such date or during such period as the Competent Authority may direct.

Provided that in respect of the period in regard to which he is so treated he shall be paid subsistence allowances as specified in Regulation 44.

- (2) Any payment made to an officer or employee under Sub-Regulation (1) shall be subject to adjustment of his pay and allowances which shall be made according to the circumstances of the case and in the light of the decision as to whether such period is to be accounted for as a period of duty or leave.

Provided that full pay and allowances shall be admissible only if the officer or employee

- (a) is treated as on duty during such period, and  
(b) is acquitted of all charges or satisfies the Competent Authority, in case of his release from detention or his detention being set aside by the Competent Court, that he had not been guilty of improper conduct resulting in his detention.

- (3) (a) An officer or employee shall be liable to dismissal or to any of the other penalties referred to in Regulation 38, if he is committed to prison for debt or is convicted of an offence which in the opinion of the Competent Authority, either involves moral turpitude, or has a bearing on any of the affairs of the Bank or on the discharge by the officer or employee of his duties in the Bank, the opinion in this respect of the Competent Authority shall be conclusive and binding on the officer or employee.
- (b) Such dismissal or other penalty may be imposed as from the date of his committal to prison or conviction and nothing in Regulation 38 shall apply to such imposition.
- (4) Where an officer or employee has been dismissed in pursuance of Sub-Regulation (3) and the relative conviction is set aside by a higher court and the officer or

employee is honourably acquitted, he shall be reinstated in service.

- (5) Where the absence of an officer or employee from duty is without leave or his overstayal is due to his having been arrested for debt or on criminal charge or to his having been detained in pursuance of any process of law, the provisions of Regulation 22 shall also apply, and for the purpose of that Regulation as so applied, the officer or employee shall be treated as having absented himself without leave or as the case may be, overstayed otherwise than under circumstances beyond his control.

(30) **Prohibition agains Participation in Politics and Contesting Elections.**

No officer or employee shall take an active part in politics or in any political demonstrtrion or contest election as member for a Municipal Council, Zila Parishad, District Board or any other local or legislative Body.

(31) **Prohibition against joining certain associations, Strikes etc.**

- (1) No officer who is not a 'workman' within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 shall
- (a) become or continue be a member or office bearer of, or be otherwise directly associated with, any trade union of the employees of the Bank who are 'workmen' within the meaning of that Act, or a federation of such trade unions.
- (b) resort to, or in any way abet, any form of strike or participate in any violent, unseemly or indecent demonstration in connection with any matter pertaining to his conditions of se rvic e or the conditions of service of any other employees of the Bank.
- (2) In relation to any employee who officiates in a grade or post which is not a grade or post of a 'workmen' as aforesaid, this Regulation shall also apply so long as such " employee officiates in such higher grade or post.
- (3) No emplooyee shall join or continue to be a member of an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign States,

public order, defamation or incitement to offence.

32. **Giving evidence**

- (i) No officer or employee shall, except with the previous approval of the Competent Authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.
- (ii) Where any approval has been accorded under Sub-Regulation (i), no officer or employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Government or of State Government or of the Bank.

33. **Function in honour of officer or employee**

- (i) No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour or in the honour of any other officer or employee.

Provided that nothing in this Sub-Regulation shall apply to,

- (a) A farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of the officer or employee or any other officer or employee on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of the Bank, and
  - (b) the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by association of officers or employees.
- (ii) (a) No officer or employee shall either directly or indirectly exercise pressure or influence on any officer or employee to induce or compel him to subscribe towards any farewell entertainment.
  - (b) No officer or employee shall collect subscription for farewell entertainment from any intermediate or lower grade officer or employee for the entertainment of any officer or employee belonging to any higher grade.

34. **Canvassing**

No officer or employee shall, except or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters

pertaining to his service in the Bank.

35. **Subscriptions**

No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, ask for or accept contributions or otherwise associate himself with the raising of any funds or other collection in cash or in kind from constituents or Customers in pursuance of any objective whatsoever.

36. **Consumption of intoxicating materials**

An officer or employee shall;

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks, drugs or other materials in force in any area in which he may happen to be for the time being.

(b) not be under the influence of any intoxicating drinks, drugs or other materials during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks, drugs or materials.

(c) refrain from consuming any intoxication drinks, drugs or other materials in a public place.

(d) not appear in a public place, in a state of intoxication

***Explanation :***

For the purpose of Regulation "public place" means any place or premises (including clubs, even exclusively meant for members where it is permissible for the members to invite non-members as guests, bars and restaurants) to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.

37. **Sexual harassment**

No officer or employee shall commit any act of sexual harassment of women at work places.

***Explanation :***

For the purpose of this Regulation, 'Sexual harassment' included such unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise, as :

- (a) Physical contact and advances
- (b) Demand or request for sexual favours
- (c) Sexually colored remarks
- (d) Showing any pronography or
- (e) Any other unwelcome physical,, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

38. **Penalties**

Whitout prejudice to foregoing Regulatiolns of this Chapter an officer or employee who commits a breach of these Regulations or who displays negligence, inefficiency or indolence or who commits acts detrimental to the interests of the Bank or in conflict with its instructions, or who commits a breach of discipline or is guilty of any other acts of misconduct, shall be liable for any one or more penalties as prescribed hereinafter.

(1) **Officers**

(a) **Minor Penalties**

(i) Censure

(ii) Withholding or stoppage of increments of pay with or without cumulative effect

(iii) With holding of promotion

(b) **Major Penalties**

(i) Recovery from emoluments or such other amounts as may be due to him, of the whole or part or any pecuniary loss caused to the Bank by negligence or breach of orders.

(ii) Reduction to a lower grade or post, or to a lower scale in a time scale.

(iii) Compulsory retirement.

(iv) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment.

(v) Dismissal

**Explanation :**

The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation.

(i) With holding of one or more increments of an officer on account of his

failure to pass a prescribed department test or examination in accordance with the terms of appointment to the post which he holds.

- (ii) stoppage of increments (s) of an officer at the efficiency bar in a time scale, on the grounds of his unfitness to cross the bar.
- (iii) not giving an officiating assignment or non-promotion of an Officer to a higher grade or post for which he may be eligible for consideration, but for which he is found unsuitable after consideration of his case.
- (iv) Reserving or postponing the promotion of an Officer for reasons completion of certain requirement for promotion or pendency of disciplinary proceedings.
- (v) Reversion to a lower grade or post of an Officer officiating in a higher grade or post, on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post, or on administrative grounds unconnected with his conduct.
- (vi) Reverting to the previous grade or post of an Officer appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment or rules, or orders governing such probation.
- (vii) Reversion of an Officer on deputation to his parent organisation.
- (viii) Termination of service of an Officer :
  - (a) Appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he was appointed, or earlier in accordance with the terms of his appointment.
  - (b) Appointed under a contract or agreement, in accordance with the terms of such contract or agreement, and
  - (c) As part of retrenchment



Provided that where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in sub-clause (i) to (iii) of clause 1 of this Regulation, the officer concerned shall be informed in writing of the imputations of lapses against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding 15 days or such extended period as may be granted by the Competent Authority and the defence statement, if any, submitted by the officer shall be taken into consideration by the Competent Authority before passing orders.

Provided further that no order imposing any of the major penalties specified above shall be made except by an order in writing signed by the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges being formulated in writing and given to the officer and enquiry held so that he shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself.

Provided also that an enquiry need not be held if :

- (i) the misconduct in such case even if proved, the Bank does not intend to impose the punishment of removal or dismissal; and
- (ii) the Bank has issued a show cause notice to the officer advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct; and
- (iii) the officer makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice

## II. *Employees*

### (a) Penalties for minor misconduct

- (i) censure
- (ii) recording of adverse remarks against him
- (iii) withholding of increment for a period not exceeding 6 months.

### (b) Penalties for major misconduct

- (i) fine
- (ii) Withholding of increment (s)

- (iii) reduction of special allowance
- (iv) reduction of pay to next lower stage upto a maximum period of 2 years in case the staff has reached the maximum in the scale of pay
- (v) removal from service with shall not be disqualification for future employment
- (vi) dismissal :

Provided that no order imposing any of the penalties specified above for major misconduct shall be made except by an order in writing signed by the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges being formulated in writing and given to the employee and enquiry held so that he shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself.

Provided further that an enquiry need not be held if

- (i) the misconduct is such that even if proved, the Bank does not intend to impose punishment of removal or dismissal; and
- (ii) the bank has issued a show cause notice to the employee advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct; and
- (iii) the employee makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice.

### 39. Waiver of the Procedure

The requirements of Regulation 38 may be waived by the Competent Authority

- (a) if the facts on the basis of which penalty is to be imposed on the officer or employee have been established in the Court of Law or Court martial or
- (b) where the officer or employee has been convicted on a criminal charge or
- (c) where the officer or employee has been absconding or
- (d) where is for any other reason impracticable to communicate with him or
- (e) where it is reasonably not practicable to observe the procedure prescribed under Regulation 38.

Provided that no requirements of Regulation 38 may be waived unless reasons for doing so are recorded in writing and placed before the Board.

40. **Delegation of the power to enquire**

The enquiry under Regulation 38 and the procedure with the exception of final order, may be delegated by the Competent Authority to an officer who is senior to the officer against whom the proceedings are instituted and in the case of an employee to any Officer.

Provided that the Competent Authority may, in his discretion, nominate any Officer working in the Bank, including those deputed from other institutions, to conduct the enquiry.

41. **Common Enquiry**

Notwithstanding anything contained in these Regulations, if two Officers in different grades or an officer and an employee are involved jointly in an incident and disciplinary proceedings are sought to be instituted against both of them and the Chairman is of the opinion that having regard to the facts and circumstances of the case, the Competent Authority in respect of both the officer and employee should be the same, the Chairman may direct that the Competent Authority in respect of the Officer shall be the Competent Authority in respect of both the officer and employee involved and a common enquiry shall be held into the charges against both of them and the delegation of power to enquire under Regulation 40 and the procedure, with the exception of the final order shall be in favour of the same enquiry officer.

42. **Corrupt Practices**

Notwithstanding anything contained in these Regulation, the following provisions shall apply where it is alleged that an officer or employee has been guilty of corrupt practices, namely :

- (i) Where it is alleged that an officer or employee is possessed of disproportionate assets or that he has committed an act of criminal misconduct or where the investigation and proof of the allegation would require the evidence of persons who are not officers or

employees of the Bank or where, in the opinion of the Chairman, the investigation into the allegations cannot be conveniently undertaken by the Bank, the investigation into the allegations may be entrusted to the Central Bureau of investigation or the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be approved by the Chairman :

- (ii) If after considering the report on the investigation, the Competent Authority is satisfied that there is a prima facie case of instituting disciplinary proceedings against the officer or employee, he may send the investigation report to the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be decided by the Chairman from time to time in this behalf, for its advice whether disciplinary proceedings should be taken up against the officer or employee concerned.
- (iii) If after considering the advice of the Central Vigilance Commission or such other Authority, as the case may be, the Competent Authority is of the opinion that disciplinary proceeding should be instituted against the employee concerned, then, the enquiry under this Regulation may be entrusted to a Commissioner for Departmental Enquiries or any other person who may be nominated by the Central Vigilance Commission for this purpose.
- (iv) The Enquiry Officer shall submit his report to the Competent Authority and the report shall be forwarded by the Competent Authority to the Central Vigilance Commission for its advice as to whether the charge or charges, as the case may be, be considered to have been established and the penalty or penalties to be imposed under Regulation 38. The penalty or penalties to be imposed shall be decided by the Competent Authority after considering the advice of the Central Vigilance Commission.

**Explanation :-**

An officer or employee shall be deemed to be guilty of corrupt practices if he has committed an act of criminal misconduct as defined in section 13, 14, 15 and 16 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or he has acted for an improper purpose or in a corrupt manner or had exercised or refrained from exercising his powers with an

improper or corrupt motive.

**43. Restriction on engagement of a legal Practitioner**

For the purpose of enquiry, the officer or employee shall not engage a legal practitioner without prior permission of the Competent Authority.

**44. Disciplinary proceedings after retirement**

- (i) An officer employee under suspension of a charge of misconduct who attains the age of superannuation, shall be deemed to be in service even after the age of superannuation for the specific purpose of continuation and conclusion of the disciplinary proceedings and issue of final orders thereon. Such suspended officer or employee shall not be eligible for any subsistence allowance for the period beyond the date of superannuation.
- (ii) The officer or employee against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer or employee will not receive any pay and/or allowances after the date of superannuation. He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contribution to CPF.

***Explanation :***

The normal retirement benefits such as encashments of Privilege leave and Gratuity should be withheld till the completion of the disciplinary proceedings and passing of final order by the Competent Authority. The release of benefits would be per the final order of the said Authority.

**45. Suspension**

An Officer or employee may be placed under suspension by the Competent Authority. During such suspension the officer or employee shall be entitled for subsistence allowance as under.

- (1) In case of an Officer

**(A) Basic pay**

- (i) For the first three months of suspension 1/3rd of the basic pay which the officer was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry.
- (ii) For the subsequent period :
  - (a) Where the enquiry is held departmentally by the Bank 1/2 of the basic pay the officer was drawing on the date prior to the date of suspension.
  - (b) Where the enquiry is held by an outside agency 1/3rd of the basic pay for the next three months and one half of the remaining period of suspension.

**B Allowances**

For the entire period of suspension, dearness allowance and other allowances excepting special allowance, if any, will be calculated on the reduced pay as specified in terms of (i) and (ii) of clause (A) at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of officers.

**2. In case of an employee****(A) Basic Pay**

- (i) For the first three months of suspension 1/3 of the basic pay which the employee was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry.
- (ii) For subsequent period
  - (a) Where the enquiry is held departmentally by the Bank. 1/2 of the basic pay, the employee was drawing on the date prior to the date of suspension.
  - (b) After one year full pay if the departmental enquiry is not delayed for reasons attributable to the concerned employee or any of his representative (s).
  - (c) Where the enquiry is done by an outside agency and the said agency has come to the conclusion not to prosecute the employee, full pay will be payable after six months from the date of receipt of report of such agency or one year after suspension, whichever is later, and in the event the enquiry is not delayed for reasons attributable to the employee or any of his representative (s)

**(B) Allowances**

For the entire period of suspension dearness allowance and other allowances excepting special allowance, if any, will be calculated on the reduced pay as specified in terms of Sub-Clause (i) and (ii) (a) of Clause A at the prevailing rates or rates applicable to similar category of employees.

Provided that an officer or employee shall be entitled to receive payment of subsistence allowance unless he furnishes a declaration that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

Provided further that if during the period of suspension an employee retired by reason of his attaining the age of superannuation, no subsistence allowance shall be paid to him from the date of his retirement.

**46. Treatment of suspension period and allied matters**

The Competent Authority may, while imposing penalty, also direct whether the officer or employee shall be paid the difference between the subsistence allowance and the emoluments which he would have received but for such suspension, for the period he was under suspension and that, if the Competent Authority decided otherwise, no order shall be passed which shall have the effect of compelling the officer or employee to refund such subsistence allowance. The period during which an officer or employee is under suspension shall, if he is not removed/dismissed from the services, be treated as period spent on duty or otherwise as the Competent Authority may direct.

**47. Right to appeal**

- (i) An officer or employee shall have right of appeal against any order passed under these Regulations which injuriously affects his interest.
- (ii) The appeal shall be preferred to the Appellate Authority mentioned in Regulation 48 within 45 days of the date of receipt of the order appealed against. The Appellate

Authority shall consider the appeal and pass suitable order preferably within a period of 6 months.

48. **Appellate authorities**

An appeal shall lie;

- (i) To the Board where the Chairman of Committee of Directors is the Competent Authority.
- (ii) To the Chairman where any other officer is the Competent Authority.

49. **Requirement of an appeal**

Every appeal shall comply with the following requirements.

- (a) It shall be in writing and couched in polite and respectful language and shall be free from unnecessary padding or superfluous verbiage.
- (b) It shall contain all material statements and arguments relief on and shall be complete in itself.
- (c) It shall specify the relief desired.
- (d) It shall not be addressed to directors personality.

**Chapter - V**

**Pay and allowances**

50. **When accrue and payable**

Subject to the provisions of these Regulations, pay and allowances shall accrue from the commencement of the service of an officer or employee and shall become payable on the last working day of the each month in respect of the service performed during the said month.

51. **When ceases**

- (i) Pay and allowances shall cease to accrue as soon as an officer or employee ceases to be in service.
- (ii) In case of an officer or employee dismissed from the Banks service, the pay and



allowances shall cease from the date of dismissal.

- (iii) In the case of an officer or employee who dies while in service, the pay and allowances shall cease from the day following that on which the death occurs.

## 52. Increments

In a scale, the increment shall accrue on the completion of each specified period of service on each stage of that scale, whether such service be probationary, officiating or substantive.

Provided that an officer or employee shall draw increment on the first day of the month in which it falls due irrespective of the actual date of its accrual.

## Chapter - VI

### Leave and Joining time

## 53. Kinds of leave

Subject to the provisions of these Regulations an officer or employee may be eligible for the following kinds of leave.

- (a) Casual Leave
- (b) Privilege Leave
- (c) Sick Leave
- (d) Extra-ordinary Leave
- (e) Special Casual Leave and Special Leave
- (f) Maternity Leave

## 54. Authorities empowered to grant leave

The power to grant leave shall vest in the Competent Authority.

## 55. Power to refuse leave or recall an officer or employee on leave

- (i) Leave cannot be claimed as a right. When exigencies of the service so require, discretion to refuse or revoke leave of any description is reserved to the Competent Authority.

- (ii) An officer or employee on leave may be recalled to duty by the Competent Authority whenever the Bank deems fit to do so.

Provided that if the officer or employee is at that time out of headquarters, he shall be eligible to be paid the actual expenses incurred by him and the members of his family for returning to the headquarters.

**56. Place of reporting on return from leave**

An officer or employee on leave shall, unless otherwise instructed to the contrary, return for duty to the place where he was posted before proceeding on leave.

**57. Leave not admissible for an officer or employee placed under suspension**

No leave shall be granted to an officer or employee under suspension.

**58. Casual Leave**

- (1) An officer or employee shall be eligible for casual leave on full emoluments for 12 working days in a calendar year.

Provided that not more than four days casual leave on full may be availed of at any one time, and Provided further that holidays and Sundays may not be combined with such leave in such a manner as to increase the absence any one time beyond six days.

- (2) Casual leave to an officer or employee during the first calendar year of his service shall be admissible on a pro-rata basis at the rate of one day for each completed month on part thereof.
- (3) (a) Casual leave not availed of in a calendar year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following year in respect of an officer.
- (b) Casual leave not availed of in a calendar year may be converted into sick

leave on full substantive pay in respect of employees. Such sick leave shall be in addition to the eligible sick leave limits prescribed in Regulation 60.

- (4) Casual leave may not be granted in combination with any other kind of leave, except as provided under sub-regulation (3) (a) above, special casual leave under Regulation 62 and maternity leave under Regulation 63.

59. **Privilege Leave**

(a) **Scale on which privilege leave is earned**

- (1) An officer or employee shall be eligible for privilege leave computed at one day for every 11 days of service on duty.

Provided that at the commencement of service no privilege leave may be availed of, before completion 11 months of service on duty.

- (2) The period of privilege leave to which an officer or employee is entitled at any time shall be the period which he has earned less the period availed of.
- (3) An officer or employee on privilege leave shall be entitled to full emoluments for the period of leave.
- (4) Privilege leave may be accumulated upto 31st December, 1989 for an aggregate period upto 180 days and from 1st January 1990, the privilege leave may be accumulated upto not more than 240 days.

(b) **When application should be submitted**

- (i) Application for privilege leave shall be submitted by an officer or employee one month before the date from which leave is required.
- (ii) Application which does not satisfy the above requirement of sub-regulation. (b) (i) may be refused without assigning any reason.

Provided that if the Competent Authority is satisfied that such notice was not

possible, he may waive this requirement at his discretion.

60. **Sick Leave**

- (1) The sick leave/medical leave account of every officer or employee shall be credited with medical leave in advance, in two instalments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.
- 2 (a) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service, which he is likely to render, in the sick leave/medical leave of the calendar year in which he is appointed.
- (b) The credit for the sick leave/medical leave in which an officer or employee is due to retire or resign from the service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation.
- (c) When an officer or employee is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of sick leave / medical leave shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceeding the calendar month in which he is removed or dismissed from service or dies in service.
- (d) Where a period of absence or suspension of an officer or employee has been treated as 'dies non' in a sick leave/medical leave the credit to be afforded to his sick leave/medical leave account at the commencement of next sick leave/medical leave shall be reduced by one eighteenth of the period of 'dies non' subject to a maximum of ten days.

Provided that sick leave/medical leave can be accumulated during his entire service subject to the following conditions :

- (i) An officer or employee shall be eligible to receive one month's full emoluments during the period of sick/medical leave.

Provided that if an officer or employee so desire, the Bank may permit him to draw full emoluments in respect of any portion of sick leave granted to him twice the amount of such period on full emoluments being debited against his sick/medical leave account.

- (ii) Sick/medical leave will be granted on prorata basis during the first year of service.
- (iii) Sick/medical leave may be availed of only on production of medical certificate issued by medical practioner acceptable to the Bank.
- (iv) Any officer or employee desirous of resuming duty on expiry of sick/medical leave shall produce medical certificate to the satisfaction of the Bank saying that he is fit for duty.

**Explanation :**

1. Till the "appointed date" an officer or employee is eligible for 20 days sick/medical leave for each completed year of service. Such leave can be accumulated upto 180 days.
2. From the "appointed date" an officer or employee shall be eligible for 20 days of sick/medical leave for each completed year of service.

**61. Extra Ordinary Leave**

- (1) Extra ordinary leave maybe granted to an officer or employee when no ordinary leave is due to him and when having regard to his length of service, sick leave is not considered justified by the Competent Authority. The duration of extra ordinary leave to be granted to an officer or employee shall not exceed 90 days on any occasion and 360 days during the entire period of his service.

Provided that in exceptional circumstances the Chairman may with the approval of Board grant extra-ordinary leave upto a total period of 720 days to an officer or employee.

Provided further that incase of chronic sickness of an officer or employee, the Chairman may with the approval of the Board grant extra ordinary leave in

excess of 720 days to him and the Board; while according such approval, shall record the specific reasons thereof in writing.

- (2) The Competent Authority may grant extra ordinary leave in combination with or in continuation of leave of any other kind-admissible to the officer or employee save as otherwise provided in these Regulations.
- (3) No pay and allowances are admissible during the period of extra ordinary leave and the period spent on such leave shall not count for increment.

Provided that where the Competent Authority is satisfied that saction of extra ordinary leave was necessitated on account of illness or any other reason beyond the control of officer or employee he may direct that the period of extra ordinary leave would count for increment.

62. **Special Casual Leave and Special Leave**

An officer or employee may be granted special casual leave and special leave for sports, donation of blood, family planning, defending another officer or employee in an enquiry, or for joining civil defence services or any other purpose as may be decided by the Board in accordance with the guidelines of the Central Government.

63. **Maternity Leave**

- (i) Leave upto period of 135 days at a time may be granted by way of maternity leave including in respect of post natal period or at the time of miscarriage or abortion so however, that not more than twice of such leave shall be available during the entire period of service of a female officer or employee.
- (ii) Maternity leave may be combined with any other kind of leave but any leave applied for in continuation of the former may be granted only if the request supported by certificate issued by a medical practioner acceptable to the Bank.
- (iii) The male employee/officer will also be entitled to avail of 15 (fifteen) days paternity leave twice in entire service.

**64. Lapse of Leave**

All leave shall lapse on the death of an officer or employee or if he ceases to be in the service of the Bank.

Provided that where an officer or employee dies in service, there shall be payable to his legal representatives, sums which would have been payable to the officer or employees as if he has availed of the privilege leave that he had accumulated at the time of his death subject to Sub-Regulation (a)(4) of Regulation 59. Provided further that where a staff retires from the Bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to Sub-Regulation (a)(4) of Regulation 59.

Provided also that in respect of the employee where his services are terminated owing to retrenchment, he shall be paid pay and allowances for the period of privilege leave at his credit.

**65. Furnishing of Leave Address to the Bank**

An officer or employee who has been sanctioned leave and leaves his place of duty shall furnish to the Bank, the address at which he can be contacted while out of headquarters.

**66. Commencement and Termination of Leave**

- (i) The first day of leave of an officer or employee is the working day succeeding that upon which he hands over charge.
- (ii) The last day of leave of an officer or employee is the working day preceding that upon which he reports his return to duty.

**67. Joining Time**

- (1) An officer or employee shall be eligible for joining time on one occasion to enable him;
  - (a) to join a new post to which he is appointed while on duty in his old post, or

- (b) to join a new post on return from leave.
- (2) The period of joining time shall be :
- (a) in respect of an officer, a period not exceeding seven days exclusive of the number of days spent of travel, and
- (b) in respect of an employee a period not exceeding six days exclusive of the number of days spent on travel.
- (3) During the period spent on joining time, an officer or employee shall be eligible to draw the emoluments at the place of old new posting whichever is less.
- (4) In calculating the joining time admissible to an officer or employee the day on which he is relieved from his post shall be excluded.
- Provided that public holidays following the day of his relief shall not be included in computing the joining time.
- (5) No joining time shall be admissible to an officer or employee when the transfer does not involve a posting to a different place.
- (6) No joining time shall be admissible to an officer or employee when his posting is of temporary nature, irrespective of the fact that the posting is to a place or station other than the one at which he is permanently posted.
- (7) No joining time shall be admissible to an officer or employee when the transfer is at his own request.

## CHAPTER VII

### Miscellaneous

#### 68. Provident Fund and Pension

- (1) An officer or employee who has completed continuous minimum service as specified in the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) shall be a member of the Employee's Provident Fund. The contribution to the Provident Fund by the officer or employee and the Bank



shall be in accordance with provisions of the aforesaid Act.

- (2) (a) An officer or employee covered under the provisions of Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) shall be governed by the provisions of Employees Pension Scheme 1995 framed by the Govt. of India in exercise of the powers conferred by Section 64 of the said Act.
- (b) The Pension Scheme so framed shall come into force from the 16th day of November 1995.

69. **Gratuity**

- (1) An officer or employee shall be eligible for payment of gratuity in accordance with the Sub-Regulation (2) here under.
- (2) The amount of gratuity payable to an officer or employee shall be either as per the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 or as per Sub-Regulation (3) here under whichever is higher.
- (3) (i) Every officer or employee shall be eligible for gratuity on
- (a) Retirement
  - (b) Death
  - (c) Disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical officer approved by the Bank or
  - (d) Resignation after completing 10 years of continuous service or
  - (e) Termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

Provided that in respect of an employee there shall be no forfeiture of gratuity for dismissal on account of misconduct except in cases where such misconduct causes financial loss to the bank and in that case to that extent only.

- (ii) The amount of gratuity payable to an officer or employee shall be one month's pay for every completed year of service or part thereof in excess of six months subject to

a maximum of 15 month's pay.

Provided that where an officer or employee has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that in respect of an officer the gratuity is payable based on the last pay drawn.

Provided also that in respect of an employee pay for the purpose of calculation of the gratuity shall be the average of the basic pay (100%) dearness allowance and special allowance and officiating allowance payable during the 12 months, preceding death, disability, retirement, resignation or termination of service, as the case may be.

70. **Domicile**

- (1) Every officer or employee shall on his appointment declare his domicile in writing to the bank Form B Schedule III and if such domicile is not his place of birth he must establish the same to the satisfaction of the Appointing Authority.
- (2) No officer or employee who has once indicated his domicile, shall be allowed to alter the same unless he satisfied the Bank that the change is bonafide and in no case may an officer or employee be permitted to change his domicile in such a manner as to increase the cost to the Bank of any such concession.

71. **Transferability**

Every officer or employee is liable for transfer to any office or branch of the Bank.

72. **Implementation and interpretation of Regulations**

- (1) The Chairman may, from time to time, issue such instructions or directions as he may consider necessary for giving effect to, or carrying out the provisions of these Regulations.
- (2) The Government of India may after consultation with the National Bank interpret these Regulations as and when considered necessary.

**73. Repeal and Savings**

- (1) Every rule, regulation, bye-law, or any provision in any agreement or a resolution corresponding to any of the regulations herein contained and in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to officers and employee is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any order made or action taken under the provisions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the provisions of these regulations

Approved by Board of Directors of UTTAR BIHAR KSHETRIYA GRAMIN BANK in its meeting dated 26th April, 2006.

(S/d - S.N. Mehrotra)  
Chairman

(S/d - A. K. Singh)  
Director

(S/d - S.P. Bhandare)  
Director

(S/d - P.C. Tiwary)  
Director

(S/d - R.K. Ojha)  
Director

(S/d - B.K. Thakur)  
Director

**Schedule I**  
**(See Regulation 18)**  
**Declaration of Fidelity and Secrecy**

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

I, \_\_\_\_\_, do here by declare that I will faithfully, truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as officer or employee of the \_\_\_\_\_ Bank and which properly relate the office or position held by me in the said Bank.

I further declare that I will not divulged or allow to be divulged to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the said Bank or to the affairs of any person having any dealing with the said Bank and nor I will allow any such person to inspect or have access to any books or documents or electronic \_\_\_\_\_ records belonging to or in possession of the said Bank and relating to the business of the said Bank or the business of any person having any dealing with the said Bank.

Signed before me

Signature

Name in full

Designation

Signature

Name in full

Designation

Care : (To be the lines of GOI Rules)

**Schedule II**

**(See Regulation 5(4))**

Declaration to be obtained from every officer or employee on first appointment

1. Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ s/o w/o d/o  
\_\_\_\_\_ declare as under.

- (i) That I am unmarried / a widower / widow.
- (ii) That I am married and have only one spouse living.
- (iii) That I have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. Application for grant of exemption is enclosed.
- (iv) to be modified.

2. I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment I shall be liable to be dismissed from service.

Date

Signature

-----

Schedule III  
Form B  
Declaration of Domicile

(See Regulation 70)

Place .....

Date .....

I, the undersigned, having been appointed in the service of the \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Bank hereby declare \_\_\_\_\_ (Place) in \_\_\_\_\_  
(District) as my place of domicile.

2. \*The above is my place of birth

or

\*The above is not my place of birth. My place of birth is \_\_\_\_\_  
(Place) in \_\_\_\_\_ (District) but \_\_\_\_\_ (Place) has been  
declared as my place of domicile for the reasons given below.

-----  
-----

Name in full

Designation and

Nature of appointment

Date of appointment

Signature

\*Strike out whichever is not applicable.

  
(S.N. Mehrotra)

Chairman

भारतीय रिज़र्व बैंक  
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग  
केंद्रीय कार्यालय

मुंबई-400005, दिनांक 20 सितंबर 2006

**प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्संरचना कंपनियों  
(रिज़र्व बैंक)(संशोधन) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश, 2006**

सं. गैबैपवि. 5/सीजीएम(पी.के.)/2006--

भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात पर विचार करने के बाद कि जनता के हित में यह आवश्यक है और इस बात से संतुष्ट होने पर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के लिए व प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी के कार्य निवेशकों के हितों के विरुद्ध होने या प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी के विरुद्ध होने को रोकने के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम(SRFAESI Act), 2002 की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्संरचना कंपनियों (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश, 2003 तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित हो जाएगा अर्थात :-

निदेश में संशोधन

प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्संरचना कंपनियों (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश, 2003 का पैरा 5(v) निम्नवत प्रतिस्थापित होगा:-

(v) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन से ट्रस्ट संस्थापना द्वारा जारी सिक््युरिटी रसीदों में प्रत्येक योजना के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से 5% से अन्यून निवेश करेगी।

बशर्ते कि -

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी जिसने पहले ही सिक््युरिटी रसीदें जारी की हैं, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 6 माह में प्रत्येक योजना के अंतर्गत सिक््युरिटी रसीदों में न्यूनतम अभिदान सीमा प्राप्त करेगी।

पी. कृष्णमूर्ति  
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

सं. गैर्बैपवि. 187/मुमप्र(पी.के.)/2006--

भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनता के हित में और वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2)की धारा 45 अक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. DFC. 119/DG(SPT)-98 में अंतर्विष्ट निदेशों को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करता है अर्थात्-

1. पैराग्राफ 10 में स्पष्टीकरण (1) के अंतर्गत नोट 2 के बाद निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा अर्थात्:

"(3) जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक जोखिम की गणना करते समय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि रूपी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसकी मुजरायी(set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायोजन कर सकती हैं।"

2. निदेश के पैराग्राफ 13 में वर्णित पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्तियों/जोखिमों और जोखिम परिसंपत्तियों के अनुपात आदि संबंधी मार्च/सितंबर की अर्द्धवार्षिक विवरणी NBS - 2 के फार्मेट के भाग D में नोट सं. 4 जोड़ा जाएगा अर्थात्-

"(4) किसी उधारकर्ता के समग्र बकाया जोखिम की गणना करते समय, बकाया अग्रिमों से नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि, जिसकी मुजरायी(set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायोजन किया जा सकता है।"

पी. कृष्णमूर्ति  
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक



सं. गैबैपवि. 188/मुमप्र(पी.के.)/2006--

भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनता के हित में और वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2)की धारा 45 अक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. DFC. 119/DG(SPT)-98 में अंतर्विष्ट निदेशों को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करता है अर्थात्-

2. पैराग्राफ 9 C के बाद एक नया पैराग्राफ जोड़ा जाएगा :

**" सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना**

9D. प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह (कंपनी) गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार कर रही है जिसके लिए उसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-अक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। सांविधिक लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के लिए प्राप्त कर गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को हर वर्ष 30 जून से पहले प्रस्तुत किया जाए जिसके अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण है। "

पी. कृष्णमूर्ति  
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

दि. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 7 अगस्त 2006

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

अ.3एनसीए(4)/1/2004-2005 : चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के नियम 18 भाग 20(1)(सी) के चार्टर्ड एकाउंटेंट एक्ट, 1949 के अंतर्गत इस इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्धारित वार्षिक फीस जमा न करने के कारण 1 अक्टूबर, 2004 से निम्नलिखित सदस्यों के नाम रद्द कर दिए गए हैं।

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
1.	002364	श्री सर्मा लक्ष्मणराव 23 पल्लव वेंचू, कोटोडी नगर कैलीफोर्निया-92679-4735 यू.एस.	8.	006842	श्री मलिक जय गोपाल 229 डा. जोशी रोड करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005
2.	003032	श्री सिंघ सतपाल ए-406, डिफेंस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली-110024	9.	006961	श्री एलेक्जेंडर विकटर सऊदी विजीस मरीस पी ओ बक्स 5648 जेहर-21432
3.	004481	श्री नागपाल सुरिन्द्र कुमार नागपाल एन्ड कं. 44 राजिन्द्र नगर मार्केट बारा बजार मार्ग न्यू दिल्ली-110060	10.	907842	श्री फल्लु प्रदीप ई-15, एन.डी.एस.ई. पार्क-1 न्यू दिल्ली-110049
4.	004997	श्री राजेश्वर दयाल सी-224, बिल्क विहार दिल्ली-110095	11.	008852	श्री खन्ना प्रेम नाथ 154, कदम्बरी अपार्ट. सेक्टर-9, रॉडिंगी दिल्ली-110085
5.	005142	श्री राजज जगदीश कुमार 13112 कैस्टगेट ओनरलेड हार्क कन्सल-66213	12.	009583	श्री अशुतोष रविन्दर कुमार आर 534, न्यू राजिन्द्र नगर न्यू दिल्ली-110006
6.	005414	श्री यशवीर जगदी बी-8/11, वरुणा विहार न्यू दिल्ली-110057	13.	010213	श्री टंकुन प्रेम निवास प्रसाद 6562/बी, चम्पैलियन रोड दिल्ली-110006
7.	006751	श्री अशोक शिव दयाल 19-ए अंसारी रोड हरिया गंग, न्यू दिल्ली-110002	14.	011387	श्री राजन रामपाल 350 फोर्सेट-ए सरीला विहार, न्यू दिल्ली-110044
			15.	011409	श्री रामचंद्र कृष्ण लाल 18, न्यू प्रातिष्ठाल अपार्टमेंट कंसुमरा अन्वलेख, दिल्ली-110096

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
16.	011500	श्री दुआ मधुसूदन सफना अपार्टमेंट्स 198/19, रमेश मार्किट इंस्ट ऑफ कैल्कस, न्यू दिल्ली-110065	27.	015654	श्री समीर कुमार सेन 104, नैसल मिडिया सेंटर संकर चौक, गुड्राँव-122002
17.	011795	श्री गोपाल सुशील कुमार सी-8/8282 कस्तू कुंज न्यू दिल्ली-110070	28.	016282	श्री मेहता अशोक चंद 4 कोय्युनीटि सेंटर इंस्ट ऑफ कैल्कस न्यू दिल्ली-110065
18.	012351	श्री बंसल राधे श्याम मैसर्स आर. श्याम एन्ड कं. 5/65, अगारसेन नगर फेस्ट ऑफिस स्ट्रीट, गुड्राँधी सेक्टर-131001	29.	016472	श्री गुप्ता अरुण प्लॉ इंजीनियरिंग पोलीमर्स लि. बी-59, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 फेज-11, न्यू दिल्ली-110048
19.	013588	श्री कपूर विजय कुमार बंगलो नं. 43 रोड नं. 71, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली-110026	30.	016510	श्री शर्मा महावीर प्रसन्न एच. नं. 295/2 अलेन्ड दिल्ली रोड गुड्राँव-122015
20.	013617	श्री यादव राजेश्वर किशोर एमआईपी फ्लैट्स 3-ए, राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली-110027	31.	016651	श्री सपरा दलबीर एस एच नं. 1281, सेक्टर 37-बी चंडीगढ़-160023
21.	013991	श्री विनया अशोक कुमार फार्मिस डायरेक्टर, जे. के. इंस्ट्रूज, लिनक हाउस 3, बहादुर राह जफर मार्ग न्यू दिल्ली-110002	32.	016760	श्री सुशील कुमार 311, सेक्टर-23 गुड्राँव-122007
22.	014343	श्री चौपड़ा कलीप कुमार आर-804, न्यू रविन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060	33.	016933	श्री सराफ पवन कुमार जे के सिमेंट वर्क्स गालिब भावन, माला सुंदरी रोड न्यू दिल्ली-110002
23.	014815	श्री बज्जल अशिला कुमार 140, गेल्फ लिम्स न्यू दिल्ली-110003	34.	017271	श्री सिंह स्वर्ण जीत ई-76, रिज्युड स्टेट डीएलएफ सिटी फेज-IV गुड्राँव-122002
24.	015091	श्री अश्वल अशोक कुमार 1900, सेक्टर-8 फरीदाबाद-121006	35.	017530	श्री मिश्र सुदर्शन कुमार 1896, अप्पा लूसन ब्रह्म नैपरविले, आई.एल. 60565 इल्हीनोस (यूसए)
25.	015186	श्री परमेसा सूरी 111 फॉरेस्ट ट्रेड, स्वराजरोड, ओटेरिओ-एम्बी 305	36.	017952	श्री मारोत्वर प्रसन्न केयरमेन कम मैनेजिंग डायरेक्टर एग्रीकल्चर इन्स्यूरेस कं. ऑफ इंडिया लि. 13 फ्लोर, अम्बेदीक, 14 के जी मार्ग न्यू दिल्ली-110001
26.	015452	श्री सिंह बालबीर बी-3/353 फ्रीकम विहार न्यू दिल्ली-110063			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
37.	028174	श्री हरिहर शंकर एम पीओ बक्स-25584 जुवा	47.	054023	श्री रंजन लाल केयर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस कं. 200 वैसे स्ट्रीट, एनवाई 10285, न्यू यार्क (यूएसए)
38.	041073	श्री देवेंद्राज आनंद केयर ऑफ श्री एस एन खेमका सी-87 गेल्फ व्यु अपार्ट्स अपो. ज्ञान भारती स्कूल सर्वे, न्यू दिल्ली-110017	48.	054540	श्री कंदू सुकुमार जीएच-4, फ्लैट नं. 271 मौरा अपार्टमेंट एरिया-जी17 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली-110063
39.	044717	मिस भावता अर्चना ई-182, सरीता विहार न्यू दिल्ली-110044	49.	054544	श्री अग्रवाल दिनेश कुमार मै. दिनेश अग्रवाल एन्ड एलेसिएट्स 1405 बाजार सीता राम, फर्स्ट फ्लोर दिल्ली-110006
40.	045405	श्री चौधरी रजेश एच नं. 161, II फ्लोर फोकेट सी 4, सैक्टर-6 रेडिपो, दिल्ली-110085	50.	055691	श्री अरोड़ा रमन सी-79, उपकार को-ओप. हा. सो. पयूर विहार फेज-I दिल्ली-110091
41.	048315	मिस नयक निहा रमकन्या 35, अरावली, सैक्टर 13 आर के पुरम, न्यू दिल्ली-110066	51.	056818	श्री डे सुनील 1/बी, विश्वनाथ मोतीलाल लेन कोलकाता-700012
42.	051738	श्री रजेश शरण 315, सतलुप एक्स. प्लान II मस्जिद मोह, न्यू दिल्ली-110049	52.	056858	श्री जैन जितेन्द्र कुमार 926/1, III फ्लोर फेज रोड, नई बाला करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005
43.	052277	श्री मल्होत्रा हेमंता कुमार केयर ऑफ संतोष टिखिता एन्ड कं. ए-24, मेन मार्केट मधु विहार, दिल्ली-110091	53.	057042	श्री अंगशु सेन गुप्ता ब्लॉक डबल्यू फ्लैट 016 रिजेरि पार्क II, डीएलएफ फेज IV गुड्राँव-122002
44.	052849	श्री स्नेही पवन कुमार सी-29, नेहरू अनामलेख कलकत्ता, न्यू दिल्ली-110019	54.	057150	श्री रमन कार्तिक 17/10, कलकत्ताजी एक्सप्रेसवेन न्यू दिल्ली-110019
45.	053517	श्री गंगूनी रजेश बी-109, सिविलिक मलविय नगर, न्यू दिल्ली-110017	55.	057426	श्री सच्चु सुभाषीत 107, लक्ष्मण सिंह कॉम्प्लेक्स-I मुनिरका, न्यू दिल्ली-110067
46.	053620	श्री सेन निलंजन करोल डी सेक्रेटन कोयूनिवर्सस सी-39, सैक्टर-58 नेहरू-201301	56.	057495	श्री वैकट सत्य प्रकाश विदेल 32 विस्वकर्मा सेक्टर-1 करोल अनामलेख नियर डीडीए मार्केट, दिल्ली-110096

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
57.	058119	श्री उदय प्रकाश फ्लैट नं. 502, फेला अशिता अपार्टमेंट्स ए-36, तिलक मार्ग, नियर एलबीएस कॉलेज जयपुर-302004	66.	060321	श्रीमती अग्रवाल मीनू 88/92 नागदेवी क्रॉस लाइन, घरीवाला बिल्डिंग, 2 फ्लोर मुम्बई-400003
58.	058443	श्री डोकनिय प्रवीण कुमार ए-108, अरिसा विहार अपार्टमेंट सेक्टर-9, रोहिणी दिल्ली-110085	67.	060492	श्री यादव राम चन्द्र प्रसाद केयर ऑफ मै., जी कुमार एन्ड कं. 17, जल गंगा चौबरा एम. जी. रोड (सीजी) रायपुर-492001
59.	058483	श्री पंडे अलोक नारायणन केयर ऑफ बालराज अरोड़ा सी 5 सी/88ए, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	68.	062074	श्री अग्रवाल विनोद कुमार जी-1, 1 फ्लोर टैक्सटाइल मार्केट, पांडरी रायपुर
50.	058781	श्री चक्रवर्ती श्रीगीत के-2106, ग्रैंड फ्लोर वितरंजन पार्क न्यू दिल्ली-110019	69.	062245	श्री सिंह अभिषेक रिलग्रंथ इनफोकॉम लि. सी. जी. रोड, अहमदाबाद-380015
51.	058856	श्री सिंघा जयं कुमार एस-505, स्कूल ब्लॉक 2 शकरपुर (फ्लैट 2ए/3एफ) दिल्ली-110092	70.	070215	श्री खट्टर राजीव फ्लैट नं. 18, 8 फ्लोर विशाल टॉवर, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी, न्यू दिल्ली-110058
52.	058926	श्री चौहान राजेश कुमार ए-1/105, समदरजा अनवलेज न्यू दिल्ली-110029	71.	070329	श्री राकेश चन्द्र एडीडीएन डायरेक्टर जनरल फिनीस्ट्री ऑफ कम्पनी अफेयर्स ए-46/12, डीएलएफ सिटी फेज-1 गुड्राँव-122002
53.	059096	श्री मिश्रा राजेश कुमार बी-14, सुभाषन निकेटा मधुवन चौक, पीताम पूरा दिल्ली-110034	72.	070550	श्री खन्ना राजेन्द्र मधुवन स्मार्ट लि. 6 फ्लोर, कर्ति म्हाल 19 राजेन्द्र प्लेस न्यू दिल्ली-110008
54.	059706	श्री मिश्रा अनिल कुमार केयर ऑफ मै. एन सी कपूर एन्ड कं. 2ए संतर मार्केट, फ्लॉट सर्कस न्यू दिल्ली-110001	73.	070659	श्री चौधरी संदीप बी 1/1666 परसा कुंज न्यू दिल्ली-110070
55.	059862	मिस्स बासु राय सुदेशना केयर ऑफ सिम्पलरहान बीकेम कन्स्यूम्स हेल्थकेयर लिमिटेड डीएलएफ एन्ड टॉवर डीएलएफ सिटी फेज I गुड्राँव-122002	74.	070751	श्री सिन्हा नवीन 11577, मारीसा वे गोल्ड रिवर, सैर कैलीफोर्निया-95670(यूसएस)

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
75.	070841	श्री अग्रवाल राकेश कुमार खे-308, नरवना अपार्टमेंट्स फ्लॉट नं.89 मधु विहार आईपी एक्सटेंशन दिल्ली-110092	84.	073390	श्री गौरव अग्रवाल 19/14, बेबर्ट स्ट्रीट पारमेन्टा, न्यू साऊथ वेस्ट (आस्ट्रेलिया)
76.	071153	मिस सिन्हा इंद्रा 11577, भारीसा वे गोल्ड रिवर, सीए कैलीफोर्निया-95670(यूसए)	85.	074990	श्री सुकल आशुज 1/4969, बलबीर नगर एक्स. साहदरा, दिल्ली-110032
77.	071178	श्री जैन अनिल कुमार 497, सैक्टर-37, अरुण विहार नोएडा-201301	86.	075031	श्री टोमर नीरज सिंह एन-26, फर्स्ट फ्लोर लजपत नगर-II, न्यू दिल्ली-110024
78.	072135	श्री अरोड़ा देवेन्द्र कुमार ई-801, पवित्र अपार्टमेंट्स फ्लॉट-12, कसूबा अन्वलेज दिल्ली-110096	87.	075098	श्री मेंदीरत्न मधुकर सी7/1/201, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058
79.	072274	श्री मोहनअनेजितेन्द्र जनरल मैनेजर-फार्मिस इंडप्रस्था गैस लि., 14 फ्लोर, डा. गोपाल दास बिल्डिंग 28, बाराखम्बा रोड न्यू दिल्ली-110001	88.	075431	श्री मिश्रा राजेन्द्र कुमार 394 मोटा सिंह नगर जलन्सर-144001
80.	072509	श्री गुप्ता विकास चन्द्रा एन-90, सरीता विहार न्यू दिल्ली-110044	89.	076174	श्री आनंद रस्तोगी सि. एकाउंट्स आफिसर एच पी कोरप. लि. 12 ब्रॉस रोड, अंबाला-133001
81.	072868	श्री अग्रवाल पंकज बी 28, पोकेट बी मयूर विहार 2, दिल्ली-110091	90.	076575	श्री अरोड़ा राजेश 6/490 ओल्ड महावीर कालोनी सेनीपत-131001
82.	072925	श्री संजय सचेटी ओल्ड एक्सपोर्ट्स (आई) लि. 2 फ्लोर, 48, टोडर मल रोड कान्हाली मार्केट न्यू दिल्ली-110001	91.	077631	श्री अग्रवाल मनीष 26-बी, जे एच को पोकेट दिलसाद गार्डन दिल्ली-110095
83.	073333	मिस सिंधी सुविधा सी-14/3, सक्केत न्यू दिल्ली-110017	92.	077805	श्री कक्कड अश्विनी कुमार 202, अनारकली कॉम्प्लैक्स इण्डेक्स्टरन एक्सटेंशन न्यू दिल्ली-110055
			93.	077857	श्री मत्ता अश्लीष कुमार जीई कोर्टल इंटरनेशनल सर्विसिज 78, सैक्टर-18, गुड्राव-122015

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
94.	078446	श्री अग्रवाल मनमोहन सूअस # 408, 2 फ्लोर सैक्टर 35ए, चंडीगढ़-160022	104.	080252	श्री आनंद रूफिन्दर 58, जोर बाग न्यू दिल्ली-110003
95.	078704	मिस मिन्नी 132बी, ए/डी, सलीमबाग दिल्ली-110088	105.	080281	श्री शर्मा भीम सेन जे-92, 1 फ्लोर आर बी आई स्टाफ कालोनी पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली-110063
96.	079090	मिस अग्रवाल स्मिता ग्लोबल सिविल इंजिन बीकेएम कन्सल्टिंग हेल्थकेयर लि. डीएलएफ प्लाजा टॉवर्स डीएलएफ सिटी फेज-1 गुड्राव-122002	106.	080287	श्री नरिन्दर कुमार # 220, सैक्टर-40ए चंडीगढ़; 160022
97.	079458	श्री अग्रवाल गुंजन केयर ऑफ श्री उमेश गर्ग 1-15, कौर्ति नगर न्यू दिल्ली-110015	107.	080343	श्री विनोद कुमार एच-58, प्रउंड फ्लोर रेजीडेन्सी ग्रीन्स, ग्रीनवुड सिटी सैक्टर-46, गुड्राव-122001
98.	079692	श्री गर्ग चन्द्र कर्ता पीपी-11 एक्स. (नियर चर्च) लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	108.	080369	श्री सेठ प्रदीप सी-13, मानसरोवर गार्डन न्यू दिल्ली-110015
99.	080099	श्री खुर्ना प्रवीण कन्सल्टेंट, एन-91, पंचसिला पार्क न्यू दिल्ली-110017	109.	080381	श्री अतुल कुमार के-3/14 डीएलएफ सिटी फेज-11, गुड्राव-122002
100.	080144	श्री शिव कुमार ए-84, क्लिक विहार-1 दिल्ली-110032	110.	080425	श्री मल्होत्रा शाम कुमार 748, सैक्टर-11, पंचकुला
101.	080151	श्री मेहरा कमला किशोर बी-16, राज प्रताप बाग दिल्ली-110007	111.	080453	श्री गोयल राधे श्याम 539, मंगला पुरी जेजे कालोनी फेज 1, न्यू दिल्ली-110045
102.	080220	श्री देवेन्द्र कुमार डी कपूर एन्ड कं. 4228, तेला मंडी चौक पहाड़ गंग (अन्व. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन) न्यू दिल्ली-110055	112.	080531	श्री शर्मा किरण राज बी-XX 1131 कृष्ण नगर धुमार मंडी, सुबिधान-141001
103.	080237	श्री चक्रवर्ती इंडियन ओरिएन्टल कोरपोरेशन लि. स्कोप कॉम्प्लेक्स रोड रोड, न्यू दिल्ली-110023	113.	080616	श्री शर्मा चन्दर मोहन 1/2406 भावति कुटीर स्ट्रीट नं. 1, इस्ट राम नगर सायदा, दिल्ली-110032

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
114.	080758	श्री बिरल पवन कुमार जल संभरण पुतीह लेन 26 बी हाऊस नं. 3, आरटी 12 आरटी 8, सेमपाका पुतीह जकरटा-10520	124.	081317	श्री अग्रवाल जादीश प्रसाद एम. अग्रवाल एन्ड एसोसिएट्स एफ-74, 1 फ्लोर, ग्रीन पार्क मेन न्यू दिल्ली-110016
115.	080856	श्री चौधरी हर्ष कुमार एच के चौधरी एन्ड एसोसिएट्स सी-530, सरस्वती विहार दिल्ली-110034	125.	081425	श्री मल्होत्रा कंवर सुरेन्द्र 11752/5 सत नगर करोल बाग न्यू दिल्ली-110005
116.	080912	श्री देवा रवि सी-52 फ्रेन्ड्स कालोनी न्यू दिल्ली-110065	126.	081518	श्री मिश्रा शशि कान्त कान्त एन्ड कं. कान्त अन्वलेष, नरवाना-126116
117.	080979	श्री वाक्य राकेश मै. नेपाल रिजिस्ट्रेशन सेंटर प्रा. लि. तारामपुर, कच्छांड	127.	081693	श्री गुप्ता मोहित बी-VII 1097/अइसी विकास नगर, क्लॉक टॉवर लुधियाना-141001
118.	080993	श्री लखवानी मोहिन्दर कुमार 105 जैन एस राकेश टॉप 11 यूसुफ सार्ज कर्मरियल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली-110049	128.	081711	श्री महाशिम रवि 83ए जीएफ डीडीए फ्लैट्स मस्जिद मोष फेज-II न्यू दिल्ली-110048
119.	081003	श्री सुनामुक्ता अमितान अर-18, सऊथ एक्स. फर्ट-II न्यू दिल्ली-110049	129.	081758	श्री मंगल राजेश कुमार 301 महावीर श्री हाऊस 4771/23 भारत राम रोड दुर्गा गंज, न्यू दिल्ली-110002
120.	081053	श्री गंधी संगीत 1/24 सैकंड फ्लोर, बंसी हाऊस अक्सफ अरि रोड न्यू दिल्ली-110002	130.	081905	श्री विजय कुमार घर्टंड एकाउंटे चंदर लोक कालोनी स्ट्रीट नं. 3, बिरांड अरोड़ा क्लिनिक मंडी गेवंदगढ़-147301
121.	081119	श्री सूर्यसिंह नंदन 129, नवश्रीन विहार न्यू दिल्ली-110017	131.	081963	श्री जैन अरविंद कुमार जैन निधी एन्ड अरविन्द 106, 1 फ्लोर सी-17, गुरु नानक पुरा अपो. लक्ष्मी नगर डिस्ट. सेंटर दिल्ली-110092
122.	081143	श्री कलानी रमेश कुमार हाऊस नं. 772 सेक्टर 2, पंचकुला-134109	132.	082012	श्री विश्वरतन 32 मीरकल कर्टे, ब्रम्पटन ओटेरिगे-एल 68क्यू 4एल 1
123.	081181	श्री प्रोफ. विनोद सी-60, मल्लिकान नगर न्यू दिल्ली-110017			



क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
133.	082042	श्री बालिध अरविंद क्यू ह्यूकेला टेरोसन इंडिया लि. 74, आईडीएल मेरौली रोड गुडौध-122001	144.	082435	श्री दत्ता विजय कुमार ए-2/174, सफदरजां अनक्लेव न्यू दिल्ली-110029
134.	082091	श्री माधुर योगेश ई-107, नरवाना अपार्ट्स 89 पटपरगंज, दिल्ली-110092	145.	082547	श्री अग्रवाल रणबीर सिंह 4517 I फ्लोर, कृष्णा बाजार क्लॉथ मार्केट, दिल्ली-110006
135.	082102	श्री चहल नवीन ई-372, ग्रेटर कैलाश-1 न्यू दिल्ली-110048	146.	082555	श्री गुप्ता संदीप 3928/28 रेवरपुरा करोल बाग न्यू दिल्ली-110005
136.	082131	श्री अग्रवाल अजय कुमार 62 जागृति अनक्लेव विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली-110092	147.	082607	श्री जिंदल राज कुमार 205ए, भक्ल हाउस 17, युसूफ सराय कोम. कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली-110016
137.	082144	श्री गुप्ता विनोद कुमार जी-207, रश्मि अपार्टमेंट्स हर्ष विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	148.	082670	श्री जुनेजा प्रवीण ई-47, ग्रेटर कैलाश-11 न्यू दिल्ली-110048
138.	082166	श्री सुंदर रमन बी के-68, फ्लैट फ्लोर जंगपुरा एक्सटेंशन न्यू दिल्ली-110014	149.	082672	श्री अजमानी राकेश कुमार 143-बी सैकंड फ्लोर एलआईजी फ्लैट्स राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली-1100027
139.	082273	श्री मिश्र रजिन्दर प्रसन्न 6/52, वैस्ट फंजबी बाग न्यू दिल्ली-110026	150.	082695	श्री अग्रवाल अशोक कुमार 3288, पीहल महादे, हंजा कर्जी दिल्ली-110006
140.	082294	श्री कपूर विवेक विवेक कपूर एन्ड कं. अम्बाला	151.	082715	श्री अग्रवाल अनिल कुमार बी-5/286 (एमएफएस) सेक्टर-8, रोहिणी दिल्ली-110085
141.	082368	श्री गुप्ता राजेन्द्र प्रसन्न 2/बी, सागर अपार्टमेंट्स 6, तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली-110002	152.	082780	श्री शर्मा रमेश कुमार बी-1, न्यू कैम्पस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जम्मू तबी-180001
142.	082410	श्री हरीश चन्दर 37/44, वैस्ट फंजबी बाग न्यू दिल्ली-110026	153.	082787	श्री आहुजा मनोज कुमार एम के आहुजा एन्ड एसोसिएट्स हाऊस नं. 1430, सेक्टर 15, पंचकुला-134115
143.	082414	श्री बसन राजन डी-12, वैस्ट निष्कम्बिन न्यू दिल्ली-110014			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
154.	082840	श्री सिंह राजिन्दर पाल 8, II फ्लोर, मेन रोड चिरगा दिल्ली, न्यू दिल्ली-110017	163.	083071	श्री सूरी पानिन्दर पाल सिंह 405, साऊथ प्लेन-ए एन.डी.एस.ई., पार्ट-II न्यू दिल्ली-110049
155.	082866	श्री नमिष्य प्रवीण केयर ऑफ सर्वा एस्पेरिटेस 8/28, डबल्यू.ई.ए. अब्दुल अजीज मार्ग III फ्लोर, करोला बाग न्यू दिल्ली-110005	164.	083125	श्री अरोड़ा सुदर्शन मै. एस अरोड़ा एन्ड कं. 187, सत्या निकेतन II फ्लोर, न्यू दिल्ली-110021
156.	082925	श्री धमीया नरेन्द्र कुमार डी-34, अजय अन्वलेख न्यू दिल्ली-110018	165.	083137	श्री कानेरिया किशोर कुमार रिजन्ल ऑडिट मैनेजर केयर ऑफ एसीरेट्स इंटरनल ऑडिट डिपार्ट. पो. ओ. बाक्स 686, दुबई
157.	082950	श्री मसालदान शैलेन्द्र नारायण मै. एस.एन. मसालदान एन्ड कं. 240 सिम्हार्ब अन्वलेख नियर अग्रम चौक न्यू दिल्ली-110014	166.	083138	श्री अग्रवाल गीरीश कुमार 09316, गौशाला रोड किशन गंज, दिल्ली-110007
158.	082975	श्री गुप्ता राकेश कुमार ई/पा13/4, वस्तु विहार न्यू दिल्ली-110057	167.	083187	श्री चांदना जेमिन्दर जे चांदना एन्ड कं. 303 सेक्टर भवन 16/2, डबल्यू.ई.ए. करोला बाग न्यू दिल्ली-110005
159.	082986	श्री मित्र विस्वजीत फ्लैट नं. 305 1191/6 एलबी बफक्स रोड नाईबला, करोला बाग न्यू दिल्ली-110005	167.	083196	श्री महज्जन अजय 46132, एसविचय टेरेस स्टारलिंग वर्जिनिया-13007(यूससय)
160.	083020	श्री मलिक विजय सिंह 10-बी, नेत्रजी सुभाष मार्ग दरिया गंज, न्यू दिल्ली-110002	168.	083201	श्री भसीन ब्रिज महेन डि. जनरल मैनेजर एचडीएफसी लि. कैपिटल कोर्ट, ओलाफ पाल्मे गर्ग मुनिरकन, न्यू दिल्ली/110067
161.	083044	श्री लक्ष्मण प्रदीप 47 प्रिमरोज एवेन्यू छाडवैला हीव, रामफोर्ड एरीक्स-आरएम6 4 पीयू	169.	083206	श्री सिंह गुरविंदर 52, मौसम विहार दिल्ली-110051
162.	083056	श्री अहजुन त्रिलोक कुमार 114ए, आर्बर रोड # 07-01 कार्टोग पार्क टॉवर सिंहफोर-439826	170.	083231	श्री अग्रवाल अक्वीश कुमार सी-451, मल्होत्रा हाऊस अर्जुन नगर, अयो. डिफेंस कालोनी न्यू दिल्ली-110003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
172.	083248	श्री नेहरू रविन्दर कुमार नियर पुलिस पोस्ट राजबग, श्रीनगर	182.	083583	श्री डीगिरा सुनील 10-एफ-मालविया कॉम्प्लेक्स एमएम मालविया रोड अमृतसर-143001
173.	083405	श्री बंस्ल दया प्रसन्न एसएफएस डीडीए फ्लैट नं. 154 ख. मुखर्जी नगर दिल्ली-110009	183.	083625	श्री यदु महेंद्रा सी-13, मानसरोवर गार्डन न्यू दिल्ली-110015
174.	083413	श्री गुप्ता नरेन्द्र मोहन सी-28, मेफेयर गार्डन न्यू दिल्ली-110016	184.	083643	श्री कान्त हरदेश 29 न्यू ग्रन मार्किट अम्बाला सिटी, अम्बाला-134003
175.	083440	श्री स्याल संगीव 2 फ्लोर 61, पंचक्यूउन रोड न्यू दिल्ली-110001	185.	083719	श्री सतीश कुमार 47 बलबिन्दर अपार्टमेंट्स ए-6, पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110063
176.	083459	श्री शर्मा उमेश कुमार ई-73, डीडीए एमआरजी फ्लैट्स सबकेत, न्यू दिल्ली-110017	186.	083779	श्री मेहता रजत कुमार जीई कैपिटल सर्विसिज इंडिया 4 ए डीएलएफ कोरपोरेट पार्क फेज-III, गुड्डाँस-122002
177.	083469	श्री सतीश कुमार 103 अनुम अपार्टमेंट्स एम बी रोड सबकेत, न्यू दिल्ली-110017	187.	083803	श्री कुमार कमल 137, गर्ग प्लाजा संत नगर रोड कोम्प्यूनिटी सेंटर, पीतम पुरा दिल्ली-110034
178.	083477	श्री गोयल कृष्ण मैनेजिंग डायरेक्टर एकरएलजी सिस्टेल लिमिटेड, यूनिट 3-6 ग्रैंड फ्लोर, टॉवर-ए, यूनिटेक गीनैस पार्क एफ ब्लॉक, सउज सिटी-1 सेक्टर-41, गुड्डाँस-122001	188.	083804	श्री गोयल अनिल कोठी नं. 217- सी भाई रणधीर सिंह नगर लुधियाना-141001
179.	083513	श्री गोयल अनिल पी ओ बक्स 16776 दुर्ग	189.	083870	श्री गुप्ता मुकेश कुमार 105 चौकरी कॉम्प्लेक्स 9 मधुवन रोड दिल्ली-110092
180.	083545	श्री सतीश कुमार नीलमस नैस्ट, बी-21, फ्लैट फ्लोर मोती नगर, न्यू दिल्ली-110015	190.	084063	श्री अश्वल प्रवीण 33-बी फ्लोर गार्डन मार्किट खंती चौक दिल्ली-110006
181.	083572	श्री कुलशूषण कुमार बी-18, मंडल टाउन रोड नियर इनकम टैक्स ऑफिस अनो. प्रवस कलर लैन्ड, जालंधर-144001			

क्र. सं.	एम. आर. एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम. आर. एन.	सदस्य का नाम व पता
191.	084096	श्री जैन अजय सी-14, सी. सी. कालोनी दिल्ली-110007	202.	084693	श्री रहेजा नरिन्द्रा चीफ फाइनेंसियल ऑफिसर भारती टेलिनेट लि. 224, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट फेज-III, न्यू दिल्ली-110020
192.	084122	श्री अशोक कुमार 5-ए/10972, डब्ल्यू. ई. ए. संत नगर, करेल बग न्यू दिल्ली-110005	203.	084785	श्री खन्ना राकेश एम-115-ए ग्रेटर कैलाश पार्ट I न्यू दिल्ली-110048
193.	084151	श्री जोहर मनिंदर सिंह 405, साऊथ एक्स. प्लाजा II न्यू दिल्ली-110049	204.	084796	मिस खुशना उर्मिला डी-3/3, वसंत विहार न्यू दिल्ली-110057
194.	084261	श्री खुल्लर दीपक कोयर ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पी ओ बक्स 999, दुर्गा	205.	084874	श्री केलकर मिलिन्द कुमार "असौवर्द" 27, भारती आर्टिस्ट्स कालोनी विकास मार्ग, ट्रान्स यमुना दिल्ली-110092
195.	084276	श्री गुरता सुरेश कुमार एससीओ 44, हुब कॉम्प्लेक्स रोहतक-124001	206.	085025	श्री सचदेव दिलबहाग सिंह 63 वैस्ट एवेन्यू रोड वैस्ट पंजाबी बग न्यू दिल्ली-110026
196.	084341	श्री अशोक कुमार पी-7, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन न्यू दिल्ली-110016	207.	085091	श्री देविन्दर कुमार डी-1/116, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058
197.	084357	श्री सुनील कुमार 7/69, मोती नगर न्यू दिल्ली-110015	208.	085092	श्री जैन सुनील कुमार बी-35, ग्रीन पार्क मेन न्यू दिल्ली-110016
198.	084452	श्री कपूर संजय 7ए, पाकेट-डी, एसएफएस फ्लैट्स मयूर विहार फेज-III दिल्ली-110096	209.	085109	श्री कंवर स्तीष कुमार 262 सैक्टर 17 फरीदाबाद-121001
199.	084507	श्री रमेश विवेक कृष्ण सी-67, निष्कपुत्रीन इस्ट न्यू दिल्ली/110013	210.	085125	श्री गार्ग रोशन लाल गोहना रोड अपे. मलिक हॉस्पिटल, फनीफत-132103
200.	084603	श्री सही अशोक कुमार फ्लैट नं. 32, संकर मार्किट कन्वेंट प्लेस, न्यू दिल्ली-110001	211.	085188	श्री चौधरी दीपक कुमार बीएलके 104 # 04-112 मुक्ति परमी रोड सिंहभेर-090104
201.	084685	श्री बच्च अजय 50/8, फर्स्ट फ्लोर टॉल्स्टॉय प्लेन, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110001			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
212.	085196	श्री गुता प्रकाश चन्द्रा ई-45, एन डी एस ई पार्ट - I न्यू दिल्ली-110049	222.	085420	श्री माधुर विनीत एक्स-5, प्रीन पार्क मेन न्यू दिल्ली-110016
213.	085238	श्री नरोज कुमार 2044/6, चूना मंडी फ्लाड गंज, न्यू दिल्ली-110055	223.	085481	श्री सिकरी कृष्ण 6/79 डब्ल्यू ई ए गुरुद्वारा रोड, करोल बाग न्यू दिल्ली-110005
214.	085247	श्री जैन कमल रूम नं. 206 डब्ल्यू.पी.-504, सिव मार्किट असोक विहार, दिल्ली-110052	224.	085518	श्री आहुजा हरिन्दर पाल सिंह 595, मॉडल टाऊन जय सिंह कॉम्प्लेक्स अपो. रेयर वाला मार्किट लुधियाना-141001
215.	085276	श्री सेठ प्रवीण एससीओ 183-184-185 सेक्टर 17बी चंडीगढ़-160017	225.	085521	श्री कुन्द्रा आशीष कुमार ए कुन्द्रा एन्ड कं. 44-बी टोपेर नगर सिविल लाइन्स लुधियाना-141001
216.	085289	श्री सचर रोमिन्दर सिंह 17 रहमान बिल्डिंग सहायदा दिल्ली-110032	226.	085550	श्री दत्ता राजेशी विप्रोसैक्ट्रमार्केड सर्विसिज लि. 239, ओखला इंड. स्टेट. फेज III न्यू दिल्ली-110020
217.	085350	श्री अश्वला मनोज कुमार बीए/48-सी, असोक विहार फेज-1 दिल्ली-110052	227.	085586	श्री सचदेवा मनोज कुमार एम के सचदेवा एन्ड एसोसिएट्स 108, सुनहरी बाग अपार्टमेंट्स सेक्टर 13 रोडिजी दिल्ली-110085
218.	085372	श्री कॉम्पौल अनूप जनरल मैनेजर (फर्निचर) आर्बिन प्रोडिंस एन्ड गिफ्ट्स लि. ए-37, नारायण इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, न्यू दिल्ली-110028	228.	085645	श्री माधुरिया राजेश 4/73 इण्डेक्सन एक्स. 4 फ्लोर, न्यू दिल्ली-110055
219.	085403	श्री चालीचल अक्तर सिंह अक्तर सिंह एन्ड कं. दरा पूर डिस्ट. होशियारपुर टंका जम्मू-144203	229.	085647	श्री अरोड़ा मुनेश कुमार ए-504 सहारा अपार्टमेंट फ्लॉट नं. 11 सेक्टर 6 द्वारका, न्यू दिल्ली-110045
220.	085413	श्री जैन नंदी वर्मा 14, अरिहंता नगर न्यू दिल्ली-110026	230.	085673	श्री यादव निखीत 8 वीर सक्करकर ब्लॉक मधुवन रोड अपो. निर्माण विहार दिल्ली-110092
221.	085416	श्री विजय सुबीर 2/63, रूप नगर दिल्ली-110007			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
231.	085686	श्री गोयल सजीव 76, आन्सन स्ट्रीट ओरेन्ज एनस्टाडब्ल्यू 2800 अस्ट्रेलिया	241.	086096	श्री चौपड़ा सुवीर एफ-4/16, मॉडल टाऊन दिल्ली-110009
232.	085694	श्री बलभर सिंह 1418, सैक्टर-61 चंडीगढ़-160062	242.	086105	श्री कालरा परमिन्दर सिंह ई-36, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I न्यू दिल्ली-110048
233.	085729	श्री मैनी दिनेश डी-24 प्रॉड प्लेन गुलमोहर पार्क न्यू दिल्ली-110049	243.	086251	श्री सिंह अरविन्दर 166, गुरु अमरदास नगर नियर बर्का मिलक प्लॉट जालंधर सिटी जालंधर-1440048
234.	085835	श्री सुशील कुमार सी-1/21 जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	244.	086252	श्री कंवर जतिन्दर फल सिंह एकजीव्यूटिव ऑफिस रवनाक ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लि. बिजंजीव टॉवर 15 फ्लोर 43 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली-110019
235.	085837	श्री मोहिन्दर कुमार सॉप नं. 33, डिस्ट. रोहतक (हरियाणा) सम्पल नं. मंडी रोहतक-124501	245.	086310	श्री गुजटी जेपीन्दर सिंह जे-30, विकासपुरी न्यू दिल्ली-110018
236.	085964	श्री सेठ रमन 7042 मंडी बास फरखी बीरज दिल्ली-110006	246.	086330	श्री अग्रवाल मुकेश कुमार केयर ऑफ मै. अग्रवाल जिनदल एन्ड एसोसिएट्स 10129, इन्स्ट पार्क रोड करोला बाग (अप. दिल्ली) न्यू दिल्ली-110005
237.	085969	श्री सुद दिनेश बी-3/64 समदरजा अन्वलेव न्यू दिल्ली-110029	247.	086391	श्री रानी अजय अजय रानी एन्ड एसोसिएट्स ई-82, रमेश नगर न्यू दिल्ली-110015
238.	085984	श्री सुद राजीव हाउस नं. 596, सैक्टर-16बी चंडीगढ़-160015	248.	086446	श्री राधाकृष्ण पी अर ई-305 ग्रेटर कैलाश फेज II न्यू दिल्ली-110048
239.	086040	श्री सिंह मनमोहन केयर ऑफ मंगीता इलेक्ट्री कर्त नैशनल रोड नियर प्लेट ऑफिस बुमेर मंडी लुधियाना-141001	249.	086532	श्री खुराना राम स्वरूप आर एस खुराना एन्ड कं. 201, ए-23/24, सतीश हाउस ख. मुखर्जी नगर कॉम्प्लेक्स दिल्ली-110009
240.	086090	श्री टंडन नरेश कुमार एन टंडन एन्ड कं. 61 संजय ग्राम, अपो. सैक्टर-14 दिल्ली रोड, गुडगाँव-122001			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
250.	086564	श्री कलूच विनीत 14/84, विक्रम विहार, लजपत नगर-4 न्यू दिल्ली-110024	261.	086979	श्री सेठ संदीप 65/42, न्यू रोहतक रोड न्यू दिल्ली-110005
251.	086639	श्री हरीश मोहन 6, गैब्रिले ब्रेस विटबर्ड ऑन-एल 1अवर ग्रूम	262.	087017	श्री नायर मोहन जी-15 हंस भवन 1 बहादुरशाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली-110002
252.	086688	श्री कल्पिता सुमनीय कुमार डी-67, पंचशीला अन्वलेस न्यू दिल्ली-110017	263.	087031	श्री गुता राजीव राजीव सत भूषण एन्ड एस्सेसिड्स एस.सी.ओ. 1,2,3, 4 फ्लोर एक्व एसवीआई ट्रेजरी सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017
253.	086760	श्री गांधी पंकज 1539 सेक्टर 22-बी चंडीगढ़-160022	264.	087052	श्री आश्वाल राकेश कुमार जी-19 फर्स्ट फ्लोर तिवारी कॉम्प्लेक्स, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली/110092
254.	086799	श्री सहाय सेखन डी-17, ग्रेटर कैलाश अन्वलेस फ्लॉट-II, न्यू दिल्ली-110048	265.	087075	श्री दुग्गल मधु रंजन 56 डीडीए फ्लैट्स गुल्मोहर अन्वलेस न्यू दिल्ली-110049
255.	086843	श्री चौपड़ा सुनील 266 कल्याण विहार दिल्ली-110009	266.	087116	श्री दीपक कुमार 112-बी, डीडीए फ्लैट्स, एकता अन्वलेस पीरागाढ़ी, न्यू दिल्ली-110041
256.	086872	श्री सुरेश कुमार 7341, प्रेम नगर गली नं. 1 सखी मण्डी दिल्ली-110009	267.	087195	श्री गुता भिज मोहन 2169, मेन रोड वेस्ट पटेल नगर 2 फ्लोर न्यू दिल्ली-110008
257.	086892	श्री गुता समन लाल 21 मानक विहार, दिल्ली फ्लॉट न्यू दिल्ली-110010	268.	087268	श्री बबेज राकेश कुमार एफ-14, सिक्का हाऊस कॉन्ट प्लेस न्यू दिल्ली-110001
258.	086902	श्री माधुर दिलीप नाथ 203-204 अक्व कॉम्प्लेक्स डी-5 लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092	269.	087271	श्री भारत कुमार एस/524 विक्रम मार्ग शकरपुर, दिल्ली-110092
259.	086939	श्री विनय कुमार सी-12 फ्रैन्क अफ्टरमैट्स फ्लॉट नं. 49 पटपरगंज दिल्ली-110092	270.	087309	श्री प्रभात कुमार 143 प्रिन्सटन स्ट्रीट रेलिन हाईड्स न्यू यॉर्क 11577 यूसए
260.	086961	श्री गुता अजय कुमार डी-288/10 लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
271.	087310	मिस आश्रमल संजुली संजुली एन्ड एसोसिएट्स बी-40 पंचशील अन्वलेव न्यू दिल्ली-110017	281.	087711	श्री सहा पिनाकी एकाउंटिंग मैनेजर केचटेल इंडिया प्रा. लि. 249ए, उद्योग विहार, फेज IV गुडौन-122015
272.	087329	श्री मेहरा संदीप 470/4, अम्बन स्टेट गुडौन-122001	282.	087729	श्री दिओरा अरुण कुमार एफएफ/3, स्टूटी, बैंक स्ट्रीट करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005
273.	087418	श्री मटनगर पंकज कुमार सी-393, योगन विहार दिल्ली-110092	283.	087731	श्री चौपड़ा संजय ए, एलआईसी फ्लैट्स राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली-110027
274.	087504	श्री नगर रणवीर एम-401 गुरुहरकिसन नगर II फ्लोर पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110067	284.	087739	श्री राजेन्द्रा प्रसाद 106/सी-1 कृष्णा नगर स्ट्रीट नं. 6, सफदरजंग अन्वलेव न्यू दिल्ली-110016
275.	087519	श्री संगीव कुमार एच. नं. 43 सैक्टर 10 पंचकुला-134109	285.	087820	श्री जैन निपुन 713 किलास 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग न्यू दिल्ली-110001
276.	087587	श्री मिस्तारिया केनेद्रा सैक्टर बी पोकेट 9 फ्लैट नं. 6395, वसंत कुंज न्यू दिल्ली-110070	286.	087830	श्री धिया सुनील हाऊस नं. 847 सैक्टर 717, फरीदबाद-121002
277.	087593	श्री अश्वल मुकेश कुमार इन्फुजा ऑफिशियल सर्विसिंग कम्पनी पोस्ट बक्स नं. 24600 कोल	287.	087855	श्री चतुर्वेदी कैलाश नाथ एच नं. 1764, सैक्टर 16 फरीदबाद-121002
278.	087594	श्री खुशु संजय 120 कोलीन्स स्ट्रीट मेलबोर्न प्रीमियर-3001, ऑस्ट्रेलिया	288.	087930	श्री मायूर अजय बी-102 यूनेस्को 55 आई. पी. एक्सटेंशन दिल्ली-110092
279.	087651	श्री मनीष विमल केयर ऑफ फाउंट इंडोरिंग सिन्थेटिक्स 16 ग्राहामा मिलिंडा जेम्स एच अर रून्स सप्लाइ केम्बी 1 एन्ड 2 ब्लॉक X-1, जकार्ता	289.	087952	श्री गर्ग अजय कुमार 4855-56/24, अंसारी रोड दरिया गंज न्यू दिल्ली-110002
280.	087689	श्री खुलस रणवीर जेड4 रिजर्व बैंक अन्वलेव पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली-110068	290.	087983	श्री मेहरा अरुण 103-104, अन्वय कॉम्प्लेक्स डी-5 लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092



क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
291.	087992	श्री जैन सरांक 26-सी डीडीए फ्लैट्स भरुजद मोह न्यू दिल्ली-10048	301.	088240	श्री भारत बंसु 4227, सैक्टर-डी, पोस्ट-4 कस्तु कुंज न्यू दिल्ली-110070
292.	088049	श्री चोपड़ा अश्विन्द 73 रिंग रोड लजपत नगर-III न्यू दिल्ली-110024	302.	088352	श्री सरावत रोहित 277, दू विलेज डेल्टा डेस ओरमिऑक्स क्यूके, कनाडा-एचएचबी 1एम8
293.	088083	श्री चन्द्र विनीत सिटीवैक एन.ए. 1 टीमसेक एकेयू #32-01 सिटीवैक टॉवर सिंहपुर-39192	303.	088373	मिस्स वीर विनू मै. हॉटलार्ड इनफरमेसन सर्विसिज 302 III फ्लोर 5 फूरा रोड न्यू दिल्ली-110005
294.	088104	श्री शंभुजी दुर्जन सी-39, मेफयर गार्डंस न्यू दिल्ली-110016	304.	088392	श्री गुप्ता संगीत सी-442, सैक्टर 18 रोहिणी, दिल्ली-110085
295.	088116	मिस्स सोबी दिग्गीत सिंह 37 राजपुर रोड दिल्ली-110054	305.	088436	श्री सहाल राजीव 34/46, कैट पटेल नगर न्यू दिल्ली-110008
296.	088126	श्री सम्रा अतुल 58 दयानंद विहार विकास मार्ग एक्सटेंशन दिल्ली-110092	306.	088441	श्री भटनगर प्रवीण पी. ओ. बक्स 24570 लैडमार्क ग्रुप, दुबई
297.	088183	श्री कपूरिया विजय कुमार डी74/18, कृष्ण नगर दिल्ली-110051	307.	088459	श्री पंडरी नीरज बी-88, अशोक विहार फेज-1, न्यू दिल्ली-110052
298.	088196	श्री रविन्दर कुमार रविन्दर सुगर एन्ड फं. डी-41 गरोन्ग अपार्टमेंट श्रेष्ठ विहार दिल्ली-110092	308.	088475	श्री छिंरा राजीव सी-2/82-सी, लोरेन्स रोड दिल्ली-110035
299.	088211	श्री अशुतोष नवीन ई-131, मोहम्मद पुर एडीजे, श्रीकृष्ण काम्प एक्स न्यू दिल्ली-110066	309.	088536	श्री वीर अरुण 4, डरलबी कलेज रोडिले विकटोरिया-3178 (ऑस्ट्रेलिया)
300.	088220	श्री चक्रवर्त अरुण 20/22 पंचमी बाग, न्यू दिल्ली-110026	310.	088698	श्री इम कम्पलेत कुमार को को इम एन्ड एसेसिएट्स डी-81, ग्रैंड फ्लोर (लेनट पोस्ट), कलकत्ता न्यू दिल्ली-110019

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
311.	088770	श्री उषल गुरिन्दर सिंह गुरिन्दर सिंह उषल एन्ड एसोसिएट्स एच नं. 206, सैक्टर 21-ए चंडीगढ़-160022	320.	089145	श्री हरि नारायणन बी 165 शेख साराय-ए डीडीए आरपीएस फ्लैट्स न्यू दिल्ली-110017
312.	088802	श्री शर्मा संजीव कुमार एच नं. 275, सैक्टर 16 फरोदबाद	321.	089224	श्री भूनेन्द्र कुमार डबल्यूजेड-439 एम एस ब्लॉक हरि नगर न्यू दिल्ली-110064
313.	088803	श्री जैन संजीव कुमार बी-5/13, फ्लैट फ्लोर राणा प्रताप बाग दिल्ली-110007	322.	089232	श्री सिंह रविन्दर कुमार 141, सिया राम अपार्ट्स 102, आई पी एकसटेशन दिल्ली-110092
314.	088836	श्री महेश चंद केयर अॉफ अग्रल क्लिनिक चकला कालोनी करलमण्ड-121004	323.	089281	श्री विवेक कुमार 82, गाओनीक वे माउंटेन वीआईसी सी.ए. य एस ए-94041
315.	088855	श्री खंडपुर सुरेश कुमार 115-ए एकता अनसलेव पीरा गढ़ी चौक न्यू रोहतक रोड न्यू दिल्ली-110087	324.	089347	श्री जेयथ मनीष ए-23, मीरा बाग न्यू दिल्ली-110087
316.	088955	श्री मल्होत्रा संजय कुमार अससट्ट मैनेजर इनवैस्ट कोरप. बैंक ई.सी. पी. ओ. बक्स 5340 मनामा (बहरेन)	325.	089354	श्री मदन सुशील डबल्यूजेड-760 रिषी नगर दिल्ली-110034
317.	089018	श्री शटिया राजीव 202, ए-20, इन्द्रप्रस्थ भवन मुखर्जी नगर कर्मासिफन कॉम्प्लेक्स मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009	326.	089391	श्री वर्मा विकास वाई-46/4, दिओषा मार्ग डीएलएफ फेज-1, गुडौन-122002
318.	089060	श्री दुगल नारीत बी-3/397, परिवर्ण विहार न्यू दिल्ली-110063	327.	089459	श्री खुल्लर विक्रम केयर अॉफ पी टीस्कलमबाग जिओरुगिफ्ट, न्यूसेट सैट मुलिन बिल्डिंग, 17 फ्लोर स्ट्रीट 1702, जे 1 # आर रसुना साई कोर्यू एक्स-6, नं. 8 जकारटा-12940
319.	089083	श्री रविशंकर एस एस रविशंकर एन्ड एसोसिएट्स 302 निर्माण अपार्टमेंट्स मयूर विहार फेज-1 एक्स दिल्ली-110091	328.	089537	श्री नरेश कुमार जीएफ-5, हंस भवन विंग-11, बी एस जेड मार्ग न्यू दिल्ली-110002

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
329.	089547	श्री सर्मा विजय कुमार 65-ए कृष्णा कालोनी आईटी आई रोड फुल्ल नगर-135001	339.	089733	श्री बंसल अजय यम रेस्टॉरेंट्स प्रिवैट लि. 12 कोम्प्यूनिटी सेंटर साकेत, न्यू दिल्ली-110017
330.	089573	श्री महेस कुमार स्यूट # 308 4 हनुवर रोड ब्रम्पटन-ऑन एल एस 4जे	340.	089806	श्री नईर दीपक एन-21 मलकिया नगर न्यू दिल्ली-110017
331.	089585	श्री कोहली रमिन्दर सिंह बी-142, स्वस्थ विहार विकास मार्ग, दिल्ली-110092	341.	089815	श्री गर्ग संदीप जीडी-195, पीतमपुरा दिल्ली-110034
332.	089587	श्री सिंघल गोविन्द कुमार फ्लैट नं. 82 ब्लॉक-डी अनुपम अपार्टमेंट्स बी-13 कसबा अनकलेव दिल्ली-110096	342.	089830	श्री गुप्ता सतीश कुमार न्यू पी टी हाऊस बारा बाजार, शारदी-247776
353.	089588	श्री बहल देवेश ई-4/3, वसंत विहार न्यू दिल्ली-110057	343.	089832	श्री कपूर सुनील केपी-141, मौर्या अनकलेव पीतमपुरा, दिल्ली-110034
334.	089590	मिसा कुल्लर नदिता जे-84, अरबीगड अनकलेव पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110063	344.	089833	श्री खन्ना राजेश 1/10492-ए शिव मंदिर मार्ग मोहन पार्क, नवीन शाहदरा दिल्ली-110082
335.	089635	श्री सर्मा संजीव II फ्लैट, जी-134, विकासपुरी, न्यू दिल्ली-110018	345.	089861	श्री कोहली धनंजय बी-8/6064, कस्तूर कुंज न्यू दिल्ली-110070
336.	089640	श्री नंद पंकज फ्लैट नं. 72, विद्या अपार्टमेंट्स निधीश्वरी नगर रोहतक रोड, न्यू दिल्ली-110041	346.	089912	श्री जैन अरुण जनरल मैनेजर-इंटरनेल ऑडिट रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लि. फ्लॉट नं. 90, सैक्टर-32 गुडगाँव-122001
337.	089647	श्री जैन चमंड ए-146/26 चौकरी चैम्स दिल्ली विकास मार्ग, सक्टरपुर दिल्ली-110092	347.	089917	श्री मक्कार गीत पॉल जी पी मक्कार एन्ड कं. 11, दयानंद नगर लॉरेन्स रोड अमृतसर-143001
338.	089720	श्री सर्मा अनिता कुमार अनिता कुमार सर्मा एन्ड कं. एमबी-134, सक्टरपुर दिल्ली-110092	348.	089946	श्री गुप्ता दीपक हाऊस नं. 11, रोड नं. 7 इस्ट पंजाबी बाग न्यू दिल्ली-110026

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
349.	089984	श्री बंसल वरम प्रकाश फ्लॉट नं. 36, हाऊस नं. 61 स्ट्रीट नं. 6, निहारी कालोनी सहाय, दिल्ली-110032	358.	090294	श्री गांधी अजीत ए-50, कोली होम अपार्ट्स सेक्टर-9, रोहिणी दिल्ली-110085
350.	090041	श्री गौर प्रतुल इन्फो, फ्लॉट-2, फेज-2 टार्गन ए, कॉडली चारोली दिल्ली-110096	359.	090379	मिस लोगानी ज्योति 93, सिप्रोलीड रोड अबुदीन स्कॉटलैंड यू के एबी 15 7 आरटी
351.	090058	मिस कैथरीन दीपसरी ई-51, पंचसैल पार्क न्यू दिल्ली-110017	360.	090407	श्री जितल मनीष 1 टोड मल लेन बंगाली मार्केट न्यू दिल्ली-110001
352.	090108	श्री कपूर संजय 414, पोस्ट एफ स्त्रीत विहार न्यू दिल्ली-110044	361.	090434	श्री गोपाल विकास ए-75 जल वन्य विहार कामनवेली मेन रोड बंगलौर-560043
353.	090126	श्री कारिया कानू राम सी-13, ब्रह्म अपार्टमेंट्स फ्लॉट नं. 7 सेक्टर-07 द्वाराका फेज-1 न्यू दिल्ली-110075	362.	090444	श्री जैन संजय जी-3, एम सी डी फ्लैट्स कामनवेली मार्केट कानून नगर, दिल्ली-110007
354.	090137	श्री अरुण अरुण 28, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स माता सुंदरी रोड न्यू दिल्ली-110002	363.	090453	श्री गगन आनंद 235, मॉडल ग्राम लुधियाना-141002
355.	090152	श्री सतीश कुमार 252 श्री अन्वलेख परिष्कार, न्यू दिल्ली-110087	364.	090454	श्री नंद हेमंत 11 मेचकोफे रोड, सिविल लाईंस दिल्ली-110054
356.	090220	श्री गंगा विजय कुमार केयर ऑफ एनबीएम एंड एसोसिएट्स 606, न्यू दिल्ली हाऊस 27, बरखम्बा रोड कॉन्ट प्लेस न्यू दिल्ली-110001	365.	090488	श्री अरुण कुमार हंग आर्बल मिलस 483 सन नगर लुधियाना-141001
357.	090251	श्री अनिता कुमार हाऊस नं. 674 सेक्टर 31 गुडगाँव-122001	366.	090546	श्री वक्ता राजीव 182 सततव्य निवेशन न्यू दिल्ली-110021
			367.	090624	श्री अरविन्द सिंह ई-121 इंडस्ट्रियल एरिया फेज-VII, डिस्ट. रोड (पंचवटी) एस ए हंस नगर-160055

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
368.	090693	श्री गुलाब संगीव कुमार 28 बी, जनसुधा अपार्टमेंट्स सेक्टर-14, रोहिणी दिल्ली-110085	377.	091012	श्री दत्त नीरज कनेडियन इन्वैस्टर प्रोटेक्शन फंड 79, विलिंगटन स्ट्रीट कैट स्यूट 610, पीओ बक्स 75 ओन्टैरियो (कनाडा) टोरोंटो-एम5के 1ई7
369.	090736	श्री गुलाब राजेश कुमार केयर ऑफ नारु राम गोयल रेलवे रोड मलरोटला-148023	378.	091037	श्री रसलेखी पियूष एफ-8 एसेसिएटिड अपार्टमेंट्स फ्लॉट नं. 83 आई पी एक्स. पटपर गंज दिल्ली-110092
370.	090746	श्री सुरेश कुमार 15 अपार्टमेंट नगर नियर मॉडर्न स्कूल हिसार-125001	379.	091053	श्री महेश्वर अरुण सी-1-ए/58ए, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058
371.	090774	श्री संगम कुमार 370-371/2 सहरी हस्पिटल रोड जंगपुर, भागल न्यू दिल्ली-110014	380.	091097	श्री मनो राजेश 74, जीएच-14, परियन विहार पी.ओ. सुन्दर विहार न्यू दिल्ली-110087
372.	090873	श्री नरेश्वर रुदीप सिंह 40/57, सी अर पार्क न्यू दिल्ली-110019	381.	091103	श्री चटोपाय सारणजीत सिंह केयर ऑफ आर. के. महेश्वर एन्ड एसेसिएट्स 2721/7 रिटल स्टॉर बिल्डिंग 2 फ्लोर चौक संतूरान फाहड़ गंज, न्यू दिल्ली-110055
373.	090957	श्री तेजेश्वर मन्नाथ श्रीनिवास केयर ऑफ राजिन्दर सिंह एन्ड कं. 6/85-86, मलखिया नगर एलाजीएफ, न्यू दिल्ली-110017	382.	091167	श्री मेधा कुलदीप 347-348, 12 स्ट्रीट जेबी रोड, कारोल बाग न्यू दिल्ली-110005
374.	090961	श्री वैद्यनथन पी के वैद्यनथन एन्ड एसेसिएट्स इंग/204, जी-8 परिय मया अनवलेव हरी नगर न्यू दिल्ली-110064	383.	091182	श्री हरप्रीत सिंह पद्म्या पद्म्या एन्ड एसेसिएट्स इकन नं. 49ए मॉडल टाउन एक्सप्रेसवे रुनिंगन-141002
375.	090985	श्री विजय विमल ए-2 दयानंद कालोनी रहमता नगर-IV, न्यू दिल्ली-110024	384.	091190	श्री मोहन कुमार पोस्ट बक्स नं. 5239 दुर्ग
376.	090992	श्री नरमला मन्मोहन सी-403, सरस्वती विहार दिल्ली-110034	385.	091250	श्री संगीव कुमार एच नं. 1452 सेक्टर-8 फरीदाबाद-121006

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
386.	091271	श्री भटनगर राजीव भटनगर राजीव एन्ड कं. केयर ऑफ कोन्टीनैटल मेरीन कोरेपोरेट पोस्ट बक्स 27974, दुर्ग	396.	091793	श्री यादव नवल किशोर पोस्ट बक्स नं. 12133 काठमांडू
387.	091281	श्री मेहरा अंगुल एच-504 म्यूजिक्स सोल्यूटि प्लॉट नं. 60, आई पी एक्सटेंशन पटपरगंज, दिल्ली-110092	397.	091819	श्री सेन दीपेन 634/12 नाई बादी गली नं. 8 अर्जुन नगर गुड्डावा-122001
388.	091294	श्री दवे अमृत्य 715-430, मैकमुर्ची एवे एस ब्रम्पटन ओन्टेरियो-एलबर्टाएन4	398.	091833	श्री जैन विनीता कुमार 38-डी, अयोध्या अपार्ट. प्लॉट नं. 30/2 सैक्टर-13, रोहिणी दिल्ली-110085
389.	091321	श्री मेहरा मनु गुल्फ टोटल ट्रेडिंगेजल पॉवर कं. पी. ओ. बक्स 42395 अम्बुषबी	399.	091863	श्री रघुनाथन अर सी-99 इंदरपुरी न्यू दिल्ली-110012
390.	091376	श्री जसोदरिया अशरीष डी-1/97, जन्मपुरी न्यू दिल्ली-110058	400.	091904	श्री प्रदीप कुमार 1975 सैक्टर-13 असबन स्टेट करनाल-132001
391.	091421	मिस सेन नमनीता सी-408, चित्तलन पार्क न्यू दिल्ली-110019	401.	091958	श्री मिस अर्था सुमीत डलमिया सिमेन्ट (बी) लि. 11 फ्लोर, हंजल्या, 15, बाराखम्बा रोड न्यू दिल्ली-110001
392.	091474	श्री भूटानी गिरीश जी-30 कर्ति नगर न्यू दिल्ली-या110015	402.	091976	श्री जैन गौरव हाऊस नं. 879, सैक्टर 28 फरीदबाद-121002
393.	091642	श्री यशवीर सिंह चौहान एच नं. 4830 मेहला मुफिता बस डिस्ट. रेवारी रेवारी-123401	403.	091977	श्री गुप्त राजेश बी-98 II फ्लोर टकसिल्ल मार्किट पटपरगंज, दिल्ली-110092
394.	091701	श्री चौधरी नवीन सी-10 ग्रेटर कौलास अनसलेव-1 न्यू दिल्ली-110048	404.	091996	मिस गर्ग शिवा सी-433 निर्माण विहार दिल्ली-110092
395.	091741	श्री दिनेश कुमार सी-7 I फ्लोर राजपता नगर-I न्यू दिल्ली-110024	405.	092009	श्री सिंह गुरदेव एससीओ 80-81 सैक्टर 17-सी पंडीगढ़-160018

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
406.	092027	श्री सेठी संजय 508ए विशाल भवन 95 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली-110092	415.	092337	श्री रेलन रेहित सी-503, साई बाबा अपार्टमेंट्स साई बाबा चौक प्लॉ नं. 4, सैक्टर नं. 9 रेहिंगी, दिल्ली-110085
407.	092052	श्री वलिया समीर एसैचर, 6 फ्लोर डीएलएफ सैक्टर संसद मार्ग न्यू दिल्ली-110001	416.	092362	श्री गोयल संजय 4ए उज्ज्वल अपार्टमेंट्स एच-ब्लॉक विकास पुरी न्यू दिल्ली-110018
408.	092053	श्री राज कुमार 952 सैक्टर 21-सी फरीदगढ़-121001	417.	092363	श्री जैन मनोज कुमार सी-3ए/147ए, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058
409.	092096	श्री संदीप कुमार 202, मार्टिन कैली मयूज ने कैलंगरी, एबी कोरी-टीजेडब्ल्यू	418.	092391	मिस नारायण कर्मा 16 चैतली, पीतमपुरा, दिल्ली-110088
410.	092173	श्री संजीव सांखन एच-27ए, कालकाजी न्यू दिल्ली-110019	419.	092418	श्री जैन अनीता 96 प्रसाद नगर न्यू दिल्ली-110005
411.	092178	श्री सिंह सत्यपाल बी-28/1, कबीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली-110052	420.	092431	श्री अग्रवाल प्रदीप कुमार 308, सिंडिकेट हाऊस 3, ओल्ड रोहतक रोड इंदरलोक, दिल्ली-110035
412.	092185	श्री गर्ग सुनील कुमार केयर ऑफ एके मिडिल एन्ड कं. 409 एसेल हाऊस 10 अक्सफ अरिा रोड न्यू दिल्ली-110002	421.	092450	श्री नीरज मोहन हाऊस नं. 3169, सैक्टर 44-डी चंडीगढ़-160047
413.	092293	श्री गुप्त चन्द्रा शेखर नितेश शेखर एन्ड कं. सी-9/160, यमुना विहार दिल्ली-110053	422.	092465	श्री मंडल रोहित डी-62 मालख मार्ग चणकपुरी न्यू दिल्ली-110021
414.	092298	श्री खड्गेवाल दीपक बैंक ऑफ अमेरिका डिस्ट्रीक्ट 16, बाराखम्बा रोड न्यू दिल्ली-110001	423.	092480	श्री मल्होत्रा विशाल एस. आर. बटलीवाए एन्ड कं. II फ्लोर, कैपिटल कोर्ट ओल्डफ फलमे मार्ग मुनिरका, न्यू दिल्ली-110067
			424.	092521	श्री चौपड़ा राजीव ए-262 प्रसाद विहार दिल्ली-110085

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
425.	092524	मिस गिता कौता ए-2/263, जनकपुरी न्यू दिल्ली/110058	435.	092769	मिस रमार्ण राजकिंदर 55, सेवन क्रोसेट लॉहले, स्लफ बक्स-एसएलउ 8यूयू
426.	092536	श्री स्री दीपक हाऊस नं. 993 सैक्टर 28, फरीदबाद-121001	436.	092778	श्री सुद समीर 43-मॉल अपार्टमेंट मॉल रोड, दिल्ली-110054
427.	092539	श्री कम्बोज अजय सी-4/89बी, केतव पुरम लॉरेन्स रोड दिल्ली-110035	437.	092804	श्री जिनंदल प्रमोद कुमार 45 गोपाल पार्क कृष्ण नगर, दिल्ली-110051
428.	092560	श्री राजीव कुमार इंजी-10, पौडोक मैसफिअन, पीपीएलजी वार्ड, सिद्धोअरजे सुभाष-61256	438.	092811	श्री हरीश कुमार एच-23, फर्स्ट फ्लोर रेजीडेन्सी प्रोन्स प्रोन्सुड सिटी, सैक्टर-46 गुड्राव-122001
429.	092642	श्री मुरलीधरण राहुल वर्कस प्रोजेक्ट जे पी योगन सिन्धुटिज़ इन. 270, पार्क एकेड्यू 5 फ्लोर यूससर, न्यू वर्क-एनवाई 10017	439.	092857	श्री फानेट विवेक सी-2/143, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058
430.	092667	श्री जगदीश सिंह स्ट्रीट नं. 3, एच नं. 20077-ए जुधर सिंह नगर पटिख-151001	440.	092884	मिस तिवारी नीता उदय 69बी पोकेट-ए 14 पोकेट 14-ए, कालकवणी एक्स न्यू दिल्ली-110019
431.	092673	श्री सिंह प्रसन्न पी. ओ. बक्स 7660 कटपंधू	441.	092893	श्री सुद राजीव 5सी/48-49 न्यू रोडताक रोड न्यू दिल्ली-110005
432.	092693	श्री लखनन्दर सिंह फ्लैट नं. 17, फ्लैट-452-453 सैक्टर-21-ए, फरीदबाद-121001	442.	092919	श्री बहल सुनील केयर अँक सुनील चौधरी बिल्डिंग 387/6, नियर राज मंडल स्कूल महटर, कालोनी, टीन नगर तहसील पठानकोट, डि. गुरदासपुर गुरदासपुर-143531
433.	092713	श्री नरेश कुमार इंजी-1, पुष्प कॉम्प्लैक्स हिस्सर-127046	443.	092923	श्री गिल सुखनन्दर सिंह हाऊस नं. 2827, सैक्टर 37सी, चंडीगढ़-160015
434.	092739	मिस चकला रंजिता बी-106, मनसरोवर गार्डन न्यू दिल्ली-110015	444.	092946	श्री रमार्ण विवेक कुमार 3845, रोड ई एबी.ई टोरोटो कनडा-एनटी 3यूस



क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
445.	092962	श्री गुता शताप चार्टर्ड एकाउंटेंट, आदर्श कालोनी समाधी रोड खन्ना-141001	454.	093312	श्री अनेजा चरणजीत सिंह 112 मिलेडी रोड नॉर्थ याक, ओटेरिओ-एमग्रूल 2 एचबी, कन्नड
446.	092977	श्री मंगल अखिल 23, जीएफ मन्क विश्व दिल्ली-110092	455.	093326	श्री नरेश कुमार 10129 ईस्ट पार्क रोड करोल बाग न्यू दिल्ली-110005
447.	092984	श्री जैन संजय 129 बी/एल मंडल टाउन यमुननगर-135001	456.	093360	श्री वी विद्या सगर 210 एमआईजी फ्लूट्स प्रसन्न नगर, न्यू दिल्ली-110005
448.	093015	श्री गुनटी अजय सी-66, शिवारिक नगर महाविद्यालय न्यू दिल्ली-110017	457.	093416	श्री गुला रितेश ए-26 हाज खासे न्यू दिल्ली/110016
449.	093118	श्री जैन विकास बी-5 प्रीयस फार्मटर कलकाला सेंटर नेवा सराय न्यू दिल्ली-110068	458.	093483	श्री चंपल संदीप दुपारकेयर इंडिया प्रा. लि. ए, उद्योग विश्व, सैक्टर-18 गुड्राव-122002
450.	093141	श्री सिंह सुखविन्दर पाल जी-32, लोअर ग्रैंड फ्लोर कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली-110015	459.	093493	श्री डीगारा मुकुल 224 मंगिकोनी अलकलेव अलकनंदा, न्यू दिल्ली-110019
451.	093287	श्री डिब्ये समीर 8/39 विद्य करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	460.	093502	श्री मेहतानी सुनील 928/4 स्ट्रीट नं. 8 दीप नगर, सुविद्यन-141001
452.	093300	श्री कर्मा अशोक अशोक कर्मा एन्ड एसोसिएट्स कैम्ब नं. 804 वेम्पेस हाउस 21 चौर सवरकर ब्लॉक सकरपुर, दिल्ली-110092	461.	093519	मिस सर्म बिंदु सी-504, नगरजुन अपार्टमेंट मयूर कुंज, मयूर विश्व फेज-1 एक्स, दिल्ली-110091
452	093302	श्री कदुराज अमल राज 74/2, हट्टी गौडा मार्ग ओल्ड कलेक्टर पोस्टाफिस 20902 कन्नड	462.	093546	श्री महाजन अशोक एचव फर्स्ट फ्लोर कॉर्पोरेशन नियर मिट एड्युकेशन सेंटर स्कूल बाजार, मंडी-175001
			463.	093558	श्री राजीव कुमार बी-204, II फ्लोर अनजय अपार्टमेंट्स अपे. मनोज विश्व, इंदिरापुरम गरीबबाद-201010

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
464.	093612	श्री दत्त रामा प्रसाद पांडे दुआ एन्ड माथुर ए-1/105 सफदरजां अनक्लेव न्यू दिल्ली-110029	473.	093836	श्री पांडा मनोज कुमार एए-13 II फ्लोर शालीमार बाग, दिल्ली-110088
465.	093650	श्री गुला मुक्ता ए-27/12 स्ट्रीट नं. 3 लक्ष्मण पार्क इंस्ट चन्दर नगर दिल्ली-110051	474.	093852	श्री रामपाल अमित कोठी नं. 2356 सैक्टर 38-सी चंडीगढ़-160023
466.	093651	मिस जैन प्रबल केपीएमजी इंडिया प्रा. लि. ब्लॉक 4-बी, डीएलएफ कोरपोरेट पार्क डीएलएफ सिटी फेज III गुड्राँस-122002	475.	093894	मिस सुमन लता आरजेड-263/1, दुर्गा ओआर्क द्वारका प्रोजेक्ट, पी. ओ. पालम न्यू दिल्ली-110045
467.	093705	श्री जैन संजय 54 ज्ञान नव विशार नियर एस डी गर्ल्स सिनीयर सैकंडरी स्कूल देवी मंदिर रोड फनीस्त-132103	476.	093998	श्री गुला मुनीष # सी-2081, फनीस्त रिफरुनरी टाउनशिप ददरला, फनीस्त-132140
468.	093724	श्री रमा विरेन्द्र कुमार 546, फेक्ट-5 फ्यू विशार फेज-1 दिल्ली-110091	477.	094011	श्री तनेज अशीष सी-19 निरामुखीन वैस्ट न्यू दिल्ली-110013
469.	093740	श्री कपूर सुधीर प्रहंस वॉटर हाऊस पीडब्ल्यू सैक्टर, सार्जुनगज एम.बी. रोड, अपो. डी ब्लॉक सक्वेड, न्यू दिल्ली-110030	478.	094055	श्री कुकरेजा राजेश केयर ऑफ अग्रेकल कोरपोरेशन 110, मधीसन ब्लड डब्ल्यू. स्टूट, 100 मिस्सीसुडगा ओटेरिओ (कनाडा)
470.	093743	श्री निराला विनय ए-2/10 फ्यू अपार्टमेंट सैक्टर-9, रेडिपी दिल्ली-110085	479.	094191	श्री धवन चन्दर प्रकाश डब्ल्यू.ब्लेड-106बी राम नगर नियर तिलक नगर न्यू दिल्ली-110018
471.	093761	श्री मुन्गल नवकीत एच नं. 1176, सैक्टर 227बी चंडीगढ़-160022	480.	094192	श्री जैन अतुल कुमार डी-22, पंडव नगर दिल्ली-110092
472.	093810	श्री मुक्ता कुमार एच नं. 1701, सैक्टर-8 फरीदाबाद-121002	481.	094230	श्री सुभाष चंद दिवन कालोनी, रेलवे रोड महिन्दगढ़-123029
			482.	094281	मिस तनेज मेनिका एस अर बटलीवॉर एन्ड कं. 7 फ्लोर सूर्य किरन बिल्डिंग कस्तूरबा गांधी मार्ग न्यू दिल्ली-110001

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
483.	094308	श्री दीपक कुमार 303, 304बी, अपारा प्लान 'बी' रोड नं. 44, पीतमपुरा दिल्ली-110034	493.	094574	श्री गोयल उमा शंकर 203, श्री गणेश कॉम्प्लेक्स 32-बी, वीर सक्करकर ब्लॉक शकरपुर, विकास मार्ग दिल्ली-110092
484.	094323	श्री बंसल नवीन एफ-41, ग्रीनवुड सिटी (यूनिटेक) सैक्टर-46 गुड्रा-122001	494.	094578	श्री दूबे शशांक पुंज ल्हाइड लि. पुंज हाउस, 17-18 नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली-110019
485.	094332	श्री बंसल अमित बी-XIX-646 अपे. ओल्ड डी एम सी सिबिली लार्ड्स लुक्सन-141001	495.	094613	श्री विनोद कुमार अर-IV-23, यमुना नगर केरलून-248001
486.	094333	श्री गुंठ्या गौतम 1 फ्लोर डी-316 सिविक विहार दिल्ली-110095	496.	094618	श्री राजेश कुमार 1/9410 गली नं. 7 वैस्ट रोहतस नगर सहदरा, दिल्ली-110032
487.	094360	श्री गुप्ता अरुण 4-जेडीए प्लॉट न्यू देहली जम्मू तबी-180005	497.	094628	श्री जैन नवीन बीएसआर एन्ड कं. 4बी, डीएलएफ कोरपोरेट पार्क डीएलएफ सिटी फेज-III गुड्रा-110007
488.	094424	श्री वषेर विहंग बीई-39 सल्लैमर बाग न्यू दिल्ली-110052	498.	094659	श्री मनीन मोहित डी-1107 न्यू मनेन्स कालोनी न्यू दिल्ली-110065
489.	094436	श्री बाल मनस रंजन डी-10, 2 फ्लोर ग्रीन पार्क (मेन) न्यू दिल्ली-110016	499.	094720	मिस मोडल मीनक्षी 26/601 ईस्ट एंड अपार्टमेंट्स मधुर विहार फेज-1(एक्स) न्यू दिल्ली-110096
490.	094452	मिस बज्जग प्रीत जे-12, राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली-110027	500.	094790	श्री कर्न बिसम्बर कुमार एच-17, 3 फ्लोर विकास मार्ग लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092
491.	094501	श्री कपिल देव 1619 उताकनपुर, नवीन सहदरा दिल्ली-110082	501.	094825	श्री शर्मा संदीप 14 स्वस्तिक विहार पंचकुला-134109
492.	094541	श्री सुरज असीन जी-1, फेज II, नीलीरी अपार्टमेंट्स नारायण विहार, न्यू दिल्ली-110028			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
502.	094833	श्री सावु आनंद वर्ल्डजुल ऑफ इंडिया लि. मैनेजर (फाइनेंस) ए-8 क्लब इस्टीमेट्स एरिया वैकल्पिक II फ्लोर न्यू दिल्ली-110067	511.	095202	श्री विसवाल सुधाशु शेखर डी-10, ग्रीन पार्क (मेन) II फ्लोर, न्यू दिल्ली-110016
503.	094834	मिस अरोड़ा सुष्मा डी-14/43, प्रॉड फ्लोर एक्सप्लोरिब फ्लोर्स डीरल्टक फेज-V गुड्राईव-122002	512.	095203	मिस सक्सेना सुनीता बी-42 पंचशील अन्वलेव न्यू दिल्ली-110017
504.	094838	श्री चौधरी धर्मेन्द्र कुमार 12/208, कोयूनिटी सेंटर प्रीत विहार, दिल्ली-110092	513.	095207	श्री गुप्ता सुनीता एच नं. 2714 टिम्बर मार्किट अम्बला कौन्ट, अम्बला-133001
505.	094961	श्री गुजराटी संजीव 304, 15ए/1, प्रेटीज चैम्बर्स डब्ल्यू.ए. करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	514.	095225	मिस चुग सुनीता 5/8 अशोक नगर नियर तिलक नगर न्यू दिल्ली-110018
506.	095014	श्री गोखल निरति 255, नगिन लेक अपार्टमेंट्स आउटर रिंग रोड पीएमए, पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110087	515.	095231	श्री जैन कमल कुमार ए-20 रिजर्व बैंक कालोनी अपो. पंचशील क्लब हाज़ खास, न्यू दिल्ली-110016
507.	095030	श्री हीरा राजीव 241 ख. मुखर्जी नगर दिल्ली-110009	516.	095243	मिस चावला रितु रोड नं. 14, हाऊस नं. 9 पंजाबी बाग इस्ट, न्यू दिल्ली-110026
508.	095062	श्री रमन कुमार फ्लॉट नं. 6 स्ट्रीट नं. 7 न्यू तहसील पुण अहमदाबाद-143001	517.	095271	श्री नरेन्द्र कुमार आरजेड-51, मया भवन स्ट्रीट नं. 2, मेन सागर पूर न्यू दिल्ली-110046
509.	095123	श्री बसिंधा दारपण 37ए0 कन्वन्शन स्ट्रीट रोहतक/124001	518.	095299	श्री जैसवाल पियूष कृष्ण केंयर ऑफ श्री पी सी गुप्ता ए-15, मुच विहार बदरपुर, न्यू दिल्ली-110044
510.	095164	श्री सुनील कुमार 545, सेक्टर-31, अरबन स्टेट गुड्राईव-120001	519.	095332	मिस चूडा वसुधा 49, इंजीनियर्स स्टेट 21, आई. पी. एक्सटेंशन पटपर गंज दिल्ली-110092
			520.	095349	श्री रमार्ज नवरण 120, हार्नेड फ्लोर # 2आर हुकरिन, एनवाई 11208 न्यू जर्सी (यूएसए)

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
521.	095400	श्री अमितबी इंद्रजीत बी-18, मॉडल टाऊन रोड नियर इनकम टैक्स ऑफिस अपो. प्रकाश कलर लैब जलन्सर-144001	530.	095560	श्री गुप्त अमित सी-49 बल्ली नगर न्यू दिल्ली-110015
522.	095403	श्री माधुर राहुल ए-14 ट्रोफाचर्य अपार्टमेंट्स मयूर विहार फेज-1 एक्स दिल्ली-110091	531.	095593	श्री हरजीत सिंह बी-123 सैनिक नगर नियर गुलाब बाग न्यू दिल्ली-110059
523.	095425	श्री मेहता मन्दीप कुलदीप रतन एन्ड कॉ. 347-348, 12 स्ट्रीट जोशी रोड, कपोल बाग न्यू दिल्ली-110005	532.	095596	श्री मल्होत्रा कपिल एफ-72 प्रसांत विहार सेक्टर-14, रोहिणी दिल्ली-110085
524.	095430	श्री चमन लाल बी-18 मॉडल टाऊन रोड नियर आई.टी.ओ. अपो. प्रकाश कलर लैब यमुनानगर-144001	533.	095633	श्री कश्मीर सिंह सोखल एच. नं. 1168 वी पी ओ संत नगर तहसील रामिब सिरसा-125075
525.	095452	श्री महेश्वरी प्रद्युम्ना 38-ए फ्लैट-6 एमआईजी फ्लैट्स मयूर विहार फेज-III दिल्ली-110096	534.	095635	श्री रेना कैलाश नाथ मैनेजर ओपरेशन्स एसोसिएट्स इंडिया प्रा. सर्विसिज प्रा. लि. 3 एल एम सी पुष्प विहार, न्यू दिल्ली-110062
526.	095503	श्री अशीष कुमार 51, विमान विहार दिल्ली-110092	535.	095639	श्री भार्गव कपिल कुमार 18 सेक्टर-28ए चंडीगढ़-160002
527.	095536	श्री अश्वल मधुर बी-39 (डबल्यू) सह्याय नगर दिल्ली-110052	536.	095647	श्री सिंह विजय दीप केयर ऑफ मै. प्राईस वॉटरहाउसकिपर्स (पी)लि. पीडब्ल्यूसी सेंटर साईकुलजब, एम बी रोड अपो. डी ब्लॉक सक्केत, न्यू दिल्ली-110030
528.	095543	श्री प्रोवर गितेन्द्र ए-113, रिजेंसी पार्क-भा डीएलएफ फेज-IV गुडगाँव-122001	537.	095669	श्री खन्ना गोल्डी ए-239, सरीता विहार मधुरा रोड, न्यू दिल्ली-110044
529.	095556	श्री वैभव सी-2/106, फ्लैट फ्लोर जनकपुरी, न्यू दिल्ली-110058	538.	095672	श्री मिश्र सुमीत 354, सेक्टर-15, पार्ट-1, गुडगाँव-122001
			539.	095690	श्री लखेटिया दिनेश सी-4/187 दयानंद कालोनी लखनवा नगर-IV, न्यू दिल्ली-11007

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
540.	095782	श्री रामकृष्ण एस वी एस-190 पंचशिला पार्क न्यू दिल्ली-110017	550.	095999	श्री सोनी हरदीप सिंह जे-3/137 डी राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली-110027
541.	095785	श्री बहारी अजय एच नं. 1418, सैक्टर-15 फरीदबाद-121008	551.	096012	श्री वासुदेव राकेश 214, त्रिवेणी कॉम्प्लैक्स ई-10-12, जवाहर पार्क लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
542.	095807	श्री गुता अजय बी-3/317 पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110063	552.	096021	श्री चम्पू संजय 49, इंग्लियर्स स्टेट 21, पटपर गंज आई पी एक्सटेशन दिल्ली-110092
543.	095812	श्री मेहता अनिल एच-103 एलआईपी फ्लैट्स फेज-1 अशोक विहार, दिल्ली-110052	553.	096034	श्री खन्ना नीरज बी-18, माडल टाऊन रोड नियर आई ओ ओ अपो. प्रकाश कलर लेब जलन्सर-144001
544.	095835	श्री शारदा रमिन्दर सिंह सिनीयर कन्ट्रोलिंग ऑफिसर कन्ट्रोलिंग एशिया इयूरोप बैंक एजी-एपीएचओ #14-01 सन्टेक सिटीटॉवर-1 7 टीमसेक बोलेवार्ड सिंगापुर-038987	554.	096042	श्री रस्तोगी सौरभ ए-71, मधुवन शकरपुर, दिल्ली-110092
545.	095848	श्री भटनागर अमित फ्लैट # 446 सैक्टर-4 आर के पुरम, न्यू दिल्ली-110022	555.	096063	श्री आचार्य बुद्धि प्रसाद पोस्ट बक्स नं. 5783 कन्नौड़
546.	095879	मिस कौल रेखा अर्नस्ट एन्ड यंग एलएलपी 222, बे स्ट्रीट टोरेंटो, ओन्टेरियो, कनाडा	556.	096074	श्री सहायता योगेश फ्लैट नं. 2267 सैक्टर बी, पोकेट II वसंत कुण्ड, न्यू दिल्ली-110070
547.	095895	श्री इंद्रदीप सिंह केयर ऑफ ए.जी.एस. एसेसिस्ट्स 7, वैशाली मेन रोड प्रीतमपुर, दिल्ली-110088	557.	096104	मिस लुथरा रचना ई-198, 1 फ्लोर, न्यू राजिन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060
548.	095936	श्री भूविन्दर पाल सिंह 123, गुणगवला टाऊन फ्लैट-II, दिल्ली-110033	558.	096146	मिस विगल मीनू 274, सैक्टर 16-ए फरीदबाद-121002
549.	095992	मिस मंगलप्रति 72-टी, सैक्टर-7 जसोला नियर सूरित विहार न्यू दिल्ली-110025	559.	096150	श्री माधुवन रेखिता 6-बी निधी अपार्टमेंट्स 84 आईपी एक्सटेशन पटपरगंज दिल्ली-110092

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
560.	096154	श्री कपूर रितेश आरएन-34, गंगाराम चट्टिका तिलक नगर, न्यू दिल्ली-110018	570.	096532	श्री विनोद कुमार केपी-365, पीतम पूरा न्यू दिल्ली-110034
561.	096210	मिस अग्रवाल कृति एफ-170, डबल्यू-5सी सैनिक फार्म, न्यू दिल्ली-110062	571.	096541	श्री चक्कर सुधीर आरजेड-ए/1-ए मोहिन्द्र पार्क पंखा रोड अपो. माता चानन देवी हॉस्पिटल सी-1, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110059
562.	096211	श्री धीगरा अंकुर इन्फोटेक सेम्टेक्वैर लि. 31-32 बंगमपुर पार्क सिवालिक, न्यू दिल्ली-110017	572.	096558	श्री अहमद तबीस असिस. मैनेजर एसेसिएटिड इंडिया फार्मसियल सर्विसिज प्रा. लि. 3 एलएससी, पुष्प विहार न्यू दिल्ली-110062
563.	096214	श्री अरोड़ा गौरव सी-97, पंचशील अन्वलेव न्यू दिल्ली-110017	573.	096569	मिस आर मिनाक्षी आर 574 न्यू राजेन्द्र नगर न्यू दिल्ली-110060
564.	096301	श्री पोपली रोहित 5/22 सर्वप्रिय विहार न्यू दिल्ली-110016	574.	096572	श्री राजू गोविन्द सिंह 43 सैक्टर 4, आर के पुरम, न्यू दिल्ली-110022
565.	096336	श्री गुप्ता राजेश कुमार 49 गुलामोहर अन्वलेव न्यू दिल्ली-110049	575.	096581	श्री शर्मा दीपक कुमार जी-32, सैक्टर-7 जसरेव डीडीए फ्लैट्स अपो. सरीत विहार, न्यू दिल्ली-110044
566.	096378	श्री योगरा संदीप जेमैट इंडिया, सैक्टर रोड सैक्टर 53, डीएलएफ फेज-V गुडौन-122002	576.	096584	श्री उमाश्याम कमलेश कुमार 10/133, वैस्ट गुरू अंशद नगर लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
567.	096382	श्री सुरज तन्वीन्द्र 216-बी पोकेट सी मयूर विहार फेज-II दिल्ली-110091	577.	096593	श्री मितलका सुनन फेयर अंक श्री राजन सिंह 3317ए इन्दर लोक इन्डसिंग सोसायटी डीएलएफ फेज-IV, गुडौन
568.	096398	श्री सिंह गुण्डीत ए-17 लक्ष्मण नगर-III न्यू दिल्ली-110024	578.	096606	श्री पंडेय अर्जुन प्रसन्न जे-10ए/एफ, स्ट्रीट नं. 6 लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
569.	096524	श्री चक्कर विजया ए2-बी/119 एकाद अफर्टमेंट्स परिव्य विहार, न्यू दिल्ली-110063	579.	096608	मिस चक्कर श्रुति 67, अमरपाली अफर्टमेंट्स 56, अर्ली एफर्टमेंट्स, दिल्ली-110092

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
580.	096617	श्री सिंह इंद्रजीत एफ 7 कटवारिया सणय न्यू दिल्ली-110016	589.	096793	श्री सलुजा रिषी बी-1/202, मिल्न विहार प्लॉट नं. 72, आई. पी. एक्सटेंशन दिल्ली-110092
581.	096630	श्री कामनी आनंद एम्बेसिडेंट, कोरपोरेट फार्मिस केपीएमजी इंडिया प्रा. लि. 4/बी, डीएलएफ कोरपोरेट प्लाजा गुड्राँव	590.	096828	मिस भूमिया विजया एए-13 II फ्लोर शालीमार बाग, दिल्ली-110088
582.	096643	श्री मधुर मोहित लक्लॉक एन्ड ल्यूस पीडब्ल्यूसीसेन्टर एम.बी. रोड, सैदलाजब न्यू दिल्ली-110030	591.	096881	श्री उपमल अजय बी-361 सुदर्शन पार्क मोती नगर, न्यू दिल्ली-110015
583.	096665	श्री खन्ना विशाल 1328, सैक्टर-डी पोस्ट-1, वसंत कुंज न्यू दिल्ली-110070	592.	096909	श्री मुनीष कुमार 99 अम्बिका विहार पीओ सुंदर विहार, न्यू दिल्ली-110087
584.	096691	श्री शर्मा मुकुल 29-सी डीडीए फ्लैट्स न्यू फ्रेंड्स कालोनी न्यू दिल्ली-110065	593.	096935	श्री सुमीत कुमार 71 अशोक नगर नियर पीएनबी, बस्ती नौ जानवर-144001
585.	096705	श्री वर्मा हेरी यॉम 301-302, बुर्ज उस्मान नियर शिव मंदिर, खुर्जा बुलंदशहर-203131	594.	096963	श्री प्रधान सुयश कुमार ग्राह्महाऊस कूपर्स (पी) लि. साईडलाजब एम बी रोड अपे डी ब्लॉक साकेत, न्यू दिल्ली-110030
586.	096721	श्री राजेश कुमार डी-83 2 फ्लोर अमर कालोनी-IV न्यू दिल्ली-110024	595.	096986	श्री गर्ग रवीष एमएलईजी सुपर 684/बी फेज-XI एसएस नगर, मोहाली-160062
587.	096753	मिस गुता सुबुचि 1/1293, नई इलाहाबाद करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	596.	096999	श्री अग्रवाल हेमेश कुमार 54 वैशाली, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
588.	096774	श्री जैन अमित फ्लैट नं. 53, वरदान अपार्ट्स प्लॉट नं. 64, आई. पी. एक्सटेंशन पटपारंग, दिल्ली-110092	597.	097059	मिस अग्रवाल मीनाक्षी एसएसीओ-फार्मिस इंडियन आएल कोरपोरेशन लि. रिफार्मरी एच.ओ. 1 फ्लोर, सीट नं. 1110 7, इंडीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड न्यू दिल्ली-110003
			598.	097061	श्री जैन अमित फ्लैट नं. 902, आई.पी. कोर्ट-IV केयर ऑफएसेल हाऊसिंग प्रोजेक्टस प्रा. मेन मेहरोली गुड्राँव रोड अपे. प्रिवत हॉसिंग, गुड्राँव-172015



क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
599.	097073	श्री अश्वत्थ रामकेन्द्रा डी-51, ममता अपार्टमेंट अप्पा साहेब मराठे मार्ग अपो, चैतन्य टॉवर्स प्रभादेवी, मुम्बई-400025	609.	097331	श्री गोयल मोहित 38/बी-5, सैक्टर 8 रेहणी, दिल्ली-110085
600.	097099	मिस गुला पूजा सिंगल एसोसिएट्स 4546/16, दरिया गंज न्यू दिल्ली-110002	610.	097340	श्री सहजपाल रिषी केयर ऑफ, गोयल ए कुमार एन्ड कं. एससीओ 2924, सैक्टर 22-सी चंडीगढ़-160022
601.	097132	मिस मोगला सुममा एच नं. 2046, सैक्टर-27-सी चंडीगढ़-160019	611.	097385	मिस पमनेजा सेनिका बी-361 सुदर्शन पार्क भोली नगर न्यू दिल्ली-110015
602.	097141	मिस गुला पूजा 19 बंगलो रोड दिल्ली-110007	612.	097455	श्री कंडपाला कमल किशोर वेनेट कोलेमन एन्ड कं. लि. मेस 7, बहादुरसाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली-110002
603.	097142	श्री मेहता हिमांशु एम-35 सक्सेस न्यू दिल्ली-110017	613.	097472	श्री रावला राहुल 3 फ्लोर 1, कोय्युनिटी सेंटर इंट ऑफ क्लेस न्यू दिल्ली-110065
604.	097226	श्री तिब्बोक्ला बसंत 137-सी ए/सी-1 राजीव नगर दिल्ली-110052	614.	097518	श्री आर्यल रमेश प्रसाद 1168, दरबार मार्ग पोस्ट बाइपास 11930 काठमांडू
605.	097235	श्री सिंह विवेकर पाल 1/7383, लेन नं. 13, इस्ट गोरख मार्ग, राजदर, दिल्ली-110032	615.	097642	श्री मोरदानी संगीव आर ए-90 दयानंद कालोनी लजपत नगर-IV न्यू दिल्ली-110024
606.	097258	श्री रमण नितिन 165-सी, एसएफएस फ्लैट्स ब्लॉक-एल सैक्टर-19, रेहणी दिल्ली-110085	616.	097643	श्री सिंगल अनुज असिस. वाईस प्रेजिडेंट बैंक ऑफ अमेरिका एक्सप्रेस टॉवर, 16 फ्लोर नरिमन प्वाइंट, मुम्बई-400021
607.	097299	श्री भर्षी विकास 559, सैक्टर-14 मुन्गांधी	617.	097648	श्री हिचारी रितेश केयर ऑफ श्री विक्रम अडवानी डी-45 मार्ग 12 एवेन्यू 1 सक्सेस, न्यू दिल्ली-110017
608.	097311	श्री चोपरा नित्यदी डी 7/7531 वसंत कुंज न्यू दिल्ली-110070			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
618.	097671	श्री नरकर विशाल के-13 बी के दत्त कालोनी नियर सफदरजां एयरपोर्ट न्यू दिल्ली-110024	628.	097940	श्री जैन अनुराग एच 129 डीडीए पलैट्स अशोक विहार फेज I दिल्ली-110052
619.	097684	श्री श्रीवत्सव अंकुर 303, मानसरोवर 90, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली-110019	629.	097957	श्री भूरा समीर 2343, सैक्टर 13, अरबन स्टेट करनाल-132001
620.	097691	श्री मारवह रजत 4बी, डीएलएफ कोरपोरेट पार्क गुड्राँव	630.	098000	श्री वी मधुकुमारन सी72-बी/56बी जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058
621.	097723	श्री गोपाल रजनीश बी-93, फर्स्ट फ्लोर सिखलिन, मन्सियन नगर न्यू दिल्ली-110017	631.	098002	श्री श्रेष्ठ गोपाल कुमार केयर ऑफ एन कृष्णास्वामी एन्ड कं. टायराज भवन, जनेश्वर पोस्ट बक्स नं. 1061 काठमांडू
622.	097729	मिस नंदा सेती 7 रणबीर मार्ग मंडला टाउन, फटियल-147001	632.	098012	मिस गोपाल अराधना एफएफ-44 लक्ष्मी नगर मंगल बाजार दिल्ली-110092
623.	097789	श्री करिया अशुतोष 40, नेनेन प्लेस, ब्रम्पटन कनाडा, ओन्टेरियो-एलडरस 5वर्क	633.	098042	श्री वैभव कुमार सी-28, मेफेयर गार्डन न्यू दिल्ली-110017
624.	097793	श्री सार्थ अतुल भारतीय फारमेटिकल्स लि. एच-36, कन्स्ट प्लेस न्यू दिल्ली-110001	634.	098044	श्री जैन मुनीष 21 मास्टर तारा सिंह नगर जलानर-144001
625.	097815	श्री विन्दा हरप्रीत सिंह बीडी-100 एम अर्बा जी पलैट्स जनकपुरी, न्यू दिल्ली-110058	635.	098068	श्री असनानी रुचिर 49 ई पोस्ट 3 मयूर विहार फेज I दिल्ली-110091
626.	097849	श्री पुरी गगनप्रीत सिंह के पी एम जी ब्लॉक 4 बी, डीएलएफ कोरपोरेट पार्क डीएलएफ सिटी, फेज-III मेडरौली गुड्राँव रोड गुड्राँव-122015	636.	098089	श्री नैसियल सेखर ओल्गा इंटरनेशनल लिमिटेड # 11-02, सन्टेक टॉवर-II टीमसेक बौलेवाड सिंहफेर
627.	097876	मिस निखल वीनू अर्बा एन्ड यां पीओ बक्स 9267, यरवूं पुर्बा	637.	098096	श्री सूरि रमन्दीप सिंह 35/1 डबल स्टोरी अशोक नगर, न्यू दिल्ली-110018

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
638.	098098	श्री कफले मनमोहन राज जी-2-760 बजैस फुल्ली कठमंडू	648.	098166	श्री मदन रितेश 46-डी पोकेट-ए एसएफएस फ्लैट्स मयूर अनाकलेद, मयूर विहार-III दिल्ली-110096
639.	098101	श्री निराल अशु मेसर बेर इंडिया लि. 43 बी मोड मिन इंडस्ट्रियल स्टेट ओकला इंडस्ट्रियल एरिया फेज III, न्यू दिल्ली-110020	649.	098187	श्री धन विकास एच. नं. 134/7 टीसीएम रेलवे कार्लोनी दिल्ली
640.	098102	श्री मोहन कुमार 21/247बी, तिलक नगर न्यू दिल्ली-110018	650.	098218	श्री मरवाह निरभिनंदर सिंह 3051/1 फस्ट फ्लोर धूम मंडी, प्यार गंज न्यू दिल्ली-110055
641.	098110	श्री गुरु अरिन 83, न्यू लक्ष्मण नगर फाकेवाला रोड लुधियाना-141008	651.	098258	श्री रमेश राजेश 5/1 अशोक चौकर्स बी-5 पूजा रोड न्यू दिल्ली-110005
642.	098114	मिस रम्या कालरा प्रकाश एफ-1/106, चर्मगुड सुखगुड, फरीदाबाद-121009	652.	098292	श्री चंद्र प्रकाश उज्जयिनी-991, एनी बग यादू बारी दिल्ली-110034
643.	098117	श्री अशोक मनोज कुमार यू-120, उज्जयिनी ब्लॉक सकरपुर, दिल्ली-110092	653.	098303	मिस प्रमोद कर्मा के पी एम जी पीओ बक्स 3800, दुर्गा
644.	098153	श्री शक्ति संजय 995-पी सैक्टर-2, पंचकुला	654.	098317	श्री अरोध पुनीत 91-ए, अयोध अनाकलेद फ्लॉट नं. 30/2, सक्टर-13 रोहिणी, दिल्ली-110085
645.	098156	मिस मृगा हसनीरा केयर ऑफ श्री-सी कमलेस मेहरा बी-177 मिनेक विहार फेज-1 दिल्ली-110085	655.	098364	मिस कंठल हेमा 119 पोकेट 7 सैक्टर 2 रोहिणी, दिल्ली-110085
646.	098163	श्री गणेश देव 1-2 नव भारत अपार्टमेंट अपार्टमेंट बी-1 मॉडर्न परिवार विहार, न्यू दिल्ली-110063	656.	098369	श्री निराल जितेन्द्र ई-222 सखी नगर सत्य रोडिल्ल, दिल्ली-110052
647.	098165	श्री सरदर लक्ष्मी कान्त 321 एबोरे अपार्टमेंट्स कमुआ अनाकलेद दिल्ली-110096	657.	098382	मिस बी श्रीधिया ई 150 अमर कार्लोनी लक्ष्मण नगर IV, न्यू दिल्ली-110024

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
658.	098411	श्री चक्ला समीर केयर ऑफ श्री पी. एन. कामरा 25-एच पोकेट-4 मयूर विहार फेज-1 दिल्ली-110091	667.	098594	श्री गुप्ता दीपक मै. जैन सिंगल एन्ड कं. 1738/55 अहिंसा भवन नाईवाला, करोल बाग न्यू दिल्ली-110005
659.	098420	श्री गुप्ता महावीर प्रसन्न मै. महावीर मेग राज एन्ड कं. 120/बी-4, सैक्टर-7 रेहिंगी, दिल्ली-110085	668.	098619	श्री जैन गौरव 160 अरिहंत नगर पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली-110026
660.	098433	श्री सहो मनीष कुमार 251, अरुणोदया अपार्टमेंट्स एच ब्लॉक, अपो. ममता मॉडल स्कूल विक्रमपुरी, न्यू दिल्ली-110018	669.	098638	श्री दवार राजीव 97-ए ओल्ड गुप्ता कालोनी अपो. कल्याण विहार दिल्ली-110009
661.	098456	श्री तुली अंकुश रैनबैक्सी लैक्स 10 फ्लोर, देविका टॉवर्स 6 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली-110019	670.	098644	श्री मंगल आशु 2/5044 संत नगर करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005
662.	098461	मिस अरोड़ा पूनम कृष्णकुमार 1328, सैक्टर-डी पोकेट-1 वसंत कुंज, न्यू दिल्ली-110070	671.	098661	श्री गुप्ता अभिषेक मोहन प्रेम भवन 4144 फ्लाइंग धीराज सदर बाजार, दिल्ली-110006
663.	098495	श्री खंडा प्रतीक डी2/2595, वसंत कुंज न्यू दिल्ली-110070	672.	098676	श्री गुप्ता मनीष वाइंट हाउस चार्ड नं. 5 ब्रह्म कला अपो. आर्य समाज सेवा सदन डिस्ट. फरीदगढ़ बल्लभगढ़-121004
664.	098499	श्री वी बी गोपल कृष्ण हाऊस नं. 3 एलआईजी हस्तसमल उत्तम नगर न्यू दिल्ली-110059	673.	098678	मिस सिंगल दिप्ती 117ए, सैन्ट्रल एवेन्यू सैनिक फार्म, न्यू दिल्ली-110062
665.	098546	मिस इन्डिया सोनम असिस्टेंट मैनेजर जी ई कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसिज 90-ए सैक्टर 18 गुड्रांस-122002	674.	098719	श्री शटिया सुनील बी-15/23 फेज-1 डीएलएफ सिटी गुड्रांस-122002
666.	098572	श्री हेमंत हाऊस नं. 2021/18 स्ट्रीट नं. 5, रामपुर मोहल्ला, हिसार-125001	675.	098740	श्री अनंद सुनील मैनेजर एरिक्स एडवार्ड्स गोसको सैक्टर 70, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली-110019

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
676.	098757	श्री चंडेक प्रतीक 61/9 सैकंड फ्लोर ओल्ड राजिन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060	685.	098891	श्री सैनी मनीष 41-बी फेकेट एल शेख सरी-11 न्यू दिल्ली-110017
677.	098776	श्री जयरथ राजनीश कुमार 48, फेकेट-बी, सैक्टर-जी न्यू एमआईजी फ्लैट्स मयूर विहार फेज-III दिल्ली-110096	686.	098909	मिस वर्मा मीता ए-58, आनंद विहार दिल्ली-110092
678.	098788	श्री खुरना पंकज 1132 डा. मुरुजी नगर दिल्ली-110009	687.	098915	श्री बम्बर सुनील 10-बी हाईवे अपार्टमेंट्स 1 फ्लोर, गाजीपुर दिल्ली-110096
679.	098802	श्री अरोड़ा विक्रमजीत सिंह जी-18, सैक्टर-9 हरि नगर, जेला रोड न्यू दिल्ली-110058	688.	098920	श्री गुप्ता विनायक सी-5/129, मिलन विहार अपार्ट्स फ्लैट नं. 72, आई पी एक्सटेंशन फटपरगंज, दिल्ली-110092
680.	098857	मिस श्रीवस्तव वरतिक एम-98, 1 फ्लोर सबकोट, न्यू दिल्ली-110017	689.	098979	श्रीवर्मा विशाल 303 मानसरोवर, 90 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली-110019
681.	098864	श्री रंगत अदर्श 56-सी ब्लॉक-एल जगत फ्लैट्स, सबकोट न्यू दिल्ली-110017	690.	098983	श्री गुल्शन, अनुराग श्रीमल्ल # 15, भालूवा कालोनी फटियान-147001
682.	098875	श्री जुनेज रमन आईसीआईसीआई बैंक लि. जय भारत कॉम्प्लेक्स अग्ने किंग्स होटल जी टी रोड फारुख-144001	691.	099036	श्री गुप्ता अनुज सी-IV-1827, रिजिल लार्ड्स जवाहर-135003
683.	098881	श्री गुप्ता मनेज कुमार डबल्यू-110, सैकंड फ्लोर उपवास सऊद सऊथ एन्वैयू सोहन रोड गुड्डान-122000	692.	099133	श्री गुप्ता नीरज हाऊस नं. 1996 1 फ्लोर, सैक्टर-16 फरीदाबाद-121002
684.	098885	श्री अभिषेक कुमार केयर अँफ अल्पम लिमिटेड प्रा. लि. 5, अराधन अनार्लेस, सैक्टर-13 अर. को. पुरम, न्यू दिल्ली-110066	693.	099150	श्री शर्मा कमल 2 फ्लोर जी-47, जगत पुरी दिल्ली-110051
			694.	099154	श्री पटनी निरोश ई-33बी, एम.आई.जी. फ्लैट्स मया पुरी, न्यू दिल्ली-110064

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
695.	099159	श्री जैन सौरभ 2289 गली प्यार वाली धर्मपुरा, दिल्ली-110006	705.	099373	मिस गोयल मनीषा ए/75 नियर ओल्ड एच.एस.ई.बी. ऑफिस बालन कालोनी, डी.टी. फरीदाबाद बल्लभपुर-121004
696.	099179	श्री मन्मथ अमित कुमार बी-53 ए गंगोत्री अपार्ट्स अलकनन्दा न्यू दिल्ली-110019	706.	099392	श्री सक्देवा गौरव आर-186, ग्रेटर कैलाश पार्क-1 न्यू दिल्ली-110048
697.	099252	श्री बंसल संदीप सी-60, प्रसन्न विहार रोहिणी, दिल्ली-110085	707.	099501	श्री असोक अरोड़ा एच नं. 377 तिहार पी. ओ. तिलक नगर न्यू दिल्ली-110018
698.	099266	श्री एस सुभामनयन 162, फ्लैट-डी मयूर विहार फेज-2 दिल्ली-110091	708.	099510	श्री राजेन्द्र कुमार उ/61, निट फरीदाबाद नरीदाबाद-121001
699.	099279	श्री सुरेश कुमार 1280, सैक्टर-34 सी चौधरी-160022	709.	099511	श्री अंजलि कुमार सी-71 (न्यू सीटी3) स्ट्रीट नं. 8 कैट विन्हेद नगर दिल्ली-110092
700.	099293	श्री सतपथी देवाराता फर्निचर ऑफिसर पेट्रोनेट एलएनबी लि. 1 फ्लोर, बार्ड सेंटर, बनार रोड, बरखाम्बा लेन न्यू दिल्ली-110001	710.	099543	श्री कल्प अमित अनवर अंदरसन एन्ड एसेसिएट्स 2 फ्लोर कैपिटल कॉर्ट ओल्ड पालमे मार्ग न्यू दिल्ली-110067
701.	099339	श्री भूटानी फंकन 153-बी डीडीए फ्लैट्स (एलएनबी) राजौरी गार्डन एस्टेट न्यू दिल्ली-110027	711.	099580	श्री गोयल सुमीत शक्ति कुंज 3-सी न्यू ऑफिसर कालोनी खेरी रोड, पटियाला-147001
702.	099342	श्री विजिता रमेश ए-159 राम पार्क न्यू दिल्ली-110099	712.	099589	श्री मल्होत्रा अमित बी-टी/22 पीताम पुरा विशाल अनमलेय, दिल्ली-110034
703.	099346	श्री सिन्हा सुरे के पी एम जी पीओ बक्स 3800, दुर्ग	713.	099652	श्री गोयल अमन केयर अॉक मै. सुनील गोयल एन्ड एसेसिएट्स 8-ए फार्सी हाऊस कॉन्ट प्लेस न्यू दिल्ली-110001
704.	099366	श्री म्हाजन रमन 40/22, स्कोअर गार्डन फ्लोर इंस्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली-110008	714.	099670	श्री पवन कुमार 113/14 असोक नगर नियर गेजेट स्टैड, सेक्टरक

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
715.	099731	मिस श्रुति सिखा बी-3/68 जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	725.	099963	श्री डकाल मोहन शर्मा जी पी ओ बाक्स नं. 13813 कलकत्ता
716.	099751	श्री किंशु शंकर प्रसाद, 3-12, गली नं. 6 जे एक्स. लाहौरी नगर, दिल्ली-110092	726.	099975	श्री अनंद कुलश्रेष्ठ सिंह 33-गोपाल नगर सिल्लक नगर, न्यू दिल्ली-110018
717.	099776	मिस मल्लोत्रा मीनल 1054 पान मण्डी सदर बाजार, दिल्ली-110006	727.	099984	श्री सदान अमित राज 13/363, गीता कालोनी दिल्ली-110031
718.	099816	श्री गेयल अजुल ई-5, सिव्ही रोड अदरस नगर एक्स. नियर सिव्ही रोड, दिल्ली-110033	728.	099995	मिस शारदा पूजा हाऊस नं. 166 सैक्टर 8ए -पडी रोड-60018
719.	099855	श्री निखिल निखिल 6805, न्यू जनता नगर बनार रोड, रुयिफाज-141001	729.	100063	श्री अश्वला अमित 16 ए/3 भाग चांदीकलन मेन मथुरा रोड निकासपुरीन स्टेट, न्यू दिल्ली-110013
720.	099876	श्री श्रुति अमित 4616 अर्यापुरा सम्मी मण्डी, दिल्ली-110007	730.	100582	श्री सहाल गौतम डी-25/बी सऊथ एक्स. फर्ट-11, न्यू दिल्ली-110049
721.	099877	श्री जलान विवेक कुमार प्रॉक्सिमेट हाऊस कूपर्स सहजुवागव, अये. डी ब्लॉक सक्सेस न्यू दिल्ली-110030	731.	102118	श्री कोहली संदीप सुरीन्द्र नं. 44, मुनिरका अन्वलेव अये. सक्सेस विहार बस डिपो न्यू दिल्ली-110067
722.	099892	श्री अनेज निखिल प्रॉक्सिमेट हाऊस कूपर्स पीडब्ल्यूसी सेंटर सहजुवागव एम बी रोड, अये. डी ब्लॉक सक्सेस न्यू दिल्ली-110030	732.	105741	श्री रवि सुदेशकुमार अरोड़ा सी/2/2236 वसंत कुंज न्यू दिल्ली-110070
723.	099945	मिस जैन परलबी वेराज हाऊस ए-1, बारी फार्क नियर मोती मल्ल सिनेमा जयपुर-302016	733.	106106	श्री नेकुमल राजनी सुरेश सी 7237 हार्नेस रोड कोसवपुरम, दिल्ली-110035
724.	099962	श्री अरोड़ा अरिजनी हाऊस नं. 313 सैक्टर-7 अरका स्टेट, गुड्डाँव-122001	734.	107061	श्री संजय कुमार सुराजिन्या पोस्ट सी-1, फ्लैट नं. 1270, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली-110070
			735.	202464	श्री उत्तम रॉय 103 6 ब्लॉक हेरीटेज सिटी, गुड्डाँव-122002

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
736.	203526	मिस श्रीनिवासन विद्या स्यूट 1001 तनज महल हॉटल ए टी किअनी 1 मानसिंह रोड, न्यू दिल्ली-110011	744.	213628	श्री गणेश मल बोधरा 4697/13, अंसारी रोड, 2 फ्लोर 21-ए, दरिया गंज न्यू दिल्ली-110002
737.	206374	श्री बबेरा मनोज कुमार केयर ऑफ अनिल मिश्रा क्वार्टर विन्डे, 75 खिड़की विलेज मालविया नगर, न्यू दिल्ली-110017	745.	400046	श्री पवन कुमार केयर ऑफ श्री आर एस महेश्वरी समूह 24, अहिंसा विहार सेक्टर-9, रोहिणी दिल्ली-110085
738.	206919	मिस रुचि गुप्ता जीई इंटरनेशनल ओपरेटिंस सेक्टर एअरपोर्ट एरिया सिडिआ 1, रफी मार्ग, न्यू दिल्ली	746.	400148	श्रीमति मितल संगीता 371 प्रधान मार्ग निरंकारी कालोनी दिल्ली-110009
739.	207841	श्री संगीत पी जी-89, सरोजनी नगर न्यू दिल्ली-110023	747.	400267	मिस बरदिया मनीषा बी-91 मानवरफली अपार्टमेंट्स कंसुमर अनक्लेव न्यू दिल्ली-110096
740.	208345	श्री विजय जी मैनेजर-फाइनेंस इंक्वियरी टेक्नॉलॉजिस लि. बि. # 152, ब्लॉक-ए सेक्टर-3, मिलेनियम सिटी नगर टीटीसी इंड. एरिया, नहरो नवी मुंबई-400710	748.	400589	मिस सिंह प्रियंका जीई कैपिटल गुड्राव
741.	211421	श्री सेथिल कुमार डी पी-152, 8 मैन, 12 सेक्टर एनआरडी कालोनी जीवन बीमा नगर बंगलौर-560075	749.	402558	मिस टंडन स्यति केयर ऑफ प्रॉसेसिंग एंड हाउसिंग पी-1, आदित्य विहार अपो. डी ब्लॉक, साकेत सर्विस एरिया, मेहरौली-बदरपुर रोड न्यू दिल्ली-110030
742.	211586	श्री अरुण अर असिस्टेंट मैनेजर अडवांस्ड प्रॉसेसिंग बैंक लि. अडवांस्ड प्रॉसेसिंग बैंक ऑफिस एनबीसीसी प्लेस, विराम पी.एम.ए. मार्ग प्रज्ञा विहार, न्यू दिल्ली-110003	750.	500011	श्री ठाकुर श्रवण अमेरिका एक्सप्रेस ए-37, मोहन को-ओप. इंडस्ट्रीयल एरिया मधुवा रोड, न्यू दिल्ली-110044
743.	212292	मिस रेणु अखिलेश्वरन फ्लेट नं. 95, टॉवर 12 सुप्रीम अनक्लेव मयू विहार, फेज 1 दिल्ली-110091	751.	500029	श्री सोमानी दीपक बीजे-57 (कैस्ट), सालीमर बाग न्यू दिल्ली-110088
			752.	500033	श्री पुरी अनुज असिस्ट. मैनेजर ऑडिट रूनी, आईटीसी लि. आईटीसी सेक्टर, 4, रसेल स्ट्रीट कोलकाता-700071



क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
753.	500050	श्री अधिकारी रूद्रा प्रसाद शर्मा पोस्ट बक्स नं. 2706 काठमंडू	762.	500331	श्री सुनील कुमार जी-31, ए राम कालोनी छतरपुर, न्यू दिल्ली-110030
754.	500069	श्री अश्वल सुमित ए-251 फ्लोर अमृत नगर, सऊथ एक्स-1 न्यू दिल्ली-110003	763.	500347	श्री जोनेजा समीर डो-90, सैक्टर-18, गुडौन-122015
755.	500076	मिस श्रेया शिखा डेप्युटि सके बैंक, डी बी हाऊस एम सोमानी मार्ग फोर्ट, मुंबई-400001	764.	500350	श्री जाकीबजा सुनील गड्डाघर, मध्यपुर थिमि प्यूसीपीएलटी 15 भक्तपुर
756.	500084	श्री गोयल मनोव 808 रिषी नगर रानी बाग, दिल्ली-110034	765.	500366	श्री राणा गोपाल सिंह जे-37, सैक्टर-12 नेस्स-201301
757.	500211	श्री खान नासिर इकबाल जेएअरे-सीए, डीजीएमपी, एचपी, सर्कल ब्लॉक-9, रूम नं. 304 एस डी ए कमर्सियल कॉम्प्लेक्स कुसुमरि, शिमला-171001	766.	500389	श्री देव संजय पोस्ट ए 13/15 ए डीडीए कालकाजी एक्स. न्यू दिल्ली-110019
758.	500253	श्री अरोड़ा अजय हाऊस नं. 86 सैक्टर 5, त्रिकुटा नगर जम्मू तबी-180012	767.	500433	श्री मैरीश करमजीत 110, बज्ज टॉवर्स 1 फ्लोर, जेल रोड न्यू दिल्ली-110058
759.	500264	श्री मेहता मनु 4083, दुर्गापुरी हाउसेबल क्लब लुधियाना-141001	768.	500436	मिस जैन रोहिणी 99, सूर्या पार्क इलेक्ट्रॉनिक सिटी, रिंग रोड कानपुर-560100
760.	500317	मिस अश्वल नेहा 55-सी पोस्ट-सी सिद्धार्थ एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली-110014	769.	500459	मिस लेखल अमनदीप एच नं. 186 अकाली कौर सिंह कालोनी वी.पी.ओ. धावता डिस्ट. रोपर, रोपर-140105
761.	500326	श्री पंडित संदीप कुमार केयर ऑफ मोनटेज इंटरएजिनि (पी) लि. सेन नं. 4, सिडको इंड. कॉम्प्लेक्स बारी बराला जम्मू तबी-181103	770.	500464	श्री सिंगला अजय कुमार 121 अचनंद नगर ए एक्स. नियर सिंग डेल पब्लिक स्कूल, पंडिपारा-147003
			771.	500514	श्री जगजीत सिंह एस-94, स्कूल ब्लॉक काठपुर, दिल्ली-110092

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
772.	500558	श्री वज्र अमित फ्लैट नं. 45, एम्बी एमएफएस फ्लैट्स पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली-110063	782.	500788	मिस शशि बालू 2 टी सी जैना कॉम्प्लेक्स 1 फ्लोर, दरिया गंज नेताजी सुभाष मार्ग, न्यू दिल्ली-110002
773.	500571	श्री जैन अशोक जीडी-158 पीतम्पुरा दिल्ली-110088	783.	500889	श्री गुता विवेक एच नं. 30, सैक्टर-11 पंचकुला-134109
774.	500592	श्री चतुर्देवो संकल्प सी-1 सीपीडब्ल्यू डी स्टॉफ इनव्हाणरी क्वार्टर्स आर्इएआरआई फ्लोर न्यू दिल्ली-110012	784.	500926	मिस हरिहरण सुषा सैक्टर-डी, पोकेट-2 हाउस नं. 2245 कस्तूर कुंज, न्यू दिल्ली-110070
775.	500599	श्री रुस्तगी रविचंद्र रघुनाथ शर्मा बिल्डिंग हथिनी की धार, जगतोग कैंट सिमला-110045	785.	500933	श्री मयन मनोज 396 भोलानाथ नगर अपो. गौता मयन साहदरा, दिल्ली-110032
776.	500604	मिस अग्रवाल कमला 48, बैंक अनाक्लवे लक्ष्मीनगर, दिल्ली-110092	786.	500955	श्री कमलेश कुमार कमल एफ-2943 नेताजी नगर न्यू दिल्ली-110023
777.	500613	श्री गुता संजय 2010/27, राकेश नगर जनता कालोनी, रोहतक-124001	787.	500980	श्री कवकर अनिल वी पी ओ बरवाल रैवाली रोड, पंचकुला-134118
778.	500623	मिस पांडे मीना केयर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक सुपरजिजेंट डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस, बलुआबाद काठमांडू	788.	501110	श्री पी वी एन श्रीधर जी-3, निर्मल विहार, 34/2, 4 ब्लॉक चिन्मय रोड बिहाड़ सुपर सर्विस स्टेशन कामनवेल्ली मेन रोड कांग्रेस-560084
779.	500699	श्री जैन सुमित फ्लैट नं. 96, प्रताप नगर, जेला रोड न्यू दिल्ली-110064	789.	501122	श्री सिंह संगीत कुमार जे 8 विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
780.	500718	श्री गुलाटी मंगेश सिंह एम्बी/ए एन अर्वा टी फरीदाबाद-121001	790.	501128	श्री भिंदरा सुनील नं. 3818, सैक्टर-32बी चंडीगढ़-160047
781.	500766	श्री सुरेन्द्र के गोविंद एम्बी/ए एन अर्वा टी विजय चौक पी ओ बरवाल 30020 यूनिटिड अरब एम्बी/ए एन अर्वा टी दुबई	791.	501194	श्री बंसल रवि 43, अर्वा टी फ्लैट नं. 74, अर्वा टी दिल्ली-110092

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
792.	501234	श्री दुकराल नरिन्दर सिंह 40/1367 डी डी ए फ्लैट्स मदन गिर, न्यू दिल्ली-110062	802.	501625	श्री सीतल राम सिद्धार्थ पीडब्ल्यू सेंटर, सहायनगर एम बी रोड, अपो. डी ब्लॉक सफेत न्यू दिल्ली-110030
793.	501275	श्री गोविन्दा सक्किन एच नं. 459, झील कुलेन्जा दिल्ली-110051	803.	501629	श्री आशीष कुमार 15/306, लोदी कालोनी, न्यू दिल्ली-110003
794.	501325	श्री खरकन्द जसप्रीत सिंह सी 196/1 मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 न्यू दिल्ली-110028	804.	501633	श्री भंडारी अमित एच नं. 3661, सैक्टर 46-सी खंडीपु-160047
795.	501345	मिस अमिहोत्री दीवी 307 लक्ष्मीबाई नगर न्यू दिल्ली-110023	805.	501645	मिस गुलाब कबीर बी-9/117, सैक्टर 3 रोहिणी, दिल्ली-110085
796.	501401	श्री जैन परस एन-127 लक्ष्मी नगर नियर जगत राम पार्क दिल्ली-110092	806.	501655	मिस कवचा मिश्रा फ्लैट नं. एस-2, फ्लॉट नं. सी-4 इकन अपार्ट., रामप्रस्था कालोनी, चन्दर नगर पीओ, गाजियाबाद-201011
797.	501426	श्री अरोड़ा रोहित बी-198, कैट फटेला नगर न्यू दिल्ली-110008	807.	501742	मिस अग्रवाल प्रीति सीडी-248 विस्मय अन्वलेव पीतम्पुरा दिल्ली-110088
798.	501434	श्री मेहरा तरुण फ्लैट नं. 1334 नीलकण्ठ अपार्ट. रोहिणी सैक्टर 13, दिल्ली-110085	808.	501764	श्री गोयल अनीष वाई-22 हॉस खास न्यू दिल्ली-110016
799.	501444	श्री नंद पंकज मै. पंकज नंद एन्ड एसोसिएट्स नंद हाउस, मोहल्ला मुला कन्नियन रोड, चम्ब-176318	809.	501800	श्री तिचारी ओम संकर फ्लैट नं. 24 पोकेट डी 7 सैक्टर 15, रोहिणी, दिल्ली-110085
800.	501590	श्री पोथर पंकज फ्लैट नं. वार्ड-109, अग्रसेन अग्रवास 66, अर्द्ध पी एक्स. दिल्ली-110092	810.	501833	श्री प्रोवर जसविंदर सिंह 51/1 फर्स्ट फ्लोर, ओल्ड राजिन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060
801.	501616	श्री चंदन नीरज मै. नीरज चंदन एन्ड एसोसिएट्स 285, राजा गार्डन कालोनी कमूरुवाला रोड 120 फ्रीट रोड, जालंधर	811.	501839	श्री कोहली विवेकानंद 8, सलीसवरी स्कवेयर युके, लंदन
			812.	501841	मिस गुलाब निधी फ्लैट नं. 2, न्यू मॉडल अपार्ट्स फ्लॉट नं. 31, सैक्टर-13 रोहिणी, दिल्ली-110085

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
813.	501863	श्री राज कुमार जीएफ-100, सुशांत व्यापार केंद्र सुशांत लोक-1 गुड्रांस-122002	822.	502124	श्री धीरू विशाल टी आर चण्डा एन्ड कं. बी 30, डी, कुयियाला बिल्डिंग कॉन्ट प्लेस, न्यू दिल्ली-110001
814.	501875	श्री बिलाल अखित्री जली सेम्पाका पुलिह तेसाह XVI एच नं. 3 (इंडोनेशिया) 10520, जकार्ता	823.	502134	श्री अग्रवाल रितेश डी-173, सैकंड फ्लोर सक्केत, न्यू दिल्ली-110017
815.	501935	श्री कौशल योगेश एल-4, फरकसर्जी न्यू दिल्ली-110019	824.	502143	श्री अग्रवाल सिद्धार्थ प्रॉर्टस वॉटरहाउस कूपर्स पीडब्ल्यू सैक्टर, साईदपुराजब एम बी रोड अपो. डी ब्लॉक सक्केत न्यू दिल्ली-110030
816.	501994	श्री हर प्रदीप कुमार कोमर ऑफ कोबी एन्ड पंढरी 1160, दिल्लीव्यार सड़क कोसी कम्पाउंड दिल्लीव्यार, काठमांडू	825.	502144	श्री रूंगटा विनय कुमार विश्वम्भरलाल 33/2 ओल्ड राजिन्दर नगर 2 फ्लोर नियर गुरुद्वारा न्यू दिल्ली-110060
817.	502033	श्री अग्रवाल समीर ई-125 मस्जिद मोव ट्रेटर कौलास 3 न्यू दिल्ली-110048	826.	502168	श्री संजय कुमार ए-75 खलना काल्नेनी बल्लभपुर-121004
818.	502066	मिस्टर कबीर रतु 20444K, पूना मंडी आगरा मंड, न्यू दिल्ली-110055	827.	502174	श्री हांडल निरतिन आर-29 मॉडल टाउन दिल्ली-110009
819.	502084	मिस्टर जय सिटी बैंक एन ए 1 फ्लोर, एम्प्लॉयर्स इन्डस आ. ए बी रोड, वर्ली मुम्बई-400018	828.	502177	श्री नायक गंगा धार प्लॉट नं. 1765 ए/3 गली नं. 5 राजीव नगर, नियर सैक्टर 14 गुड्रांस-122001
820.	502097	मिस्टर चरण प्रियंका एल.बी. मिलीमेरिया एन्ड कं. एमसीटी इन्डस, वन ओवेल सेंटर ओवेल सेंटर, गुडना परिया न्यू दिल्ली-110025	829.	502183	मिस्टर जैन प्रेरणा अर्नास्ट एन्ड यंग 2 फ्लोर कैपिटल कोर्ट एलएससी ज 3 ओल्ड फाल्क मार्ग मुनिरका न्यू दिल्ली-110067
821.	502098	श्री सुनील अंशु एल-1, स्ट्रीट मिलेज-ए इंडियन यूनाइटेड बैंक लिमिटेड गोलीबंदी, इटानगर-300019	830.	502191	श्री वार्ड जयसंकर एबीबी लि., 32 इंडस्ट्रियल परिया एन.आई.टी. फरीदबाद-121001
			831.	502194	श्री सुनील प्रियंका 10/11 सैक्टर 19 बी गुड्रांस-160019

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
832.	502202	श्री वाधवा गौरव फ्लैट नं. 75 जय लक्ष्मी अपार्टमेंट्स फ्लॉट नं. 59 आई. पी. एक्स. दिल्ली-110092	842.	502431	श्री दया मयंक 307 सत्य मैदान ए-2 ए-2 रंजीत नगर, न्यू दिल्ली-110008
833.	502210	श्री राहु रजोव 43 दिपनी अपार्टमेंट्स रोड नं. 44, पीताम पुरा दिल्ली-110034	843.	502495	श्री अतुल कुमार सी 56 गली नं. 8 राजगढ़ कालोनी, दिल्ली-110031
834.	502212	श्री गर्ग विपुल 274 आरपीएस डीडीए फ्लैट्स मन्सरोवर पार्क साह्यद्रा, दिल्ली-110032	844.	502509	श्री विरेन्द्रा सिंह एफ-64, स्ट्रीट नं. 7 मंगल बाजार रोड लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
835.	502229	श्री खन्ना सुवीर केपीएमजी, 4 बी डीएलएफ कोरपोरेट पार्क डीएलएफ सिटी फेज 3 गुड्डावन-122002	845.	502535	श्री खार्कवाल गगन कुमार केयर ऑफ श्री जे पी बीराय 15-बी पर्वतीय विहार, बी-6, कमुंजरा अन्वलेव, दिल्ली-110096
836.	502239	श्री जैन उद्यम कुमार केयर ऑफ अपोलो टायर्स लि. 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 32, गुड्डावन-122001	846.	502579	श्री तिथारी असीम कुमार 683, सरस्वती विहार, गुड्डावन-122001
837.	502264	श्री रामेश्वर सिंह केयर ऑफ श्रीकान्त ए 312 डीडीए फ्लैट्स गोविंदपुरी एक्स. कालकाजी, न्यू दिल्ली-110019	847.	502610	मिस स्मृति फ्लैट नं. 77, ब्लॉक बीजी-1, परिषद विहार, न्यू दिल्ली-110063
838.	502328	श्री पंडे प्रवीण बी 40, बी.के. टच कालोनी कर्मल, न्यू दिल्ली-110003	848.	502690	श्री अमिता कुमार 860 फ्लैट 3 हारका सेक्टर 19 न्यू दिल्ली-110045
839.	502391	श्री खन्ना संतोष कुमार कुम्हरी गैट हाउस दावार स्कवेयर, कठमांडू	849.	502705	श्री राठी सुनील 503/2 मिनिमियम अपार्ट. फ्लॉट नं. 2, हारका सेक्टर 9 न्यू दिल्ली-110045
840.	502397	श्री निरफन साँप नं. 22, न्यू ग्रेन मार्केट एलएचएड, सिस्त-125035	850.	502706	श्री गुरवनी गिरीश केयर आफ एस. आर. कटलीकर हल कं. 2 फ्लैट, द कोर्टल कोर्ट एलएचएड फेज III, अलेफेक पार्लनेमार्ग फुनिरका, न्यू दिल्ली-110067
841.	502424	श्री नेदी निधि फै-1405, मिहलंगन पार्क सेक्टर 3, न्यू दिल्ली-110019	851.	502710	मिस निधि कल्पत शिव जे 9 स्कवाटा नगर 3 न्यू दिल्ली-110024

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
852.	502783	श्री अमित कुमार 4-सी दीपा अपार्टमेंट्स 10, आई पी एक्स. दिल्ली-110092	862.	502978	श्री अग्रमाल अग्रलेक 1619/52 गली नं. 4 उलधानपुर (एम 52), नवीन शाहदरा दिल्ली-110032
853.	502793	श्री मेहता आदित्य एस7ए247, ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 न्यू दिल्ली-110048	863.	502983	श्री भल्ला राकेश 459, सैक्टर-10 फरीदबाद-143001
854.	502828	श्री कपूर मृत्युञ्जय 22, पूर्वी मार्ग, वसंत विहार न्यू दिल्ली-110057	864.	503016	मिस भगत सविता 230, थाई परमानंद कालोनी दिल्ली-110009
855.	502830	श्री टंडन अनुज सीडी-10/एफ, डी.डी.ए. फ्लैट्स हरि नगर, न्यू दिल्ली-110064	865.	503067	श्री गुरप्रीत सिंह एचबी, 186ए, पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110063
856.	502846	श्री श्रेष्ठ राधेश्याम कृष्णखोले-10, ललित पुर पी ओ बाक्स नं. 20526, कस्तूरबाग	866.	503116	श्री शर्मा रमन एच नं. सी 9 सैक्टर 14 चंडीगढ़-160014
857.	502881	श्री निगमंद कृष्ण राज केयर ऑफ परिमल कॉरी सी 445 सी. आर. पार्क न्यू दिल्ली-110019	867.	503131	मिस किट यशोदा कुन्दन सिंह केयर ऑफ कर्नल बी. एस. अल्पनिया 707, हाईवेस, सऊथ सिटी-1 गुडौच-122001
858.	502891	मिस गुप्ता रचना इंदिरा निकेतन वर्किंग गर्ल्स होस्टल सरजिनी नगर न्यू दिल्ली-110023	868.	503182	श्री सरीन गौरव 4/66 डबल्यू ई ए सरस्वती मार्ग करोला बाग, न्यू दिल्ली-110005
859.	502911	श्री जैन अमिता 81, सूर्य निकेतन दिल्ली-110092	869.	503221	श्री रस्तोगी विशाल 205/1, श्री राम नगर शाहदरा, दिल्ली-110032
860.	502923	श्री शर्मा दिनेश कुमार 64 बाल्कनी अन्वलेव आई टी एक्स., दिल्ली-110092	870.	503253	मिस नर्गिस अब्दीका ए-49, फर्स्ट फ्लोर इंस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली-110065
861.	502967	श्री अंसारी इमरतुल्लाह अहमद 46-बी जेहरी फार्म नूर नगर एक्स. जमिंदार नगर, न्यू दिल्ली-110025	871.	503255	श्री सुक्ला अनुराग 1348, लोदी रोड कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली-110003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
872.	503258	श्री वैद्य दीपक हाऊस नं. 42, पवन अन्वलेख नियर विवेक विहार अपो. सोप फैक्ट्री, प्लोरा जम्मू तवी-180001	875.	503431	श्री एम रवि संकर 283 एमआईजी फ्लैट प्रसाद नगर, न्यू दिल्ली-110005
873.	503285	श्री विक्रम सिंह हाऊस नं. 895 अरबन स्टेट फेज-II नियसर एम जी एन स्कूल जलन्धर-144001	876.	504125	श्री वाही जगन्नाथ फेयर ऑफ संजय गुप्ता एच 23 I स्ट्रीट, शकरपुर दिल्ली-110092
874.	503307	मिस कपूर राशिनी 92-एफ, राजपुरा कालोनी पटियाला-147001			

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

नई दिल्ली-110002, दिनांक 27 सितम्बर 2006

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

संख्या: 1-सी.ए./7/94/2006

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की शाखा दिनांक 8 सितम्बर 2006 से बेलारी में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिण प्रादेशिक परिषद की बेलारी शाखा के नाम से जानी जाएगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत, बेलारी के साथ-साथ बेलारी नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आएंगे:

1. डोनीमलाई
2. गंगावाटी
3. गोदुर पोस्ट
4. गुंटाकल
5. होसपेट
6. संदुर
7. सुरगुप्पा
8. टोरानागल्लु

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा, परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशनों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए।

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव



संख्या: 1-सी.ए./7/95/2006

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद, पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद की शाखा दिनांक 8 सितम्बर 2006 से भरूच में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा पश्चिमी प्रादेशिक परिषद की भरूच शाखा के नाम से जानी जाएगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत, भरूच के साथ-साथ भरूच नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आएंगे:

1. अंकलेश्वर
2. दाहेज
3. लोसांबा
4. जमबुसर

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा, परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशनों के अधीन रहते हुए पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए।

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

संख्या: 1-सी.ए./7/96/2006

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की शाखा दिनांक 8 सितम्बर 2006 से गोरखपुर में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा मध्य प्रादेशिक परिषद की गोरखपुर शाखा के नाम से जानी जाएगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत, गोरखपुर के साथ-साथ गोरखपुर नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर / नगर आएंगे:

1. महाराजगंज
2. संत कबीर नगर
3. डिओरिया
4. कुशीनगर

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा, परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशनों के अधीन रहते हुए मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए।

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

संख्या: 1-सी.ए./7/97/2006

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की शाखा दिनांक 8 सितम्बर 2006 से काकिनाड़ा में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिण प्रादेशिक परिषद की काकिनाड़ा शाखा के नाम से जानी जाएगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, काकिनाड़ा के साथ-साथ काकिनाड़ा नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आएंगे:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. अमालापुरम   | 7. कोरुमिलल्ली |
| 2. चेलुरु      | 8. पेडापल्ला   |
| 3. गोल्लापरोलु | 9. पेडापुरम    |
| 4. इंदुपल्ली   | 10. समालकोट    |
| 5. जगामपेटगा   | 11. सुरुनगावरम |
| 6. कोरापा      | 12. विलासा     |

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा, परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशनों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए।

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

## कोलकाता-700 071, दिनांक 27 सितम्बर 2006

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस)

न. 3ईसीए/5/2/2004-2005: इस संस्थान की अधिसूचना न. 4 सीए(1)/27/1976-77 दिनांक 5.03.1977, 3ईसीए(4)/12/1983-84 दिनांक 31.03.1984, 3 इसीए(4)/3/1985-86 दिनांक 30.09.1985, 3ईसीए(4)/11/1986-87 दिनांक 31.03.1987, 3 इसीए(4)/6/1988-89 दिनांक 24.02.1989, 3 ईसीए(4)/3/1997-98 दिनांक 31.03.1988, 3 इसीए(4)/3/1998-99 दिनांक 12.05.1999, 3 ईसीए/4/2/1999-2000 दिनांक 11.04.2000, 3ईसीए/4/3/2000-2001 दिनांक 22.02.2001, 3 ईसीए/4/3/2001-2002, दिनांक 12.08.2002 एवं 3 इसीए /4/2/ 2003-04 दिनांक 8.09.2004, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सुचित किया जाता है की उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे हुई लिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता नाम एवं पता	दिनांक
1.	011034 मि. आहमेद जियाउद्दिन एफ सि ए मार्फत ओयेवेल भवन बल्क इपि / जिपि सेक्टर - V बिधान नगर कोलकाता - ७०० ०९१	22/03/2005
2.	012372 मि. सर्वाधिकारी असित रंजन एफ सि ए एच आई सि इन्फोटेक - १ मैलश्री इवहा भुवनेश्वर - ७५१ ०२१	10/12/2004
3.	016676 मि प्रधान प्रकाश चन्द्र ए सि ए मार्फत - पार्थ बासु भिलेज - धलुया, पोष्ट - पंचासायर २४ परगना (साउथ) कोलकाता - ७०० ०९४	29/09/2004
4.	033914 मि भान्डारी सैलेन्द्र ए सि ए ३६५ हलेन्ड रोड ०७-०३ आलसोर्थ पार्क सिंगापुर - २७८ ६३४	20/12/2004

5.	050020 मि दाश सुरेश चन्द्र ए सि ए पल्ट नं एन ३/१९ आई आर सि भिलेज नयापल्ली भुवनेश्वर - ७५१ ०१५	11/10/2004
6.	050123 मि दालान विजय कुमार एफसीए ४४, बि सैयद आमिर आलि एमिन्यु कोलकाता - ७०० ०१७	02/12/2004
7.	050311 मि सिनहा अमिताभ ए सि ए एइ - ६०६ सेक्टर १ सल्ट लेक सिटी कोलकाता - ७०० ०६४	30/11/2004
8.	050315 मि सुरेका अशोक कुमार एफसीए ९ इन्डिया एक्सचेन्ज प्लेस ६ तल्ला कोलकाता - ७०० ००१	29/12/2004
9.	050862 मि राय प्रजनान ए सि ए ४ सि हेमछाया आयरन साइड रोड कोलकाता - ७०० ०१९	19/11/2004
10.	050920 मि साँत्रा जयदेव ए सि ए २८, घोष पारा माखला - ७१२ २४५	14/10/2004
11.	052111 मि दासगुप्ता सुमित ए सि ए १५ए/१ वैशनबघाटा रोड कोलकाता - ७०० ०४३	03/11/2004
12.	052375 मि गुप्ता छानगो लाल एफसीए ७/३ राइफेल रेन्ज रोड कोलकाता - ७०० ०१९.	17/03/2005
13.	052661 मि गुप्ता सुदिप ए सि ए के पि एम जि पोष्ट बक्स : पि सि ११२ रुइ - ० सुलतानेट ऑफ ओमान	25/02/2005
14.	052976 मि खास्तगीर प्रदिप ए सि ए २, लेक भिउ रोड कोलकाता - ७०० ०२९	23/12/2004

15. 053906	मि भट्टाचार्या विद्युत प्रकाश ए सि ए मार्फत बिजली कान्त भट्टाचार्य आनन्दम हाउजि कमप्लेक्स फ्लाट नं ३१७ ७ के बी सारनि (माल रोड) कोलकाता - ७०० ०८०	05/11/2005	23. 057578	मि. चौधुरी प्रशन्न ए सि ए मार्फत लालदाश एवं कं १८, सहिद नगर भुवनेश्वर - ७५१ ००७	23/12/2004
16. 054050	मि घोष तापश कुमार ए सि ए ८/४, बि. टि. रोड कोलकाता - ७०० ००२	22/03/2005	24. 057623	मि. खन्डेलवाल बिकाश ए सि ए ब्लक - ए फ्लाट - ५०१ ३६, पाम एविन्यु कोलकाता - ७०० ०९९	11/10/2004
17. 054173	मि वैनाजी सुरजित ए सि ए पि - १०६, लेक टेरास प्रथम तल्ला कोलकाता - ७०० ०२९	05/11/2004	25. 058095	मि. झोलिया समीर ए सि ए मार्फत अरुन कुमार फोहार फ्लाट नं २०१, ब्लक - सि रविन्द्र नगर कमप्लेक्स शालिमार हाउडा - ७११ १०३	07/01/2005
18. 054728	मि मैत्र गौतम ए सि ए फ्लाट नं बि बि - ११, शान्तिनाथ एपार्टमेंट अपजिट : भेजलपुर वस स्टॉप भेजलपुर आहेमदाबाद - ३८० ०५१	27/01/2005	26. 058503	मि. मनोत सुनील ए सि ए मार्फत उमाशंकर प्रसाद नियर कास्टम्स हाउस रक्शील - ८४५ ३०५	29/09/2004
19. 055334	मि दास शिवु ए सि ए मार्फत गोल्डस्टार फार्इनाशियल सर्विशेस प्राईवेट लिमिटेड १२ तल्ला कांचना ७/१, रासल स्ट्रिट कोलकाता - ७०० ०७१	27/01/2005	27. 058851	मि. मद्रा प्रसान्त कुमार ए सि ए मार्फत अनुर मिश्र बि/२३३, एकता हाउसि सोसाइटी नियर लीला कैम्पेनस्टिक मोराल नाका अंधेरि मुम्बई - ४०० ०५९	13/10/2004
20. 055767	मि मोहान्ति निरंजन एफसीए एटि : मारिया वाजार पोष्ट : बक्सि वाजार कटक - ७५३ ००१	14/03/2005	28. 059496	मि. घोष सुदिप रंजन ए सि ए एच इ १९/१० सचिन्द्र लाल सरनी प्रभात एपार्टमेंट, तिसरा तल्ला बागुइहाटि, जोडामन्दिर, गौतम पाडा कोलकाता - ७०० ०५९	25/02/2005
21. 056363	मिस: सरकार संघमित्रा ए सि ए सिनियर मैनेजर विडला मैनेजमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आदित्य विडला ग्रुप ३११, डवल्यु टि सि वराखम्बा लेन नियु दिल्ली ११० ००१	07/02/2005	29. 059680	मि. सहगल मनिश ए सि ए प्लट नं ६२, साकेत एनक्लेव इ सि आइ एल, पोष्ट - कापरा मिडनिशिपालिटि सेकेन्द्राबाद हैदराबाद-500 062	18/10/2004
22. 057359	मि. अग्रवाल मनोज कुमार एसीए ३२, सुखवानि पैराडाइस शान्ता आर्से रोड अफ: भाउ पाटिल रोड वोपोदी रेन्ज हिलस पुने - ४११ ०२०	03/01/2005	30. 060726	मि. गर्ग उत्तम कुमार ए सि ए अग्रवाल भवन वैश्वो देवी मन्दिर लेन एटि/पोष्ट : खेत्राजपुर सम्बलपुर - ४६८ ००३	30/09/2004

- |            |   |            |            |  |            |
|------------|---|------------|------------|--|------------|
| 31. 060787 | मि. यादव प्राशान्त कुमार ए सि ए<br>स्टक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड<br>रुम नं - २९९, जयपुर स्टक एक्सचेंज बिल्डिंग<br>जवाहार लाल नेहरू रोड<br>मालभिया नगर<br>जयपुर - ३०२ ०१७ | 01/12/2004 | 33. 060980 | मि. लुनदिया योगेश ए सि ए<br>मार्फत श्री उम प्रकाश लुनदिया<br>३२बि/२, रफि अहमद किदवाई रोड<br>अफ: जेशोर रोड<br>कोलकाता - ७०० ०५५                             | 29/03/2005 |
| 32. 060817 | मि. सेनगुप्ता रिक ए सि ए<br>८१६, नरकरहाट रोड<br>कोलकाता - ७०० ०३९   | 09/03/2005 | 34. 061673 | मि. मुखार्जी रवि ज्योति ए सि ए<br>शिलोवा इनभेस्टमेंटस लिमिटेड<br>मेगा प्लाजा, ब्लक - ए, तिसरा तल्ला<br>पोष्ट बक्स २५०९, किसुमु<br>केनिया - ०, इष्ट आफ्रिका | 22/11/2004 |

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

चैन्नई-600 034, दिनांक 4 अक्टूबर 2006

## (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं.3एससीए(5)/1/2004-2005 : संस्था की अधिसूचना नं. 3एससीए(4)/4/2003-2004 की तिथि 23 अगस्त 2004 के अंतर्गत य सूचित करती है 1988 के विनियम 20 के द्वारा नियम 19 द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत यह संस्था निम्नलिखित सदस्यों के नाम 22/12/2003 से सदस्यों के रजिस्टर में वापिस लेती है ।

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
1.	002995	श्री वेणुगोपाल ए एसीए 'प्रभन्ध', 417/9 IV 'ए' क्रॉस येल्कनका सैटलाईट टाऊन बंगलौर-560064	8.	012123	श्री चक्रवर्ती पी एस एफसीए एच नं 300 कोल क्वार्टर्स सहायनगर बंगलौर-560092
2.	003375	श्री साधने दत्तात्रेया गणेश एफसीए फ्लैट नं. 203 कावेरी सिखर अपार्टमेंट्स 3-4-526/16, बारकटपुरा हैदराबाद-500027	9.	014434	श्री सुब्रह्मण्यन टी एस एफसीए सी-27 ऑफिसर्स क्वार्टर्स केम्पल नगर, कोलार गोल्ल फील्ड्स-563115
3.	004802	श्री गणपति पी आर एफसीए न्यू नं. 41 (ओल्ड नं. 16) गंगई अम्मान कोएला स्ट्रीट चैन्नई-600094	10.	014462	श्री वैकटरमन अरुणचला एसीए फ्लैट नं. एफ 2, ई-44, फ्लैट्स नं. 93-ए, कृष्णामचारी नगर अलापक्कम, चैन्नई-600116
4.	005671	श्री जयराम हरि एफसीए श्री एक्सएल II/1521-बी अपो : लिंक मानोर अपार्ट. ओल्ड रेलवे स्टेशन रोड कोची-682018	11.	014986	श्री रमन वी के एफसीए न्यू नं. 38, साऊथ उसमान रोड टी नगर, चैन्नई-600017
5.	006591	श्री प्रह्लाद रॉव एस के एफसीए नं. 157, फर्स्ट फ्लोर स्ट्रीट पैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स त्रिगोड रोड, बंगलौर-560025	12.	015294	श्री धंजावेलु एम एफसीए फ्लैट नं. जी-3, जैन्स अनुराग, न्यू नं. 32 (ओल्ड नं. 19) आरकोट मुदली स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017
6.	009926	श्री गोपालकृष्णन पी वी एसीए ग्रुप इंटरनल ऑडिट मैनेजर नील कमल ग्रुप, पोस्ट बाक्स 2409 दुबई, यू.ए.ई	13.	015616	श्री जयाबालन वी एफसीए 17 फुल्लहार स्ट्रीट I फ्लोर, ईरोड-638001
7.	010125	श्री श्रीरामुलू रामनाथन आरकोट एसीए केयर ऑफ द भारत ऑटोमोबाईल्स 14 जे सी रोड, बंगलौर-560002	14.	016589	श्री रमानी जे एसीए फ्लैट नं. सी-17, 4 फ्लोर नैल्सन चैम्बर्स, 115 नैल्सन मणिकम रोड अमीनजीवरई, चैन्नई-600029

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
15.	016751	श्री राधाकृष्णन एम एसीए रॉयल होरिसन एलएलसी पोस्ट बाक्स 8095 दुबई, यू.ए.ई.	14.	019247	श्री एलानगोवन ए आर एफसीए डी, एसबीआई ऑफिसर्स क्वाटर्स 15 रेस कोर्स रोड कोएंबतोर-641018
16.	018019	श्री धर्मारजा अईयर एस एफसीए राज भवन, टैम्पल रोड कैलीकट डिस्ट्रिक्ट रामनट्टकारा-673633	25.	019296	श्री जयारमन एस एसीए फ्लैट नं. 34, डोर नं. 209 स्ट्रीट नं. 2, बालाराम नगर साफीलगुडा, हैदराबाद-500047
17.	018386	श्री बालसुब्रमण्यन एम एसीए 21 फोर्थ स्ट्रीट टाटाबाद, कोएंबतोर-641012	26.	019454	श्री थॉमस के जे एफसीए कोस्सेरिल हाऊस सिविल लाईन रोड, पालरीवट्टम, कोची-682025
18.	018539	श्री सम्भामूर्ति बी एसीए फ्लैट नं. 2, अकिला अपार्टमेंट्स डा. वी एस अईयर स्ट्रीट रंगानगर श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली-620006	27.	019806	श्री वैक्टरमानी एस एसीए फ्लैट नं. ए-3, साई स्वागात अपार्ट्स न्यू नं. 13 (ओल्ड नं. 6) सारांगापानी स्ट्रीट, टी नगर चेन्नई-600017
19.	018554	श्री विजयाराघवन आर एफसीए पी ओ बाक्स # 1122 बोरोको, नेशनल कैपिटल डिस्ट्रिक्ट पोर्ट भोरेस्वी, पापाउ न्यू ग्युनिआ	28.	019968	श्री श्रीनिवास राघवन बी के एफसीए प्रेजीडेंट (फाईनैस), प्राईम टैक्सटाईल्स लिमिटेड पी बी 154, गांधी नगर पीओ तिरुपुर-641603
20.	018665	श्री सूर्या वारा प्रसाद वारहाभाटला एफसीए फ्लैट नं. 102, I फ्लोर, राग एवेन्यू बिहाइंड साई रंगा 70 एमएम थिएटर मियापुर, हैदराबाद-500050	29.	020047	श्री वैद्यनाथन एस एसीए न्यू नं. 12 (ओल्ड नं. 34/1) वी कृष्णास्वामी एवेन्यू माएलापोर, चेन्नई-600004
21.	018813	श्री विवेकानन्धन एस एफसीए एफ-8, 120 हिग अपार्टमेंट्स 11 एवेन्यू, अशोक नगर चेन्नई-600083	30.	020250	श्री मुधुराम के एसीए 5, एम जी आर स्ट्रीट चोलावरम नगर, क्रोमेट चेन्नई-600044
22.	018945	श्री पद्मानाभन एम ए एसीए डिप्टी चीफ एकाउंट्स ऑफिसर आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन लि. कृष्णापाह जोन, कृष्णापाह-516001	31.	020397	श्री थिरुनवुक्कारासु के एफसीए सैकंड फ्लोर, डी नं. 60, गोविंदन स्ट्रीट, सलेम-636001
23.	019211	श्री रमानी पी ए एसीए जेएल, तिरुतेयसा IV/19 केबेयोरान बारू जकारटा सेलेतान इंडोनेशिया	32.	020471	श्री कुलाशेखर वर्मा एफसीए फाईनैस मैनेजर (प्रोजेक्ट्स) दुबई इंटरनेशनल रियल स्टेट पी ओ बाक्स 29000, दुबई, यू.ए.ई.



क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
33.	020516	श्री मधु सुदन पी एसीए 89 ब्रानवुड ड्वार्थव वैस्ट वानर, न्यू जर्सी-07059 यू.एस.ए	41.	021483	श्री धीरेशाम जी एफसीए डी नं. 1-2-597124/3 II फ्लोर नियर कट्टुमार्ईताम्मा टैम्पल लोअर टैकबंद रोड डेमलगाडा, हैदराबाद-500029
34.	020525	श्री ईसाक जॉर्ज ए एसीए डायरेक्टर फार्मैस जीवीके इंडस्ट्रिज लिमिटेड 'पैगाह हाऊस', 156-159, सरदार पटेल रोड सिकंदराबाद-500003	42.	021596	श्री सुन्दरम के एम एफसीए सी-28, अन्ना नगर इस्ट चेन्नई-600102
35.	020764	श्री श्रीवात्सन सी एस एफसीए 17-ए, टी के नाम्बी स्ट्रीट कांचीपुरम-631503	43.	021640	श्री सेकर एम एफसीए 486 8 फ्रॉस, 10 मेन, जीवन बीम नगर, बंगलूर-560075
36.	020868	श्री नटराजन के एफसीए फ्लैट नं. 312, कंचन टॉवर्स राजारामेश्वरीपुरम नियर स्वामी थिएटर गंतूर-522006	44.	021691	श्री रघुनाथन जे एफसीए (ओल्ड नं. 60) न्यू नं. 14 कामराज इकोनॉमिक्स स्ट्रीट अद्वय, चेन्नई-600020
37.	021111	श्री रघुरमन एस एफसीए 1520 ग्लास्टनबरी ड्वार्थव प्लानो, टी एक्स -75075 यू.एस.ए	45.	021770	श्री सम्पत प्रकाश एफसीए मेनेजिंग डायरेक्टर बियिंग पार्ट इन्क. 711 ल्यूसिआना स्ट्रीट, हाउस्टन टेक्सास-77002, यू.एस.ए
38.	021274	श्री गोविंदराजन ए एसीए 49/255ए आनंद निलायम पराथिल रोड, एलामक्कारा कोची-682026	46.	021779	श्री मुख्तार अलि हाजानलाल एसीए फार्मैशियल अनालिस्ट बूटार्ड ट्रेडिंग कं. लि. पी ओ बाक्स 42371 70654 रुवैख, कुवैत
39.	021443	श्री महेश जी एफसीए फार्मैस डायरेक्टर फ्रेसिनियस मैडीकल केयर प्रा. लि. लेवल 17, 61 लावेन्द्रा स्ट्रीट मिल्सन्स पार्ट, न्यू साऊथ वेल्स-2061 आस्ट्रेलिया	47.	022229	श्री कृतिवसन के एसीए वाईस प्रेजिडेंट इंटरनल ऑडिट अरब बैंकिंग कोरपोरेशन पी ओ बाक्स 5698, मनामा, बहरैन
40.	021482	मिस उमा महेश एस एसीए सी3-102 एफ, बहल टाऊनशिप तिरुचिरापल्ली-620014	48.	022259	श्री अहमद कबीर टी एच एफसीए थाएमडाम, 18/495 देसिया कवाला बी एम सी पोस्ट, थ्रिवकाकारा, कोची-682021

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
49.	022270	श्री अलागिया मानवालन आर एसीए मैनेजर - क्रेडिट, इंग व्याख्या बैंक लि. सी आर एम डी, 2 फ्लोर 22 एम जी रोड, बंगलौर-560001	58.	023379	श्री कुमार एस एसीए मैनेजिंग डायरेक्टर लाईफस्टाईल इंटरनैशनल (पी) लि. नं. 84 टीटीके रोड अल्वरपेट, चैन्नई-600018
50.	022278	श्री पोपुरी श्री रमनागामूषण राव एफसीए 1-93/2 प्रभात नगर, चैन्नैयापुरी दिलसुखनगर, हैदराबाद-500029	59.	023392	श्री शिवा कुमार सी वी एफसीए 801 पूनमल्ली हाई रोड अरुम्बक्कम, चैन्नई-600106
51.	022328	श्री जॉन जे पुथियिडम एफसीए XXVII/554 पलाई रोड थोसुपुञ्जा-685585	60.	023407	श्री रामसुब्रमण्यन जी एसीए सी-165, श्रीवत्सा गार्डन भेद्रुपलायम रोड थुडीयलूर, कोएंबतोर-641034
52.	022480	श्री चेल्लाटाम्बी एस एफसीए एफ-3 अमरावति रोड ब्लॉक 16, नेईवेली-607801	61.	023576	श्री राजाराजन टी एसीए 24 बैंकटेश्वरा नगर फर्स्ट स्ट्रीट, जी वी फ्लैट्स सालीग्रामम, चैन्नई-600093
53.	022526	श्री रविन्द्रनाथ वी एफसीए प्लीजेन्ट अपार्टमेंट्स 14/45 टेलर्स रोड किलपीक, चैन्नई-600010	62.	023638	श्री अम्मांगी यू जी एफसीए 1938 कादोलकर गल्ली बेगाव-590002
54.	022690	श्री हरिनारायणन वी एफसीए 12 टैगोर स्ट्रीट 'बालू ईलायम', महालिंगपुरम पोल्लाची-642002	63.	023748	श्री अरमवालरथन एस एफसीए वन स्कूल एवेन्यू इंडुक्की डिस्ट्रिक्ट, पुल्लीकनम पी ओ-685503
55.	022805	श्री कोप्पार एच आर एफसीए एच नं. 111-बी, 24 क्रॉस 2 ब्लॉक, राजाजीनगर बंगलौर-560010	64.	023911	श्री नागेश्वरन ए एफसीए 136 नेहरू स्ट्रीट राम नगर, कोएंबतोर-641009
56.	022816	श्री रविन्द्रनाथ राठो एसीए सिनीयर जनरल मैनेजर एसजेके स्टील प्लांट लि. प्लॉट नं. 75, न्यू एमएलए एन्ड एमपीएस कालोनी रोड नं. 10-सी, जुबली हिल्स हैदराबाद-500033	65.	024064	श्री तिरूमल कुमार बी एसीए फ्लैट नं. 205, प्लॉट नं. 14-15 श्री साई राम टॉवर्स जय प्रकाश नगर कालोनी, येल्लारेड्डीगुडा, हैदराबाद-500073
57.	023063	श्री ससी कुमार ए एफसीए सिनीयर ऑडिटर एजीएन मैक गजाली एलएलसी पी बी नं. 5755, मुस्कैट सल्लनत ऑफ ओमन	66.	024427	श्री अशोक वी एस एसीए फाईनैशियल कंट्रोलर साऊथकोम(इंए) लि. 800 मटाका रोड, उपंगा दारएस सलाम, तनजानिया

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
67.	024782	श्री चारदराजन एस एसीए पाकसाईड अपार्टमेंट्स 9बी/9, चैकटनारायणा रोड टी नगर, चैन्नई-600017	77.	025841	मिस प्रमिला जैन एफसीए एसएफ-6 गोल्लन अनक्लेव 184 पुनमल्ली हाई रोड किल्लापीक, चैन्नई-600010
68.	024868	श्री शानमुगम के एम एफसीए नं. 9 माथ्याण्डापुरम 2 स्ट्रीट पुडुक्कोट्टई-622001	78.	025974	मिस संध्या एन एसीए मैनेजर, कोयल ऑफ एक्सप्रेस प्रिंटिंग सर्विसिज पी ओ बाक्स 10263 दुबई, यू.ए.ई
69.	024888	श्री राजन सुब्रमण्यन एफसीए 69, टी.टी.के. रोड अल्वरपेट, चैन्नई-600018	79.	026269	श्री मोहन के आर एसीए नं. 99 मोहन राम नगर (बैंक ऑफ कांचीपुरम को-ओप. बैंक) मोगाप्यायर, चैन्नई-600037
70.	024959	श्री मालशेलन पी एन एसीए 1600 गार्डन फ्लोर 1 'ए' क्रॉस 3 मेन, बंगलौर-560040	80.	026535	श्री कन्नन डी एफसीए विकास प्लाजा शॉप नं. 6 फस्ट फ्लोर, 37-सी टैम्बरम चेलाचेरी मेन रोड विजयानगर, चेलाचेरी चैन्नई-600042
71.	025011	मिस जय लक्ष्मी गोपाल कृष्णन एसीए 304, स्वर्ण हाई टॉवर शंकर लेन, ऑरलेम मालद वीस्ट, मुम्बई-400064	81.	026745	श्री वासु ए एम एफसीए # 162/वाई थर्ड मेन रोड 7 <sup>th</sup> ब्लॉक फोरथ फेज बीएसके III स्टेज बंगलौर-560085
72.	025077	श्री कृष्णन एस एफसीए टोटल पी ओ बाक्स 9803, दोहा, कतर	82.	026862	श्री भास्कर राम भूर्ति वाई वी एफसीए 13-2/14 गुप्ता गार्डन्स रामनाथपुर, हैदराबाद-500013
73.	025032	श्री देवेन्द्र रॉय जी एसीए फ्लैट नं. ए-201 दत्तासाई अपार्टमेंट्स बिसाईड्स यशोदा हॉस्पिटल राजमवन रोड, सोमजीगुड्डा हैदराबाद-500482	83.	027196	श्री सुरेश सी एस एफसीए न्यू नं. 9 (ओल्ड नं 5/1) थर्ड ट्रस्ट क्रॉस स्ट्रीट मंडावलीपक्कम, चैन्नई-600028
74.	025089	श्री मंजूनाथ बी ए एफसीए नं. 106 आर टी स्ट्रीट बंगलौर-560053	84.	027303	श्री मुरली एन एसीए फाईनैस मैनेजर खोरेफक्कान कचेरी कं. एलएलसी पी ओ बाक्स नं. 10967 खारपक्कन, शारजाह, यू.ए.ई
75.	025187	श्री चैकटेश्वरा श्रीधर एल एन पी एसीए न्यू नं. 159, (ओल्ड नं. 23-बी) 1 फ्लोर वैन्नियर स्ट्रीट ट्रस्टपुरम, चैन्नई-600094			
76.	025380	श्री पॉलपंडी जयसिंह एल एसीए एम6/जी4 सूर्या फ्लैट्स, तिरुवल्लुवर नगर तिरुवनमियूर, चैन्नई-600041			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
85.	027383	श्री श्रीकांत पार्थसारथी एफसीए प्लॉट नं. 18, वैकटेश्वरा नगर अपो : टीएनपी जूनियर कॉलेज नियर ए एस रॉव नगर हैदराबाद-500062	93.	028169	श्री रविन्द्रन आर एसीए प्रिन्सीपल कन्सलटेंट ऑपशॉप सोल्यूशन्स (पी) इंडिया लि. 8 फ्लोर, एचएमजी बिल्डिंग, रैजीडेंसी रोड, बंगलौर
86.	027532	श्री बालचन्द्रन नायर एस एफसीए फाइनैस एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर एसएनटीटीए फ्राईट एन्ड लोजिस्टिक्स (एलएलसी) पी ओ बाक्स 8845, लिबर्टी बिल्डिंग अल गारहोड रोड (अपो : दुबई ग्रीक गोल्फ क्लब) दुबई, यू.ए.ई.	94.	028275	श्री रमेश के एसीए न्यू नं. 10 (ओल्ड नं. 8) XI स्ट्रीट, तान्सी नगर वेलाचेरी, चैन्नई-600042
87.	027626	श्री नरसिम्हा रेड्डी एम एफसीए 124 फर्स्ट फ्लोर, 4 क्रॉस, लालबाग रोड, ए सी गार्डन बंगलौर-560027	95.	028292	श्री जॉर्ज जी एसीए हेड ऑफ कोरपोरेट फाइनैशियल सर्विसिज ग्रीन्डलेज कतर बैंक पी बी नं. 2001, दोहा स्टेट ऑफ कतर
88.	027663	श्री श्रीकांत स्वामीनाथन एफसीए नं. 74, (ओल्ड नं. 83) I फ्लोर डा. रंगाचारी रोड, चैन्नई-600004	96.	028316	श्री प्रेमराज बी एसीए "प्रेम-सुधा", अपो : सुंदरी अपार्टमेंट्स शिव बाग मेन रोड कादरी, मंगलौर-575002
89.	028056	श्री धेजस पी आर एफसीए I फ्लोर, साहित्य परिषद बिल्डिंग हॉस्पिटल रोड, कोची-682011	97.	028343	श्री जगदीश्वरा रॉव पी एफसीए फ्लैट नं. 6, श्रीनिवास अपार्टमेंट्स राज भवन रोड सोमजीगुडा, हैदराबाद-500082
90.	028109	श्री कृष्णा जी बी एफसीए नं. 17, I फ्लोर, श्रीपुरम शोशाद्रीपुरम, बंगलौर-560020	98.	028412	श्री विजयाभास्कर के एसीए 10407 टोरील्ले डा चारलोटे, चारलोटे-28277 यू.एस.ए
91.	028114	श्री श्रीकांत एन एसीए 10ए क्लॉग टान बिन्ह डिस्ट्रिक्ट एचओ चि मिन्ह सिटी वियतनाम	99.	028457	श्री स्वरूप आनंद आर एस टी एफसीए एम-16सी कृपा कालोनी अशोक नगर, चैन्नई-600083
92.	028137	श्री अनिल कुमार के एन एफसीए I फ्लोर, साहित्य परिषद बिल्डिंग्स हॉस्पिटल रोड, कोची-682011	100.	028504	श्री विजया शेखर रेड्डी एम एसीए पी ओ बाक्स नं. 46278 गैबोरोन, बोट्सवाना
			101.	028693	श्री धिवुकला सत्यनारायणा एफसीए 7-5-113, पांडुरंगापुरम नियर आर के बीच विशाखापटनम-53003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
102.	028775	श्री संतोष कुमार यू के एसीए फाईनैस एन्ड एडमिनि. मैनेजर गुल्फ रॉक्स कं. के एस सी पी ओ बॉक्स 1981 सफाट-13020, कृवैत	111.	029673	श्री बदरीनारायणा बुल्ला एसीए बी 52 स्टील एन्ड माईन्स कॉम्प्लैक्स श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद-500873
103.	028784	श्री वेंकटेश वी एफसीए 29 देवादी स्ट्रीट माएलापोर, चैन्नई-600004	112.	029694	श्री सरमा बी वी एस एस एफसीए केयर ऑफ सेरीआह इनकम टैक्स ऑफिसर(आर) 69-17-19 एसबीआई ऑफिसर्स कालोनी राजेन्द्र नगर, काकीनाडा-533003
104.	028832	श्री श्रीधर वी एसीए नं. 122, 6 क्रॉस आर के लेआऊट, पद्मनाभा नगर, बंगलौर-560070	113.	029698	श्री मादीरेड्डी राधा कृष्णा एफसीए 1-9-25216/ए/जी-7 राम नगर, हैदराबाद-500020
105.	028844	मिस शोभा स्वामीनाथन एसीए केयर ऑफ के पी एम जी फाखरो पी ओ बॉक्स 710, मनामा बहरैन	114.	029799	श्री खिलाकम्मारी अण्णाला चारयुलु एफसीए 94 एलआईसी कालोनी अपो इंदिरा पार्क, हैदराबाद-500029
106.	029300	श्री वरधाराजन एन एसीए 10/3 ईस्ट टैंक स्क्वेयर स्ट्रीट ट्रीप्लीकेन, चैन्नई-600005	115.	029842	श्री दीपक केदिया एफसीए 23 III फ्लोर महाराजा बिल्डिंग शांथप्पा लेन, एस पी रोड क्रॉस बंगलौर-560002
107.	029372	श्री बाला प्रसाद गाटी एसीए फाईनैशियल कन्ट्रोलर, गुल्फ कन्ज्यूमर कोरपोरेशन पी ओ बॉक्स 11089 122 12 फ्लोर शेरेटॉन टॉवर्स, मनामा, बहरैन	116.	029868	श्री रवि के एसीए कन्ट्रोलर डी गैसटियन केयर ऑफ मेटल आईवरी एसए रयू डी ला पाएंट्री ऑक्स फ्यूमर्स बुदी-अबीदजन 01 बीपी 4315 अबीदजन 01 कोटे दिवोएरे, वैस्ट अफ्रीका
108.	029406	श्री श्रीनगेश रामभोटला एसीए फ्लैट नं. 101, फ्लॉट 'ई' 10 एन्ड 11 मधुरानगर हैदराबाद-500038	117.	029920	श्री सूर्या प्रकाश जी एफसीए # 11-99/1, नियर आई बी चौरासथा ओल्ड बीत बाजार, मांचीरियल-504208
109.	029430	श्री पुञ्जालला गुरुमूर्ति एसीए डि. जनरल मैनेजर-एकाउंट्स योकोगावा इंडिया लि. फ्लॉट नं. 96 इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कॉम्प्लैक्स, III क्रॉस होसुर रोड, बंगलौर-560100	118.	029954	मिस जयश्री के एसीए 273, 11 'बी' क्रॉस 14 मेन, II फेज जे पी नगर, बंगलौर-560078
110.	029587	मिस कमला के एसीए नं. 452, फर्स्ट मेन III क्रॉस एएमएस लेआऊट विद्यारै-न्यापुरा बंगलौर-560097			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
119.	032044	श्री परमेश्वरन थी एसीए फन्टोलेर - ट्रेजरी यूनाइटेड ब्रीवरिज (होल्डिंग्स) लि. थी बी एनकरेज 100/1, रघिमंड रोड, बंगलौर-560025	127.	043795	मिस रामाबालाजी एसीए # 243 स्वर्णसांड्रा कालोनी शूगर टाऊन पोस्ट मंड्या
120.	038574	श्री श्रीधर रामामूर्ति एसीए असिस. डायरेक्टर ऑफ थॉट लीडरशिप ग्लोबल इनवैस्टीगेशन्स एन्ड डिसप्यूट एडवार्सरी, अर्नस्ट एन्ड यंग सियर्स टॉबर्स 233 साऊथ वॉकर ड्राईव, चिकगो इल्लिनीएस-60606-6301 यू.एस.ए	128.	044677	श्री मुरली एस एसीए एकअट्टेस मैनेजर जैम्स - वारकी ग्रुप पी बी नं. 8607 दुबई, यू.ए.ई
121.	039248	श्री गोविंदराजन पी एफसीए न्यू नं. 3, (ओल्ड नं. 5/1) राजागोपालन I स्ट्रीट वाल्मिकी नगर, थिरुवनमियूर, चैन्नई-600041	129.	052609	श्री मुकेश गंग एफसीए फ्लैट नं. 102, सेशु विल्ला 1-2-593/7, गगन महला कालोनी हैदराबाद-500029
122.	040984	श्री रामकृष्णन श्री एसीए मैनेजर-बजटिंग एन्ड एमआईएस अला फैसलीआह ग्रुप पी बी नं. 16460, रियाध-11464 साऊदी अरेबिया	130.	053946	श्री सिपानी श्याम सुंदर एफसीए चार्टर्ड एकांटेन्ट परमेश्वरी बिल्डिंग (4फ्लोर) छत्रीबरी रोड, गुवाहाटी-781001
123.	042563	श्री रमेश के एन एसीए पी ओ बॉक्स 9353 सैन्चूरियन-0046 साऊथ अफ्रीका-1685	131.	054004	मिस अलमेलू बालसुब्रमण्यन एसीए फ्लैट नं. 3 'साईराम्स' फ्लैट फ्लोर 6 नंदानम एक्स. 4 स्ट्रीट नंदरानम, चैन्नई-600035
124.	042830	श्री श्रीधरन आर एफसीए 14 अन्नापूर्णा अपार्टमेंट्स 4-17 स्ट्रीट नंगानल्लूर, चैन्नई-600061	132.	056200	श्री सुंदर एस एसीए फ्लैट नं. 12 स्नेहा एनक्लेव स्ट्रीट नं. 4, वैस्ट भारेडपल्ली सिकंदराबाद-500026
125.	043663	श्री जयरामकर नटराजन एफसीए पी ओ बॉक्स 26649 दुबई, यू.ए.ई	133.	056629	श्री वेनुगोपालन एल एसीए प्लॉट नं. 250 नं. 1 अन्नाई मैरी I स्ट्रीट विनायकनगर, कामराजपुरम अनकापुधूर, चैन्नई-600070
126.	043779	श्री बालाजी एल एसीए नं. 264 'आशीर्वाद' 8 भेन, जे पी नगर III फेज बंगलौर-560079	134.	057113	श्री कृष्णन सदानंदन एफसीए पुरासेरी हाऊस, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट कीज़ील्लाम-683541
			135.	059882	श्री सेनगुप्ता सौमेन एसीए 34/1 एसबीएच कालोनी श्रीनगर कालोनी हैदराबाद-500783

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
136.	060305	श्री सिंघानिया विष्णु कुमार एफसीए कैप्टर ऑफ राज श्री, पूरब केबिन रोड खगारिया	144.	088561	श्री लक्ष्मी नारायणन डी एसीए प्लॉट नं. 1332 20 मेन रोड, अन्ना नगर वैस्ट चेन्नई-600040
137.	060452	श्री साराओगी अमित कुमार एसीए घाटंड एकाउंटेंट 63, राधा बाजार स्ट्रीट 3 फ्लोर, रूम नं. 17 एन्ड 18 कोलकाता-700001	145.	089408	श्री समीर शर्मा एफसीए नं. 2 100 फीट रोड तान्सी नगर, चेलावेरी चेन्नई-600042
138.	076049	श्री अग्रवाल शैलेश कुमार एसीए ए-806 पूर्वा हाईट्स बैनरगुडा रोड, विल्लेकहाल्ली बंगलौर-560076	146.	093291	श्री गणपतिराजू कौसल्यादेवी एसीए 3650, कानेफ क्रैसेन्ट स्यूट 2103, मिस्सीसीगा ओन्टेरिओ-एलडए 4ए1 कनाडा
139.	077404	श्री गांधी चन्स्याम एसीए एच नं. 363, ब्लॉक बी-16 केन्द्रीय विहार, 92 महाकाली केक्स रोड अंबेरी (ईस्ट) मुम्बई-400093	147.	200070	श्री मोन्सी थॉमस मैथ्यू एसीए फार्निसियल कन्ट्रोलर पैन अफ्रीक कोमोडिटीज लि. पी ओ बाक्स 24157 कम्पला, युगान्डा
140.	078011	श्री अग्रवाल प्रबोध एसीए टाटा कॉफी लिमिटेड 201 ऑक्सफोर्ड प्लाज़ा 9-1-129/1 एस डी रोड सिकंदराबाद-500003	148.	200400	मिस ऑडरे मिलर एफसीए सी-1 यूकेलिपटस अपार्ट्स अमृता वेली, रोड नं. 12 बंगारा हिल्स, हैदराबाद-500034
141.	078239	मिस मृगलपानी नम्रता एसीए 101 चैम्प कृंज 4-2-1069 रामकोटे हैदराबाद-500001	149.	200401	श्री बालाजी जी वी एफसीए 4/2 वैकाकरन स्ट्रीट वेपेरी, चेन्नई-600007
142.	080358	श्री अजय भटनागर एफसीए आंध्रा बैंक, प्लॉट नं. 74, सेक्टर 17, बारी नवी मुम्बई	150.	200650	श्री सुंदर ए रूड्रीग्यूज एफसीए 7 यर्ड लेन, ओल्ड कृयावारपलायम मदुरई-625009
143.	083602	श्री रमानी जे वी एफसीए पाल्म सिंग्स अपार्टमेंट्स 7 गो 1, 16 मेन, 7 सी क्रॉस 4-बी ब्लॉक, कोरोमंगला बंगलौर-560034	151.	200713	श्री पीटर दीपक कैसलिनो एसीए सिनीयर मैनेजर डिलोएट्टे एन्ड टच 1750, टाएसन्स बौलेवार्ड एमक्लीन वरजीनिया-22102, यू.एस.ए

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
152.	200721	श्री बास्कर ई एसीए नं. 6/9 गांधी नगर 4 स्ट्रीट, गांधी नगर पोस्ट तिरुपुर-641603	160.	201553	श्री इरशाद अहमद पाशा के एसीए एकाउंटेंट यूनाइटेड ट्रांसफॉर्मर्स इलेक्ट्रिक कं. पी ओ बाक्स 385, रियाध-11383, कोएसए
153.	200906	श्री सैल्वा राठा कृष्णन सी एसीए गोल्ड एन्ड सिल्वर ट्रेडिंग कं. फर्स्ट फ्लोर, श्रीधर कॉम्प्लैक्स 123/3 टाऊन रेलवे स्टेशन रोड सलेम-636001	161.	201566	श्री वेंकटरमन जी एसीए 11 मेन स्ट्रीट, श्रीनिवास नगर घिटलापक्कम चेन्नई-600064
154.	200925	श्री रविचन्द्रन एन आर एसीए जनरल मैनेजर (फाइनेंस) वाई एफसी एन्ड एलआईड प्रोडक्ट्स लि. आई-एस रोड, ईट मैथ्यापुट, ए मुआंग क्रैयुंग, थाईलैण्ड	162.	201595	श्री रवि शंकर बी के एसीए # 52 श्रीवाक्सा 35 मेन बीटीएम लेआउट II स्टेज बंगलौर-560068
155.	200941	श्री श्रीधर एल एफसीए इंटरनल ऑडिटर रॉफी रियल स्टेट्स एलएलसी पी ओ बाक्स नं. 2375 दुबई, यू.ए.ई	163.	201614	मिस चित्रा एल. एसीए टीम लीडर - फाइनेंस बैकको स्टैंडर्ड ट्रेन सा पी ओ बाक्स 5810 शारजाह, यूएई
156.	200960	श्री गोविंदराजन एस एफसीए 1, फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट बुंदावन एक्स., वेस्ट मैम्बलम, चेन्नई-600033	164.	201627	श्री रघुवीरा कामथ एसीए 29/20, गोल्डन नैस्ट फ्लैट # 203, ऑफ होसुर रोड अड्डोदी, बंगलौर-560030
157.	200965	श्री चक्रपानी एस एसीए मैनेजर - फाइनेंस द इंडिया सिमेंट्स लि. 827, अन्ना सलाई चेन्नई-600002	165.	201702	मिस प्रभा दुरायराजन एसीए नं. 120 चैमियर्स रोड नंदरानम चेन्नई-600035
158.	201187	श्री विद्याम्बरा रॉव कोट्टा एफसीए डी/नं. 48-10-42 1 फ्लोर श्रीनगर, अपो: आर टी सी कॉम्प्लैक्स विशाखापटनम-530016	166.	201811	श्री टैंकसालीशामराज हेमड्रेपा एसीए नं. 115 6 मेन एम सी लेआउट बिहाइंड गायत्री हॉस्पिटल विजय नगर, बंगलौर-560040
159.	201495	श्री कल्याणरमन आर एसीए नं. 10/11 ईश्वर्या अपार्टमेंट्स 12 स्ट्रीट 2 मेन रोड नंगनल्लूर, चेन्नई-600061	167.	202158	श्री सुब्रमण्या सुरेश पी पी एफसीए 236 'महालक्ष्मी मंदिर' दोषी हाऊसिंग, 39 जस्टिस राठीनवेल पडियन स्ट्रीट मागाप्पायर, चेन्नई-600107



क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
168.	202221	श्री श्रीनिवास सिसटाला एफसीए फाइनेंस मैनेजर भोक्कपन इंस्टिट्यूट लि. 1-10-60/3 सुवोदया वेगमपेट, हैदराबाद-500016	176.	202994	श्री बालाजी महेशबधे के एफसीए नं. 90-ए III क्रॉस एलआईसी कालोनी III ब्लॉक, जयनगर बंगलौर-560011
169.	202282	श्री वरदराजन टी के एसीए डोर नं. 29 18 एवेन्यू फ्लैट नं. 4 I फ्लोर अशोक नगर, चैन्नई-600083	177.	203003	श्री सेल्वामानी के पी एल एफसीए फाइनेंस मैनेजर मेगा मारमेट इंस्टिट्यूट ईपी2 कैन्या लि. पी ओ वाक्स 41673 मोम्बासा, कैन्या
170.	202333	श्री पट्टराजन मारायणस्वामी एसीए न्यू नं. आर-1 (ओल्ड नं. आर-64) 12 स्ट्रीट, अन्न नगर चैन्नई-600040	178.	203186	श्री अशोक कुमार सुराना एफसीए फ्लैट नं. 102 'नाव्या नेस्ट' अपार्टमेंट्स 27 मेन, 3 क्रॉस अश्विनी लेआउट इजीपुरा (नैक्स्ट टू बीथेल चर्च) बंगलौर-560047
171.	202472	श्री वैकटेश बाबू टी एसीए फाइनेंस मैनेजर लिम्बकवे रिजिडिंग होलिडेन्स लिमिटेड टी/ए सफमैराइन लिम्बकवे 5 फ्लोर रैड सिज, इस्ट गेट 3 स्ट्रीट पी ओ वाक्स 2089 हरारे, लिम्बकवे	179.	203356	श्री विजया कुमार एम एसीए सिनीयर मैनेजर - फाइनेंस एमफेसिस बीएफएल लिमिटेड 139/1 होसुर रोड कोरामंगला, बंगलौर-560095
172.	202504	श्री जोसेफ एम एम एफसीए स्ट्रीट जॉर्ज बिल्डिंग पुलिकारुक्वाला पी ओ कोडुयम डिस्ट्रिक्ट कण्णूर-686515	180.	203450	श्री रविचन्द्रन टी एफसीए नं. 66, फर्स्ट मेन रोड फर्स्ट फ्लोर, नंगानल्लूर चैन्नई-600061
173.	202912	श्री गोपाला कृष्णन एन एफसीए फ्लैट # 2, ग्राउंड फ्लोर अमर अपार्टमेंट्स, टीघर्स कालोनी इस्ट मारेडपल्ली सिकंदराबाद-500026	181.	203511	श्री गणपति वी एसीए केयर ऑफ श्री चेश्वरन एफ-5, श्री साईराम विला नं. 1, कावेरी स्ट्रीट सालीग्रामम, चैन्नई-600093
174.	202945	श्री रवि शंकर जी वी एसीए नं. 1931, 'अंजनाद्री' 20 मेन 5 क्रॉस जे पी नगर II फेज बंगलौर-560078	182.	203530	श्री विश्वनाथ रेड्डी एम एसीए फाइनेंस मैनेजर पोकारना लि. 105, I फ्लोर, सूर्या टॉवर्स एस पी रोड, सिकंदराबाद-500003
175.	202985	श्री सुंदरा राजन पी वी एफसीए नं. 3, 7 स्ट्रीट शांति नगर, चैन्नई-600088	183.	203547	श्री राधाकृष्णन आर एफसीए न्यू नं. 8, कोनेडी सैकंड स्ट्रीट भाएलापोर, चैन्नई-600004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
184.	203683	श्री सुरेश बाबू ए एसीए 3ए सीशैल्स अपार्टमेंट्स 10 बीच रोड, कालक्षेत्र कालोनी बेसंत नगर, चैन्नई-600090	192.	204540	श्री सुदर्शन रॉय के एसीए एच नं. 3-2-82718 'संतोषी निवास' चप्पल बाजार काचीगुडा, हैदराबाद-500060
185.	203920	श्री हरिकृष्णन टी वी एफसीए "नंदानम" वीयापुरम रोड नियर टाऊन हॉल जंक्शन हरिपद पी ओ-690514	193.	204619	श्री नागराजन पी एसीए पी ओ बाक्स 7275 दुबई, यू.ए.ई
186.	204093	श्री रघु कुमार चुंदी एफसीए 11-3-2, ई-5, प्रियारीवीरा अपार्ट्स वीट. हॉस्पिटल रोड रामारॉव पेट कार्कीनाडा-533004	194.	204634	श्री बालचन्द्र एम जे एसीए 16 डा. एम वी जयरमन रोड वसंत नगर, बंगलौर-560052
187.	204188	श्री पीटर बलेवरसालदान्हा एफसीए 9 मार्को अपार्टमेंट्स 8-10 कैनसिंगटन रोड बंगलौर-560042	195.	204680	श्री श्रीधर एस एसीए 13 संथनाक्कुणा स्ट्रीट नेहरू नगर, चैन्नई-600044
188.	204405	श्री मल्लाजी एम एसीए सीए मैनेजर - जीएफआईसी ओरेकल इंडिया प्राइवेट लि. बैनरघाटा रोड, बंगलौर-560076	196.	204807	मिस प्रिया कृष्णा श्रीनिवासन एसीए 27 व्यासर स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017
189.	204458	श्री चिन्मया गौडा वी एफसीए सीए नं. 210 II फ्लोर कॉमर्स हाऊस, कनिंघम रोड, बंगलौर-560052	197.	204921	मिस रेवती कुमार एसीए प्लॉट नं. 6, 13 मेन रोड 5 क्रॉस स्ट्रीट विजयानगर, वेलाचेरी चैन्नई-600042
190.	204464	श्री इम्मेन्यूअल क्लीमेंट्स सी एफसीए फर्स्ट फ्लोर, नं. 5 कृष्णमट कॉम्प्लेक्स 700 पूनमल्ली हाई रोड अमीन्जीकराई चैन्नई-600029	198.	204939	श्री महालिंगम एम एसीए नं. 4/228, गांधी स्ट्रीट एमए नगर, चैन्नई-600052
191.	204521	मिस सूशीला काट्टा एफसीए फ्लैट नं. 102 शिवासाई प्रमुख निलायम एच नं. 2-73/1 रोड नं. 9 साईनगर, चैतन्यापुरी हैदराबाद-500060	199.	204960	श्री स्वामीनाथन आर एसीए 45, श्रीनिवास अईयर स्ट्रीट वैस्ट मैम्बलम, चैन्नई-600033
			200.	205020	श्री दयाकर रेड्डी पी एफसीए 23/827-3 सैकंड फ्लोर अपस्टेयर स्मार्टल डेन्टल हॉस्पिटल रामेशरेड्डी नगर, नैल्लोर-524003
			201.	205082	श्री बालाजी आर एफसीए वालीडेशन ऑडिटर /कन्सल्टेंट आरबर ग्रुप एलाएलसी स्युट 2020 500 वैस्ट मॉरो स्ट्रीट चिकागो, इल्लिनीनेस-60661, यू.एस.ए

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
202.	205134	श्री रामकुमार ए पी एसीए मैनेजर कोस्टिंग एन्ड प्राइसिंग टाइको इलेक्ट्रॉनिक्स कोरप. इंडिया (प्रा) लि. 'टी पार्क' 228 डोडनेकंदी 2 फेज इंडस्ट्रियल एरिया, चाईटफील्ड रोड बंगलौर-560048	209.	205792	श्री नरसिम्हा शेनोए के एसीए एस-305, मगन सिलवर हिल नं. 80 नायडूस लेआऊट चिक्कालासैड्रा बानाशंकरा 3 स्टेज बंगलौर-560061
203.	205175	मिस प्रसन्ना के एसीए नं. 20 नॉर्थ उस्मान रोड बी - ब्लॉक, टी नगर चेन्नई-600017	210.	205823	श्री अजय अग्रवाल एसीए आर-45 गोल्डन अनक्लेव एयरपोर्ट रोड, बंगलौर-560017
204.	205258	श्री कृष्णामूर्ति जी एस एसीए 32/5, महादेवन स्ट्रीट वैस्ट मैम्बलम चेन्नई-600033	211.	205825	श्री ललित कुमार रखेचा एसीए केयर ऑफ सेफ्टीलाईन सेल्स कोरपोरेशन रॉयल कॉम्प्लैक्स II फ्लोर न्यू नं. 232, पाईक्रोफ्ट्स रोड रोयापोत्ताह (नियर बाई ब्लॉक टॉवर) चेन्नई-600014
205.	205517	श्री अरुणकुमार नाथ एसीए मैनेजर - फाईनैस इंडियन रेयान एन्ड इंडस्ट्रिज लि. मद्रा गारमेंट्स डिवीजन 60/1 श्री नारायणा थिलिडिंग यूनिवर्सल कम्पाउंड कोदी चिक्कानाहल्ली रोड बोम्बेनाहल्ली, बंगलौर-560068	212.	205894	श्री आनंद बालकृष्णन एसीए कनसल्टेंट इनफोसिस टैकनॉलोजिस लि. सिनीयर नं. 210, मणिकोन्डा विलेज लिंगमपेल्ली रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट हेदराबाद-500019
206.	205630	श्री जयचन्द्रन वी एसीए फ्लैट नं. 06, प्रशांत अपार्टमेंट फ्लॉट नं. 41, आई. पी. एक्सटेंशन पटपरगंज, न्यू दिल्ली-110092	213.	205909	श्री वैकटसुब्रमण्यन आर एसीए नं. 2, गांधी स्ट्रीट चितलापक्कम, टैम्बरम, चेन्नई-600064
207.	205663	श्री गणेश टी एसीए मैनेजर फाईनैस बैंक मुसकैट - फाईनैस डिवीजन पी ओ बाक्स 134 पोस्टल कोड 112 रुवी, सलतनत ऑफ ओमन	214.	205969	श्री प्रकाश के एसीए 101, 102 ब्लॉक VI स्काईलाईन सिटी अपार्टमेंट पी ओ नागरभारी, बंगलौर-560072
208.	205759	श्री राम कृष्ण बी वी एसीए नं. 32, 'सुमंख' 1 क्रॉस, 4 मेन वैकटम्मा रमैआह कालोनी एचएमटी मेन रोड, मैथीकेरी बंगलौर-560054	215.	206001	श्री वैकट्य साई प्रसाद कोप्योलू एसीए वैकट साई निलायम फ्लॉट # 159 वसंत नगर कालोनी नैक्स्ट टू जेएनटीयू, केपीएचबी हेदराबाद-500072
			216.	206072	श्री बिनाए मोहन एसीए सेरुसिलियन इनफर्मेशन टैकनॉलोजी प्रा. लि., 374 1 क्रॉस सारजापुर रोड 3 ब्लॉक कोरामंगला, बंगलौर-560034

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
217.	206220	श्री भूपतिराजू रामा गोपाल एसीए 4308 अवालॉन सीटी ओकलाहोमा सिटी ओकलाहोमा-ओके-73120 यू.एस.ए	225.	206635	श्री वैकट नरसिंहा शास्त्री आर्टएफसीए 102 अकशीतेजा स्टेट एच नं. 334/2आरटी डी नं. 10-2-289/12/32 पी एस नगर, मासब टैंक हैदराबाद-500057
218.	206273	श्री श्रीनिवासन एन एस एसीए ए/11 मिन अपार्टमेंट्स न्यू नं. 45 (ओल्ड नं. 18) न्यू बोग रोड, टी नगर चैन्नई-600017	226.	206638	श्री सुरवरायू श्रीनिवास एसीए 811, राधक रतना टॉवर्स धिराग अलि लेन अबीदूस, हैदराबाद-500001
219.	206324	श्री संजीव ए एफसीए 1004 ए-बिंग, 10 फ्लोर मिस्सल टॉवर्स, एम जी रोड बंगलौर-560001	227.	206713	श्री जीवना सुब्बाराव गुप्ता टी एसीए 19-डी नवीन अपार्टमेंट्स स्टेट बैंक कालोनी तिरुपुर-641602
220.	206326	श्री विशाल जैन आर एसीए नं. 9डी 1 लेन कारनीस्वरा कोएल स्ट्रीट चैन्नई-600004	228.	206767	श्री सुभाष जी एसीए डि. जनरल मैनेजर - फार्मिस आईडीएम ग्लोबल सर्विसिज इन्डिया प्रा. लि. 3 फ्लोर, एम्बेसी गुरुफ लिंकस ऑफ : फोरामंगला इंदिरानगर रिंग रोड बंगलौर-560071
221.	206504	श्री साई गणेश के एसीए डिप्टी मैनेजर - फार्मिस फोर्ड इंडिया लिमिटेड बाया एस पी कोएल पोस्ट बेंगलूर-603204	229.	206806	श्री अनुराग सक्सेना एसीए घार्टर्ड एकाउंटेंट केयर ऑफ श्री जी कृष्णामूर्ति एमआईजी -36, सॉसन्स के कालोनी पद्म वास्टायर धिराखापटनम-530017
222.	206519	श्री गोपाला कृष्णन के एफसीए न्यू नं. 30 (ओल्ड नं. 15) पुल्लु एवेन्यू, शेनॉए नगर चैन्नई-600030	230.	206919	मिस रुचिगुप्ता एसीए जीई इंटरनेशनल ओपरेरन्स सेन्टर ऐफाक्स बिल्डिंग, 1 रुफि मार्ग न्यू दिल्ली
223.	206617	मिस बल्ली वी एस एफसीए टी-1 रामोस बालाजी अपार्ट भारद्वाज स्ट्रीट इस्ट टैम्बरम, चैन्नई-600059	231.	206922	मिस सुधा कालचन्द्रन एसीए 54, सी आर लेआऊट जे पी नगर, बंगलौर-560078
224.	206621	श्री रामानुजन एन एसीए फार्मिस मैनेजर रिजाया ट्रेडिंग कं. लि. पी ओ बाक्स 90 अल खोबर-31952 साऊदी अरेबिया	232.	206956	मिस अश्विनी दलीप आपटे एसीए 20/20, गोल्डन नैस्ट फ्लैट # 203 अरुगोदी बंगलौर-560030

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
233.	206957	श्री साम्ब शिवा रॉय एस एफसीए फ्लैट नं. क्यू-26 I फ्लोर भारती कॉम्प्लेक्स मिनिस्टर रोड, सिकंदराबाद-500003	242.	207429	श्री स्वामीनाथन जे एसीए 7 श्री भंज अपार्टमेंट 108 रोयलपेसाह हाई रोड, माएल्लपोर, चैन्नई-600004
234.	206996	मिस पेममाराजू सारदा देवी एसीए फ्लैट नं. 778, वसंत नगर हैदराबाद-500072	243.	207432	श्री मुकुंद के सी एसीए न्यू नं. 177 (ओल्ड नं. 87) कुचेरी रोड, विनायक नगर, माएल्लपोर, चैन्नई-600004
235.	207008	श्री राजीव चटर्जी एफसीए सोनिवा फुरी रिजोर्ट एन्ड सिक्स सैन्सिस एसपीए कोचर ऑफ बनी होलिडिंग्स (बीवीआई) लि. 4/3 फ्लाम्बुचेवरी मागु, मेल रिपब्लिक ऑफ मारालीयस	244.	207445	श्री कार्तिक एन एसीए मैनेजर - फार्निस एन्ड एकाउंटेंट्स विश्वे टेक्नोलॉजिस दरुवा कम्प्लेक्स, सारजापुर रोड बंगलौर-560035
236.	207047	श्री काशीराजन एम एसीए न्यू नं. 8 (ओल्ड नं. 10) III क्रॉस स्ट्रीट डॉ. सीतारामि नगर, बेल्लचेरी चैन्नई-600042	245.	207502	श्री मणिमूर्धरम एस वी एसीए डी-107/सी संगीता कालोनी को को नगर, चैन्नई-600078
237.	207075	श्री ईम्मादी रवि कुमार एसीए आई-37 प्रभास नगर वैराप्पापुरी हैदराबाद-500060	246.	207517	मिस रुक्मिणी आर एसीए नं. 29, 18 एवेन्यू कनकावल्ली अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 4, 1 फ्लोर अशोक नगर, चैन्नई-600083
238.	207084	श्री हेमंत प्रकाश रेड्डी के एसीए नं. 401, 1 श्री मेन डोमनूर लेआउट बंगलौर-560071	247.	207518	श्री गोपी रमण एस एसीए एल-67 7 मेन रोड सेक्टर X, जीवन बीमा नगर बंगलौर-560075
239.	207141	श्री कृष्णन आर सी एफसीए फ्लैट नं. 17, 4 क्रॉस स्ट्रीट कन्नसेखरन एवेन्यू कोरायपक्कम, चैन्नई-600096	248.	207580	मिस लक्ष्मण वी आर एसीए मैनेजमेंट एकाउंटेंट मै. गुरुक बारटिज़ लि. पी ओ बॉक्स 5209 दुबई, यू.ए.ई
240.	207418	श्री सामीमॉन पी ए एफसीए # 101 पैलेस व्यू अपार्टमेंट्स 1 फ्लोर, 14 जयमहल रोड बैनसन टाऊन बंगलौर-560046	249.	207605	श्री जॉर्ज रेशमिन करायथ एसीए मैनेजर-फार्निस एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन मॉल (यूएई) एलएलसी पी ओ बॉक्स 290 दुबई, यू.ए.ई.
241.	207428	मिस आरती आर एसीए 13 अशोकन रोड अल्वरपेट, चैन्नई-600018	250.	207830	श्री नारायण एस एसीए फार्निस मैनेजर पोलीबिट इंडस्ट्रिज़ लि. पी ओ बॉक्स 293 उम्म अल क्यूवैन, यूएई

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
251.	207888	श्री शिवारामकृष्णन टी पी एसीए 88 2 मेन 5 क्रॉस सरवोभौमा नगर, चिक्कल्लारसैड्रा बंगलौर-560061	260.	208618	श्री बेस्लाला सुरेश कुमार एसीए डी नं. 3373 2 क्रॉस 7 मेन आर पी सी लेआऊट विजयानगर 2 स्टेज बंगलौर-560040
252.	207928	श्री रविचन्द्रन एस एस एफसीए 24 गंगा नगर 1 स्ट्रीट II फ्लोर, अवनाशी रोड तिरुपुर-641602	261.	208764	श्री प्रवीण कुमार के एसीए किबोको ग्रुप ऑफ कम्पनिज़ प्लॉट नं. 2, बोम्बो रोड पी ओ बाक्स नं. 31376 कम्पल्ला, यूगांडा
253.	208040	श्री श्रीराम जी एसीए 146/2, लोकव्यू रोड वैस्ट मैम्बलम चेन्नई-600033	262.	208819	श्री सदाशिव भारकाला एच एफसीए नं. 34 फर्स्ट फ्लोर 4 क्रॉस, 3 मेन हनुमांता नगर बंगलौर-560019
254.	208064	श्री कृष्णा कुमार एस एसीए 5 रामानुजम स्ट्रीट श्रीनिवास नगर, पेरुगुलाथर चेन्नई-600063	263.	208872	श्री वैकट केशव पिल्लार्ई एस एसीए 3/79 महालक्ष्मी, सैन्ट्रल स्ट्रीट एराचाकुलम नागेरकोएल-629902
255.	208097	श्री बोग्गारापु विनोद कुमार एसीए प्लॉट नं. 26, लक्ष्मी नारायण नगर रिंग रोड अनकापल्ली-531001	264.	208904	श्री सतीष वी एसीए फार्नैशियल अनालिस्ट मै. ह्यूलेट पैकार्ड इंडिया प्रा. लि. 24 सालारपुरिया अरीना शहोसुर मेन रोड, अड्डादी बंगलौर-560030
256.	208324	मिस नीलेश जैन एफसीए वाईफ ऑफ प्रकाश चंद जैन डी744/10 डीआरडीओ टाऊनशिप(लैबक्वाटर्स) पी ओ कंचनबाग हैदराबाद-500058	265.	208954	श्री नगराजन आर एसीए एफ-15, के जी प्लाज़ा 41, जी पी रोड, चेन्नई-600002
257.	208507	श्री विजया कुमार शाकामुरी एसीए फ्लैट नं 104 महामूड अपार्टमेंट्स यूसुफगुडा चैक पोस्ट यूसुफगुडा, हैदराबाद-500045	266.	208959	श्री गजापति पी एसीए नं. 3 सैकंड क्रॉस रोड रेनबो नगर पॉन्डीचेरी-605011
258.	208541	श्री गंडीकोटा विद्याधर एसीए 900 वैस्ट ग्रोव पीकेडबल्यू वार्ड अपार्ट # 3014 टैम्पे, अरीज़ोना, यू.एस.ए	267.	209034	श्री प्रशांत एम शाह एसीए रिच्युअल अपार्टमेंट्स # 25 II फ्लोर 14 ए क्रॉस बिहाइंड क्लूनी कॉन्वेंट स्कूल मल्लेश्वरम, बंगलौर-560003
259.	208604	श्री मुबारक अलि एम के एफसीए पी ओ बाक्स 3600 अबु धाबी, यू.ए.ई.			

क्र. सं.	एम. आर. एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम. आर. एन.	सदस्य का नाम व पता
268.	209061	श्री श्रीनिवासन एस अर्हयर एसीए नं. 1 डबल स्ट्रीट शोलावंदन मदुरई-625214	277.	209694	श्री चन्द्रशेखर उडूपा ए एफसीए #34 1 फ्लोर, 4 क्रॉस 3 मेन, हनुमंथा नगर बंगलौर-560019
269.	209110	श्री राम पवन कुमार मेलम एफसीए फ्लैट नं. 303 सिद्ध रेजीडेन्सी 5-9-42/2 हिल फोर्ट स्ट्रीट नं. 2 बशीरबाग, हैदराबाद-500063	278.	209736	मिस धनलक्ष्मी जी एसीए ए 2-103 सोधा ओपल 4 'टी' ब्लॉक, 39 क्रॉस जयनगर, बंगलौर-560041
270.	209137	श्री रामचन्द्रा पार्थ टी वी एसीए नं. 7 1 क्रॉस रोड नेहरू नगर, बंगलौर-560020	279.	209820	श्री संकरानारायणन एस एसीए फार्मैशियल अनालिस्ट वैबको स्टैंडर्ड ट्रेन एसए पी ओ बॉक्स 27279 शास्त्राह, यू.ए.ई
271.	209144	श्री राजकुमार पी एसीए वायरफोर्म ए एन थार्डलैण्ड कं. लि. नं. 60/47 नवनअखोर्न इंडस्ट्रियल स्टेट स्टेज 2 फाहोलावोविन रोड क्लांग ल्यूआंग पायूम्याई, थार्डलैण्ड-12120	280.	209881	श्री आसु देवा रॉय पी एसीए एच नं. 2-8-173, मुकारामपुरा (अपस्टेयर्स) फर्स्ट फ्लोर, करीमनगर-505001
272.	209155	श्री सुरेश कुमार आर एसीए ब्लॉक 'बी', फ्लैट 'सी' शिवारंजानी अपार्टमेंट्स 57-बी, कार्तिकापुरम मादीपक्कम, चेन्नई-600091	281.	209957	मिस मैरीअम्मा अजी जॉर्ज एसीए केयर ऑफ श्री अजी जॉर्ज वारधीज अला गार्ग इलेक्ट्रानिक्स (प्रोजेक्ट्स डिवीजन) पी ओ बॉक्स 325, दुबई, यू.ए.ई.
273.	209228	श्री बालासुब्रमण्यन आर एसीए 75 धनप्पा मुदली स्ट्रीट मदुरई-625001	282.	210197	श्री चन्द्रकांत वैकटेश रॉयकर एसीए नं. 2110 फर्स्ट फ्लोर 14 मेन रोड, 9 क्रॉस एच ए एल थर्ड स्टेज कोदीहल्ली, बंगलौर-560008
274.	209252	मिस अनंथी अमरनाथ एसीए एफए, 3 ब्लॉक, जैन्स अशाराया वैम्बुलियाम्मन कोएल स्ट्रीट के के नगर (वेस्ट), चेन्नई-600078	283.	210220	श्री नरसिंहा श्रीवात्सा पिल्लूटला एसीए असिस. मैनेजर (एफ एन्ड ए) शां वैलेस डिस्ट्रीलरिज लि. 73-1 सेक्टर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल-462023
275.	209285	श्री साबू सी एस एसीए फार्मैशियल कन्ट्रोलर नार्थल पार्थ फिशरिज लि. पी ओ बॉक्स 1753, म्वांजा, तनजावनिया	284.	210309	श्री सत्यनारायणा बाबू एसीए जी-101, श्रीसाई दत्ता अपार्टमेंट्स श्रीनिवास कालोनी ईस्ट, अमीरपेट, हैदराबाद-500038
276.	209537	श्री सुधाकर आर एसीए न्यु नं. 11, (ओल्ड नं. 5/1) फर्स्ट फ्लोर, वेस्ट मैम्बलम चेन्नई-600033			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
285.	210336	श्री नागराजबाबू एन एसीए फ्लैट नं. 4 फेसन अपार्टमेंट्स फ्लॉट नं. 7-1-29, लीला नगर अमीरपेट, हैदराबाद-500016	294.	211140	श्री बालाजी बी एसीए श्री बी के राववन ए-28 सिल लेआउट 1 ए मेन रोड आरएमवी II स्टेज बंगलौर-560094
286.	210379	मिस हेमलता सी एसीए 31/2, डोर नं. जी-3 रामासेनी स्ट्रीट राधानगर, ब्रगेपेट, चैन्नई-600044	295.	211204	श्री दीपांजन बंधोपाध्याय एसीए 203, ज्योति रेजीडेंसी 1 क्रॉस, खगादासपुरा बंगलौर-560093
287.	210454	श्री उदयप्पन रूस मी एसीए 455 विवेकानंद रोड रामनगर, कोएंबतोर-641009	296.	211327	मिस प्रिया नागराजन एसीए 96-ए, कासा पेरनाडू 3 फ्लोर, 15 रोड टीपीएस III बांद्रा (डबल्यू), मुम्बई-400051
288.	210482	श्री रवि किरन सी एसीए फ्लैट नं. 302, फ्लॉट नं. 22 श्री सत्यम रेजीडेंसी जनकपुरी, सिकंदराबाद-500009	297.	211620	श्री घासुदेवा रोनाॅ एम एसीए फाईनॅस मैनेजर मेगा प्रोडक्ट्स लिमिटेड 35 जियाबट, हनोई वियतनाम
289.	210516	श्री गुरुमूर्ति आर एसीए 27 'रागम' 8 मेन (बिटवीन 9 एन्ड 11 क्रॉस) मल्लेश्वरम, बंगलौर-560003	298.	211887	श्री साध शेषा नारायणन आर एसीए न्यू नं. 11 ओल्ड नं. 9 1 फ्लोर, सम्बासीवम स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017
290.	210611	श्री श्रीनिवासुलु आर एसीए कोर्ट स्ट्रीट नैल्लोर डिस्ट्रिक्ट, चैकटागिरी-524132	299.	212349	श्री अजीजुल्ला शाफी रोक एसीए न्यू नं. 85 (ओल्ड नं. 42) धीन स्टेट, III फ्लोर मोरे स्ट्रीट, पैरिज़ चैन्नई-600001
291.	210612	श्री कृष्णा कुमार बेंग एसीए 1-3-176/सी/15 गांधी नगर हैदराबाद-500080	300.	212448	श्री रामकृष्णा चौधरी एम एसीए वैन्दूरु, रायावरम मंडलम ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट रामचन्द्रपुरम-533255
292.	210697	श्री जयचन्द्रन वी आर एसीए इंटरनल ऑडिटर लूलू हार्बर मार्केट ट्रेडिंग कं. डबल्यूएलएल पी बी नं. 9763 चोहा, कतर	301.	212454	मिस सरीना सारा जेकब एसीए असिसटेंट मैनेजर सिटी बैंक 1 फ्लोर कार्डस पीपीयू 2 क्लब हाऊस रोड चैन्नई-600002
293.	210922	श्री सूर्या प्रकाश बी एस एसीए फ्लॉट नं. 39/40, डिजीटल पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, फेज II होसूर रोड बंगलौर-560100			



क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
302.	212496	श्री अर्जुन सारथी आर एस एसीए न्यूसू नं. 6/3 (ओल्ड नं. 35/3) नीलकण्ठ मेहता स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017	306.	212835	मिस कैरमेल कैरोलीन रॉयन एसीए नं. 9 कम्मानहल्ली थॉमस टाऊन, बंगलौर-560084
303.	212524	श्री राजवीर सिंह एसीए 5ए, ब्लॉक1 फैन्सिस बृंदावन अपार्ट्स 135, पुनमल्ली हाई रोड किलोपीक, चैन्नई-600010	307.	212862	मिस नलीना रांका एसीए नं. 32/1 सिरी, 3 क्रॉस 10 मेन, गुरुराजा लेआऊट 7 ब्लॉक, 4 फेज बानारांरी 3 स्टेज बंगलौर-560085
304.	212578	मिस अरुणा रंगनाथन एसीए 75 सैन्चुरी प्लाजा 560-561 अन्ना सलाई तेयनामपेट, चैन्नई-600018	308.	212876	श्री माचीराजू रमेश एसीए प्लॉट नं. 191 फ्लैट नं. 301 शिवास कल्याणी रेजीडेंसी कल्याण नगर चैन्नई-3 हैदराबाद-500018
305.	212583	मिस महालक्ष्मी बी एस एससीए टी-1, थर्ड फ्लोर रॉक्स बालाजी अपार्ट्स भारद्वाज स्ट्रीट, ईस्ट टेम्बरम चैन्नई-600059	309.	212963	श्री श्रीनिवास रेड्डी एसीए टीम लीडर - बी पी कैमीकल्स आईबीएम ग्लोबल सर्विसिज (पी) लि. 4 फ्लोर, 'एक्सप्लोरर' ब्लॉक आई टी पी एल, वाईटफील्ड रोड बंगलौर-560066

डा. अशोक हल्दिद्या  
सचिव

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 2006

संशोधन

सं. ए-12/11/1/98-चि. 4--

क.रा.बी.अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा 2(क) के साथ पठित उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क.रा.बी.निगम में ग्रुप "ग" एवं "घ" (पॅरा-चिकित्सा) पदों के भर्ती विनियमों (भारत के राजपत्र संख्या 27 के भाग-3 के खण्ड-4 दिनांक 02.07.77 में अधिसूचना संख्या 1(1)3/72-स्था.1(भाग.2) दिनांक 15.06.1977 द्वारा प्रकाशित ) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

**मद संख्या 14 विभागीय पदोन्नति समिति का गठन**

मौजूदा व्यवस्था		अब प्रतिस्थापित	
1. निदेशक(चिकित्सा)दिल्ली	-अध्यक्ष	निदेशक/चि.अधीक्षक	-अध्यक्ष
2. उप चिकित्सा अधीक्षक (केन्द्रीय सरकारी अस्पताल से नामित बाहरी व्यक्ति)	सदस्य	उप चिकित्सा अधीक्षक (केन्द्रीय सरकारी/राज्य सरकारी अस्पताल से बाहरी नामिती )	-सदस्य
3. नर्सिंग अधीक्षक	सदस्य	नर्सिंग अधीक्षक/नर्सिंग स्कूल का प्रधानाध्यापक/समकक्ष	-सदस्य

निदेशक(चिकित्सा)दिल्ली नौएरा सहित दिल्ली के क.रा.बी.अस्पतालों में तैनात ग्रुप "ग" एवं "घ" (पॅरा चिकित्सा) स्टाफ की पदोन्नति पर विचार करने हेतु आयोजित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे ।

रमेश इन्द्रसिंह  
महानिदेशक

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 2006

संख्या: यू.16/53/1/2004/आ.प्र./पी.टी.एम.आर./चि.2 : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. एम.चिरंजीवी राव, एम.बी.बी.एस. (एम.एस.) अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 23.6.2006 से 22.6.2007 तक एक वर्ष की अवधि के लिए राजकीय चिकित्सा आयुक्त, हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश द्वारा निर्धारित सिरपुर-कागजनगर के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डा. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 18 सितम्बर 2006

संख्या: यू.16/53/2001/चि.2(केरल) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, कर्नाटक द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डॉ. आर. नवीन कुमार	18.8.2006 से 17.8.2007	त्रिचूर/पालककाड

डा. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

संख्या: एन-15/13/14/17/1992-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 सितम्बर, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954** में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **चैन्नई** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

केन्द्र का नाम  
केलम्बाक्कम

काँचीपुरम ज़िला में चेंगलपट्टु  
तालुक के

1. चेम्मन्चेरी
2. नावलूर
3. इगाट्टर
4. कषिपुत्तूर
5. केलम्बाक्कम
6. पडुर
7. तैयूर
8. इडयान कुप्पम
9. आलत्तूर
10. सात्तान्कुप्पम
11. नेडुकुंझम
12. रत्तिनमंगलम
13. कोलपक्कम
14. तिरुपोरूर

के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2006

संख्या: एन-15/13/2/1/2006-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 सितम्बर, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा असम कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ असम राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

डुमडुमा क्षेत्र के डुमडुमा नगर राजस्व ग्राम के अन्तर्गत डुमडुमा पाथारगाव, हॉहचरा टी.ई.20/156 औ.आर.एस. हॉहचरा टी.ई.15/12/सं.एन.एल.आर. हॉहचरा टी.ई. और सं. एल.सी.बरहापजान गावें, मुलान पथार, केहानगुरी, सुकानगुरी । 109/111 सं. ग्रान्त 2 सं. चोटाहापजान, चोकुरिटिंग, बदलाभेता, मानुहखोवा, एतेंगीथा, गोइपानी, नगाव, सं.1, रोगाजान, फोटिकजान, बिसकोपी 73 एफ.एस. बिसाकोपी 8 सं. एल.सी., औगुरी, बिसाकोपी, टीपक, 101, सं. एफ.एस. असमीया, बालिजान, बोइमुखिया गावें, बिसाकोपी 72 एफ.एस.

मौजा के अधिन- टिराइ, डुमडुमा, हापजान

एम. सुन्दररामन

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/14/8/2003-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट विकित्सा हितलाभ चन्नई राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. कांचीपुरम नगरपालिका के नगरणलिक सीमा |                     |
| 2. एनतूर                               |                     |
| 3. कोनरिकुप्पम                         |                     |
| 4. सिरुकावेरिपाक्कम                    | 21. किकडीरपुर       |
| 5. ओरिककै                              | 22. मे लकदिरपुर     |
| 6. वेडल                                | 23. मंगलपाडी        |
| 7. सिरुवेडल                            | 24. एरिवाय          |
| 8. अट्टुपुतुर                          | 25. तेनम्बाक्कम     |
| 9. सिगाडिवाक्कम                        | 26. चिन्नयनकुप्पम   |
| 10. मेलम्बी                            | 27. कोट्टैकावल      |
| 11. तिम्मसमुद्रम                       | 28. वेलिंगपट्टाडै   |
| 12. किलम्बी                            | 29. सेविलमेडु       |
| 13. परनतूर                             | 30. वैयावूर         |
| 14. करै                                | 31. नातम्पेट्टे     |
| 15. अर्यम्बाक्कम                       | 32. अरपनचेरी        |
| 16. नसरतपूट                            | 33. मुत्तियालपेट्टे |
| 17. नेट्टेरी                           | 34. अय्यनपेट्टे     |
| 18. अचूकट्टु                           | 35. वल्लुवपाक्कम    |
| 19. सलबोगम                             | 36. कलियनूर         |
| 20. पुतेरी                             | 37. ओलैयूर          |

आदि कांचीपुरम क्षेत्र के राजस्व गाँव

(एम. सुन्दररामन)  
निदेशक (यो.एंव वि.)

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

संख्या: एन-15/13/11/7/2006-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने **01 नवम्बर, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **पंजाब** कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **पंजाब** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे; अर्थात् :-

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	छोटा जौला	179	डेराबस्सी	पटियाला
2.	जौला कलां	180	डेराबस्सी	पटियाला
3.	हुमायुंपुर	166	डेराबस्सी	पटियाला
4.	हुमायुंपुर तीरांबली	165	डेराबस्सी	पटियाला

एन-15-11-7-2006

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)



संख्या: एन-15/13/11/8/2006-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने **01 नवम्बर, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **पंजाब** कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **पंजाब** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात :-

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	दुधियावाल	130	कपूरथला	कपूरथला
2.	बरिन्दपुर	95	कपूरथला	कपूरथला
3.	भुलई	132	कपूरथला	कपूरथला
4.	हुस्नपुर	123	कपूरथला	कपूरथला
5.	सद्दोवाल	155	कपूरथला	कपूरथला
6.	गोसल	158	कपूरथला	कपूरथला
7.	बुरेवाल	159	कपूरथला	कपूरथला
8.	पखोवाल	160	कपूरथला	कपूरथला
9.	लोधी भुल्लां	125	कपूरथला	कपूरथला
10.	रसूलपुर सिसली	127	कपूरथला	कपूरथला
11.	जलालपुर भुलां	126	कपूरथला	कपूरथला
12.	सदोवाल भुलां	124	कपूरथला	कपूरथला
13.	जलबीबरी	91	कपूरथला	कपूरथला
14.	बीबरी	96	कपूरथला	कपूरथला

(एम. सुन्दररामन)

(एम. सुन्दररामन)  
निदेशक (यो.एंव वि.)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

आय एवं व्यय खाता 2004-2005

(अ) अनुरक्षण अनुदान खाता

दिनांक 16 अक्टूबर 2006


सं. 1398/ई. ओ.-

व्यय	वास्तविक आँकड़े	आय	वास्तविक आँकड़े
<b>1. प्रशासन :-</b>		<b>1. धर्मादा एवं अनुदान :-</b>	
वेतन	200486198	(अ) नियोजन से आय	15870328
अन्य प्रभार	9036742	(ब) अनुदान :-	
सामान्य सेवा तथा विविध प्रभार	18581118	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	1758777000
<b>2. शैक्षिक विभाग :-</b>			1774647328
(अ) संकाय :-		<b>2. छात्रों से प्राप्त शुल्क :-</b>	
वेतन	603796764	शैक्षिक	60761451
अन्य प्रभार	42527596	परीक्षा	2768233
(ब) महाविद्यालय :-		अन्य शुल्क	1320414
वेतन	39057267	छात्रावास	3819444
अन्य प्रभार	2059953		68669542
	41117220		

व्यय	वास्तविक आँकड़े	आय	वास्तविक आँकड़े
(स) सामान्य शिक्षा केन्द्र :-			
वेतन	1793043	3. भवनों, भूमि एवं सम्पत्तियों से आय :-	2542647
अन्य प्रभार	256378	भवन	
	2049421	भूमि एवं उद्यान	1483530
(द) कैरियर प्लानिंग केन्द्र और व्यवसायिक पाठ्यक्रम :-		4. प्रकाशन :-	4026177
वेतन	2225171	प्रकाशन	97032
अन्य प्रभार	1246325	5. अन्य विभाग :-	
	3471496	भवन निर्माण विभाग के टेन्डर की बिक्री द्वारा	495896
3. परीक्षाएँ :-		6. विद्युत विभाग :-	
वेतन	14380059	विद्युत प्रभार	7812953
अन्य प्रभार	28346375	7. प्रकीर्ण :-	
	42726434	प्रकीर्ण	7086841
4. एन0 ए0 पुस्तकालय :-		बस किराया, बच्चुली, रोजगार, प्रार्थना पत्र शूलक इत्यादि	
वेतन	19608827		
अन्य प्रभार	17372503		
	36981330		
5. छात्रों की सुविधाएँ :-			
वेतन	12825379		
अन्य प्रभार	1858003		
	14683382		
6. अधिछात्रवृत्तियाँ :-			
	6330084		

व्यय	वास्तविक आँकड़े	आय	वास्तविक आँकड़े
<b>8. विद्यालय :-</b>			
7. छात्रावास :- वेतन	113548763	छात्रों से प्राप्त शुल्क	406584
अन्य प्रभार	<u>1994989</u> 115543752	छात्रावास	14640
8. प्रकाशन :- वेतन	1324596	प्रकीर्ण	<u>1167329</u> 1588553
अन्य प्रभार	<u>858938</u> 2183534	<b>9. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय</b>	
9. अन्य विभाग :- वेतन	66008422	अस्पताल :-	
अन्य प्रभार	<u>44409939</u> 110418361	प्रकीर्ण प्राप्तियाँ	337304
10. सहायक सेवाएँ :- वेतन	14510427		
अन्य प्रभार	<u>60694043</u> 75204470		
11. प्रकीर्ण :- वेतन	152350		
अन्य प्रभार	<u>87658249</u> 87810599		
अवकाश वेतन	10164876		
सलाहकार को भुगतान	39560		
दैनिक कर्मचारियों का बोनस	808672		
अतिथि संकाय/अतिथिक कार्य पारिश्रमिक	4397929		

व्यय	वार्षिक आंकड़े	आय	वार्षिक आंकड़े
1 2. विद्यालय :- वेतन	68059300		
अव्य प्रभार	3709747		71769047
1 3. सेवा निवृत्त लाभ :-	293066949		
1 4. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल :- वेतन	124221878		
अव्य प्रभार	13064728		137286606
कुल व्यय	1930482140		1930482140
महायोग	1930482140		1930482140
<p>आय से अधिक व्यय रु. 65720514 केडिट ऑपिनिंग बेलेंस रु. 66968075 के अर्बतगत किया गया। निवृत्त अवशेष रु.12.48 लाख पृष्ठ संख्या 187 पर दर्शाया गया है।</p>	<p>By: Finance Officer (Accounts) Finance &amp; Accounts Deptt. A. M. U., Aligarh</p>	<p>कुल आय आय से व्यय की अधिकता महायोग</p>	<p>1864761626 65720514 1930482140</p>


  
**Finance Officer**  
 Aligarh Muslim University  
 ALIGARH  
 (एस० ए० एच० काजमी)  
 वित्त अधिकारी


  
**By: Finance Officer**  
 (Accounts)  
 Finance & Accounts Deptt.  
 A. M. U., Aligarh  
 (यासमीन काजमी सेग)  
 वित्त अधिकारी


आय एवं व्यय खाता 2004-2005  
(ब) विकास अनुदान खाता

व्यय	वास्तविक आँकड़े	आय	वास्तविक आँकड़े
<b>उच्च शिक्षा एवं शोध विकास :-</b>			
1. नवम योजना :- वेतन एवं भत्ते	17242851	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारत सरकार से सहायक अनुदान	44087000
अन्य प्रभार	671932	उच्च शिक्षा तथा शोध विकास हेतु	15994729
2. विशेष विकास योजनाएँ :- वेतन एवं भत्ते	3628246	1. दशम योजना हेतु	
छात्रवृत्ति एवं अधिछात्रवृत्तियाँ	942856	2. विशेष विकास योजनाएँ	
अन्य प्रभार	11426601	3. प्रकीर्ण योजनाओं-हेतु सहायक अनुदान (चि० वि० अनुदान आयोग, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा)	24384604

व्यय	वार्षिक आँकड़े	आय	वार्षिक आँकड़े
3. प्रकीर्ण योजनाएँ :- विचार गोष्ठी परिसंवाद तथा सम्मेलन	733001		
शिक्षकों को यात्रा अनुदान	832780		
अनिर्दिष्ट अनुदान	835294		
अन्य प्रभार	17259938	19661013	
योग :-			
व्यय से आय की अधिकता			53573499
योग-विकास अनुदान खाता			30892834
			84466333
			योग-विकास अनुदान खाता
			84466333

  
 Dr. Finance Officer  
 (Accounts)  
 Finance & Accounts Deptt.  
 A. M. J., Aligarh

  
 (यासनीन कक्ष, वेग)  
 उप विच/अधिकारी

  
 Finance Officer  
 Aligarh Muslim University  
 ALIGARH

(एस० ए० एच० काजनी)  
 विस अधिकारी

अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

वर्णिक	धनराशि	धनराशि	परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
सामान्य खाता -			विनियोजन -		
स्थायी सन्दान -			विधिय नियोजन (विनियोग) -		
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम			राजकीय प्रतिभूतियाँ एवं सावधि निक्षेप	3000000	1393127753
1920 की धारा 7 के अन्तर्गत लगाये			भवन एवं भूमि		488293498
धन का पूंजीकृत मूल्य			उपकरण	6200956	628692522
स्थायी आरक्षित निधि -			वाहन		4250936
दान का पूंजीकृत मूल्य			उपस्कर		632943458
विशेष चल आरक्षित निधि -			पुरतकें	1040221	8448623
दान आदि का पूंजीकृत मूल्य			अवमूल्यन निधि		99831715
चल आरक्षित निधि -			का अवशेष		572507
दान आदि का पूंजीकृत मूल्य			प्रकीर्ण विकलन शेष -		
न्यास निधि -			स्थाई अधिम		34688
दान आदि का पूंजीकृत मूल्य	4381685		प्रकीर्ण विकलन सामान्य खाते		
निधि की अविनियोजित ब्याज का अवशेष	2425186	6806871	(विवरण 4 के अनुसार)		2692271



## अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

वार्डिच	धनराशि	धनराशि	परिसंपत्त	धनराशि
<b>प्रकीर्ण न्यास -</b>				
अवमूल्यन निधि का पूंजीकृत मूल्य	3542138		बचत खाता/अल्प कालीन निक्षेप नियोजन का पूंजीकृत मूल्य	58739322
भवन निधि	12325534		<b>विकास अनुदान खाता -</b>	
अभियांत्रिक महाविद्यालय निधि	943845		यूजानी औषधियों में अनुसंधान (तिब्बिया कालेज) हेतु (भारत सरकार) की योजना	42398
महिला महाविद्यालय निधि	23560	13292939	साहित्य अनुसंधान तिब्बिया कालेज (भारत सरकार की योजना)	23602
चालू व्यय निधि - उन कर्मचारियों का जिन्होंने नियुक्त वेतन का विकल्प लिया है उनकी भविष्य निधि की साख पर दि० दि० अंशदान का ब्याज (भवन निर्माण ऋण तथा कर्मचारी भवनों हेतु)		69716448	पोस्ट पार्टन योजना (उत्तर प्रदेश सरकार)	7291436
<b>प्रकीर्ण जमा अवशेष -</b>			हिकजाने सेहत, मुआलिजात एवं कुलियात (ए० के० तिब्बिया कालेज)	2094565
छात्र सेवा निधि	2060340		अन्तर्निधि अंशिम	5236738
अनिवार्य सामूहिक बीमा तथा बचत योजना	59310		<b>ए० एम० यू० निक्षेप खाता -</b>	
इतिहास की पुस्तकों के प्रकाशन हेतु भ्रमत निधि	552592		एन० आई० एच० मलेरिया योजना हवाई विश्वविद्यालय (यू०एस०ए०) के सहयोग से	24617
अनिवार्य जमा योजना	8164		प्रकीर्ण विकलन अवशेष	21212
विकास प्रभार का पूंजीकृत मूल्य	35163795			
कारपस निधि	185811799			
तहजीबुल अखलाक	374156			
निलम्बित प्राप्तियाँ विवरण 4 के आलकनक के अनुसार	10131472			
			अनुदान पी० एल० 4.8० योजना	8331
				54160

## अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

विवरण	घनराशि	घनराशि	परिशेष	घनराशि
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अतिरिक्त श्रोतों पर इन्वोन्ट्य अन्तर्निधि अंशिम	1290328			
अनुदान अनुदान खाता में आय की व्याय से अधिकता (66968075-65720514)	83983050	319445006	अन्तर निधि अंशिम	69154
विशेष मरम्मत		1247561	आयुर्विज्ञान अध्ययन हेतु अंशिम	4843
गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन का बकाया (एरियर)		382336	छात्रवृत्ति खाता -	
दुबई केन्द्र से प्राप्त सहभागिता घनराशि		930795	सिखडा वर्ग छात्रवृत्ति (यू०पी० सरकार)	68970
बिना किये रुकावट के विद्युत जारी		2057177		
पेव्शन की नई योजना		2000000		
स्टाफ कालोनियां व विभागों की जलापूर्ति के लिये विशेष सहायता		2000000		
यूनिवर्सिटी भवनो की मरम्मत		6573000		
		9000000		
विकास अनुदान खाता -				
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान का पूंजीकृत मूल्य -				
भवन	360416371			
पुस्तकें	101649804			
उपकरण	626814529			
उपसकर	7639487			
निलम्बित प्राप्तियाँ (विवरण नं० 4 के अनुसार)	2898961			

## अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

दायित्व	धनराशि	धनराशि	परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
आय की व्यय से अधिकता आय एवं व्यय खाते के अनुसार (30892834-7281743) नियोजन से आय	23611091 31026456		अन्तिम अवशेष - अभुरक्षण अनुदान खाता		266343774
उच्च श्रेणीकर्ण तशरीह-वा-मुनाफुल अजा विभाग (ए० के० तिखिया कालेज)	119		भारतीय स्टेट बैंक का संदान अर्थशास्त्रा में चेयर की स्थापना हेतु - स्टेट बैंक आफ इण्डिया ए० एम० यू० शाखा		2956
उच्च श्रेणीकर्ण अमराज-ए-मिस्वा विभाग (ए० के० तिखिया कालेज) निलम्बित खाता	351 7616	1154064785	ए० एम० यू० निक्षेप खाता - स्टेट बैंक आफ इण्डिया ए० एम० यू० शाखा सिंडिकेट बैंक		93583125 5449
विकास अनुदान छात्रवृत्ति खाता - भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुदान का निक्षेप खाता विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति अनुदान का निक्षेप खाता	3794596 2620049 391676	6806321	ए० एम० यू० भविष्य विधि खाता - इलाहाबाद बैंक ए० एम० यू० (अलीगढ़) डाकघर सचत बैंक खाता	24444 2258	26702
आय की व्यय से अधिकता					
निक्षेप खाता - सरकार तथा अन्य एजेन्सीज द्वारा अनुदान का पूंजीकृत मूल्य - फोर्ड फाउन्डेशन कुवेत सरकार ईरान के इस्लामिक गणतंत्रा द्वारा अनुदान महामहिम शाह सउद अनुदान छात्रावास के निर्माण (100 कन्टी) हेतु	2194321 100000 113000 1199275 1039103				

## अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

दायित्व	धनराशि	धनराशि	परिसंपत्त	धनराशि
अनुदान हाजी इब्राहीम इसमाईल एम.बी.बी.एस. में प्रवेश हेतु भारतीयों के योगदान से बढी आय दन्त कालेज हाजी राउद अब्दुल अजीज अल बावतेन (स्कूल के निर्माण हेतु अनुदान)	109841		आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि - स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)	197497
डा० हसन कमाल (यूनिवर्सिटी स्कूल बिल्डिंग के निर्माण हेतु) श्रीमती शक्ति रईस द्वारा अनुदान एच. ई. एम. ओवेद दान यू० ए० ई० का अनुदान नवीन पाठ्यक्रम हेतु महामहिम सैयदना बुरहानउद्दीन अनुदान एस टी हाई स्कूल	12944273 30873769		डा० वली मौहम्मद वक्फ अलल-औलाद निधि - स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)	234122
विश्वविद्यालय के विकास कार्यों हेतु पूंजी - दवाखाना द्वारा तिब्बिया कॉलेज को अनुदान डा० शंकर दयाल शर्मा का अनुदान स्वर्ण पदक हेतु श्री इशरत हुसैन उरमानी छात्रावृत्ति हेतु स्वर्गीय श्री मौहम्मद अमजद अली (पुरतक हेतु) डा० एस० फारुख अनुदान (जकात निधि) श्री सबीह अहमद कमाली जम्मू कश्मीर शासन द्वारा अनुदान युटैल अहमद अनुदान श्रीमती अफसरी बेगम द्वारा अनुदान श्रीमती उषा कैं० बवेजा अनुदान श्री खुशीद आलम खाँ द्वारा अनुदान	1034581 1532302 50000 200000 3379102		स्वर्ण जयन्ती निधि - स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)	
	785422		परमानेन्ट इस्लामिक सोलिडेरिटी निधि - सिंडीकेट बैंक, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)	26075
	3335067		बीबी फातिमा वक्फ - स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)	135211
	15000 22800 625707 264856			
	180503 696820 2296 1579534 23528 8000			76036

## अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

दायित्व	धनराशि	धनराशि	परिसंपत्त	धनराशि
श्री सैद उल्लाह खां दंत महाविद्यालय हेतु	192103		<b>छात्रवृत्ति खाता -</b>	
श्री एस० आर० अली जैदी अनुदान	286331		इलाहाबाद बैंक, ए० एम० यू०	2929140
अनुदान ओल्ड बीएन एसो० कानपुर	53020		शाखा (अलीगढ़)	
यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस	716268		छात्रवृत्ति खाता (पिछड़ा वर्ग)	74572
दयाखाना तिब्बिया कालिज एवं एस० एम० मार्ट			(यू०पी० सरकार)	
से अनुदान	330876		<b>ए० एम० यू० विकास अनुदान</b>	
प्रो० पी० एन० कोला	219532		<b>छात्रवृत्ति खाता -</b>	
छात्र निधि सिटी हाई स्कूल	5067847		स्टेट बैंक आफ इण्डिया ( ए० एम० यू०	6806321
छात्रा निधि ए० एम० यू० गर्ल्स हाई स्कूल	7473150		शाखा, अलीगढ़ )	
छात्रा निधि सिटी गर्ल्स हाई स्कूल	4049271		<b>ए० एम० यू० स्टूडेन्ट</b>	
विकास अधिभार स्पेशल वाई जे० एन० एम० सी० अस्पताल	18712671		<b>वैलफेयर निधि -</b>	
बुक बैंक अभियांत्रिक महाविद्यालय	2887065		स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू०	4611291
<b>प्रकीर्ण अनुदान एवं निक्षेप -</b>			शाखा (अलीगढ़)	
परियोजना नं० 644 बायोटेकनोलोजी	1276		<b>ए० एम० यू० विकास</b>	
डा० सलाहउदीन सिद्दीकी के आधीन			कारपस निधि -	
स्टडीज आन माइनर फारेस्ट आयल अन्डर			स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू०	1523246
डा०एस०एम० उसमान(रसायन विज्ञान विभाग)	22954		शाखा (अलीगढ़)	
जमान्तों का निक्षेप	11976671		<b>ए० एम० यू० विकास</b>	
उपकुलपति निधि	35399275		कारपस निधि -	
रेडियो डाइगोनोसिस भग्गत निधि	32067226		स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू०	
दुबई स्थापित जुमा-अल-माजिद द्वारा अनुदान	107954		शाखा (अलीगढ़)	
किरिफ आर स्मिथ बेकेस्ट डा० अलाफराइ सी	259187			
येफिल द्वारा अनुदान				
ए०एम०यू० अद्युमनी दुबई द्वारा अनुदान				
गर्ल्स होस्टल के निर्माण के हेतु	2457338			

## अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

दायित्व	धनराशि	धनराशि	परिसंपत्त	धनराशि
अब्दुल वासे द्वारा अनुदान प्रो० नजीर अहमद हेतु	60000		भ्रमत निधि गृह निर्माण अग्रिम कर्मचारियों के वास्ते - स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)	7024072
कलीम खाना उपाध्यक्ष संगठन भारतीय मुस्लिम अमेरिका द्वारा अनुदान मौलाना आजाद लाइब्रेरी को उपहार में मिली पुस्तकें एन सी सर्वदीना का अनुदान नूरुल हसन द्वारा शैक्षिक शोध के हेतु अनुदान गीता बजाज गोल्ड मैडल एम०बी०बी०एस०छात्रों हेतु पुस्तकें बैंक दवाखाना तिथिया कालेज टीचर्स वेलफेयर निधि भ्रमत निधि सी० एफ० सी० आरटीजन स्कीम यूनिवर्सिटी पोलिटेक्निक बी० आरकीट्येचर निधि आई सी ए आर नवम योजना अनुदान गवर्नर्स हास्टल (कृषि) के हेतु एच०एस० लखटकिया द्वारा अनुदान एम.बी.बी.एस. छात्रों की नकद राशि हेतु महिला महाविद्यालय केश भवन ई एस खादिम कुसैन नकवी द्वारा हसन कासिम निमोनियल गोल्ड मैडल हेतु साबिर कुसैन द्वारा अनुदान ब्यू हास्टल के निर्माण हेतु अनुदान प्रो० के० ए० मिजामी केन्द्र सुरात्मिक अध्ययन हेतु भ्रमत निधि आई. ओ.एल.अफयलमोलोजी संस्थान				
	60000			
	1012984			
	10000			
	1244400			
	60000			
	96764			
	2336907			
	1051993			
	149190			
	6129016			
	30000			
	205541			
	65000			
	5000			
	1267732			
	1116949			
	280653			

## अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

व्यक्ति	धनराशि	धनराशि	परिसंपत्त	धनराशि
भ्रमर निधि रेडियो टैपी के हेतु शफी हाउस का पुर्ननिर्माण (कृषि संस्थान) प्रकीर्ण आकलन अवशेष (विवरण 4 के संलग्नक के अनुसार) ऋण तथा अधिम (विवरण 4 के अनुसार)	5935626 1181395 20029128 21172637	248090030		
<b>भविष्य निधि खाता -</b>				
भविष्य निधि	1120183638			
वापसी हेतु प्रप्तियाँ	255527			
अन्तर्निधि अधिम	1943279	1122382444		
<b>आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि -</b>				
दानों का पूंजीकृत मूल्य		6184324		
<b>डा० वली मोहम्मद वक्फ निधि -</b>				
दानों का पूंजीकृत मूल्य	925673			
आय की व्यय से अधिकता	118971	1044644		

## अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

दायित्व	घनराशि	घनराशि	परिसंपत्त	घनराशि
स्वर्ण जयन्ती निधि - दानों का पूंजीकृत मूल्य		269175		
शेख जैद पैट्रोलियम इन्स्टीट्यूट - शेख जैद के दान का पूंजीकृत मूल्य	3998632			
आय की व्यय से अधिकता	651833	4650465		
परमानेन्ट इस्लामिक सोलिवेरिटी निधि -				
दानों का पूंजीकृत मूल्य	1190820			
आय की व्यय से अधिकता	4610	1195430		
बीबी फातिमा वक्फ -				
दानों का पूंजीकृत मूल्य	125785			
आय की व्यय से अधिकता	2340	128125		
भारतीय स्टेट बैंक का संदान - अर्थशास्त्र में चेयर की स्थापना हेतु दान का पूंजीकृत मूल्य				2956
भ्रमत निधि गृह निर्माण अग्रिम हेतु - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त तथा निक्षेप खाता से हस्तान्तरित घनराशि का पूंजीकृत मूल्य आय की व्यय से अधिकता	28120611 26041124			54161735



-16-  
अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

दायित्व	धनराशि	धनराशि	परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
<b>छात्रवृत्ति खाता -</b>					
छात्रवृत्तियों का पूंजीकृत मूल्य	1414290				
आय की व्यय से अधिकता	1,214,850	292,914			
<b>ए० एम० यू० विकास कारपस खाता -</b>					
दानों का पूंजीकृत मूल्य	4114684				
आय की व्यय से अधिकता	18762	4133446			
<b>छात्रवृत्ति खाता (पिछड़ा वर्ग)</b>					
<b>उ० प्र० सरकार -</b>					
दानों का पूंजीकृत मूल्य			143542		
<b>ए० एम० यू० स्टूडेंट वेलफेयर फण्ड -</b>					
दानों का पूंजीकृत मूल्य	17389274				
आय की व्यय से अधिकता	3636903	21026177			

## अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र 31 मार्च, 2005

दायित्व	धनराशि	धनराशि	परिसंपत्त	धनराशि
अन्तिम रोकथाम अवशेष - शेख जेद इन्स्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम एवं टेक्नोलॉजी एम0यू0 विकास अनुदान खाता भविष्य निधि खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए0 एम0 यू0 (संवत खाता एवं चालू खाता)	38696	4965888	3327928	
महायोग	3083169290	महायोग	3083169290	
Dr. Finance Officer (Accounts) Finance & Accounts Deptt. A. M. U., Aligarh		(यासमीन ज़ुबैद बेग) उप वित्त अधिकारी		मह Finance Officer (एस0 ए0 एच0 इन्जनी) वित्त अधिकारी Aligarh Muslim University ALIGARH


- 18 -

## लेखा-परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय लेखा एवं दिनांक 31 मार्च 2005 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गयी अभ्युक्तियों के अध्याधीन, अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किये गये उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : इलाहाबाद

दिनांक : 14.06.2006

  
प्रधान महालेखाकार  
(शिथिल आडिट), उत्तर प्रदेश

ज्ञान-विज्ञान वि.कृतय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग

मिसिल सं० 1-10

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. 1-10/2004(सीपीपी-2) खंड-3--

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र सरकार के अनुमोदन के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वि.अ.आ. अधिनियम 1956 (1956 का 3) धारा 22 की उपधारा 3 एवं दिसम्बर, 1985 तक संशोधित और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-52/97(सीपीपी-2) दिनांक 31-01-2004 के सिलसिले में नीचे दी गई डिग्रियों को जो भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, की वैधता को निरस्त कर दिया गया है।

क्र.सं.	संक्षिप्त डिग्रियाँ	डिग्रियों की व्याख्या
1.	ए.एम.बी.एस.	आयुर्वेदिक औषधि और शल्य में स्नातक
2.	बी.एस.साइंस	आरोग्यकर विज्ञान स्नातक
3.	भाषा प्रवीण	भाषा प्रवीण
4.	बी.पी.टी.	शारीरिक योजना स्नातक
5.	बी.टी.	प्रशिक्षण स्नातक
6.	डी.आयु.एम.	आयुर्वेदिक चिकित्सा वाचस्पति
7.	डी.एच.वी.	स्वास्थ्य विज्ञान वाचस्पति
8.	ग्रंथालय	ग्रंथालय

डॉ. टी.आर.केम  
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA  
(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)  
CENTRAL OFFICE

Mumbai-400 005, the 20th September 2006  
The Securitisation Companies and Reconstruction  
Companies (Reserve Bank) (Amendment) Guidelines and Directions, 2006

No. DNBS.5/CGM (PK)/2006.—

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Reserve Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of Securitisation Company or Reconstruction Company from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors or in any manner prejudicial to the interest of such Securitisation Company or Reconstruction Company, hereby in exercise of the powers conferred under Section 12 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, directs that the Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 shall stand amended with immediate effect, as follows, namely:-

Amendment of the Directions

In the Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003, paragraph 5(v) shall be substituted as under:-

- (v) the Securitisation Company or Reconstruction Company shall invest in the security receipts issued by the trust set up for the purpose of securitisation, an amount not less than 5% under each scheme:

provided further that-

a Securitisation Company or Reconstruction Company which has already issued the security receipts shall achieve the minimum subscription limit in security receipts under each scheme within a period of six months from the date of the Notification.

P. KRISHNAMURTHY  
Chief General Manager-In-Charge

No. DNBS.187/CGM (PK)/2006.—

The Reserve Bank of India, being satisfied that, in the public interest and to enable the Bank to regulate the financial system of the country to its advantage, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred upon it under Section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the following directions contained in Notification No.DFC.119/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998 stand amended with immediate effect, namely -

1. In paragraph 10, under explanation (1), after Note (2), the following Note shall be inserted, namely,-

"(3) While calculating the aggregate of funded exposure of a borrower for the purpose of assignment of risk weight, NBFCs may net off against the total outstanding exposure of the borrower advances collateralised by cash margin/caution money/security deposits against which right to set-off is available."

2. In Part D of the format NBS 2 – Half Yearly Statement of capital funds, risk assets/exposures and risk assets ratio etc., as at the end of March/September i.e. half yearly return (NBS 2) referred to in paragraph 13 of the Directions, Note (4) may be inserted, namely,-

"(4) Netting may be done in respect of total outstanding exposure of a borrower by cash margin/caution money/security deposits against which right to set-off is available."

P. KRISHNAMURTHY  
Chief General Manger-In-Charge

The 21st September 2006

No. DNBS.188/CGM (PK)/2006.—

The Reserve Bank of India, having satisfied that, in the public interest, and to enable the Bank to regulate the financial system of the country to its advantage, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No.DFC.119/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998 shall stand amended with immediate effect as follows, namely -

2. A new paragraph shall be inserted after paragraph 9C as under:

**Submission of a certificate from Statutory Auditor to the Bank**

9D. Every NBFC shall submit a Certificate from its Statutory Auditor that it is engaged in the business of non-banking financial institution requiring it to hold a Certificate of Registration under Section 45-IA of the RBI Act. A certificate from the Statutory Auditor in this regard with reference to the position of the company as at end of the financial year ended March 31 may be submitted to the Regional Office of the Department of Non-Banking Supervision under whose jurisdiction the NBFC is registered, latest by June 30, every year. "

P. KRISHNAMURTHY  
Chief General Manger-In-Charge

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 7th August 2006

(Chartered Accountants)

3NCA(4)/1/2004-2005: In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 01 October, 2004 on account of non payment of prescribed fees, the names of the following members:

S.No.	MRN	Name & Address	S.No.	MRN	Name & Address
1	002364	MR. SHARMA LAJPATRAI 23 PALMA VALLEY COTO DE CAZA CALIFORNIA 92679 - 4735 USA	9	006961	MR. ALEXANDER VICTOR SAUDI BUSINESS MACHINES P O BOX 5648 JEDDAH 21432
2	003032	MR. SINGH SAT PAL A-406, DEFENCE COLONY NEW DELHI-110024	10	007842	MR. BHALLA PRADEEP E-15 N.D.S.E. PART-I NEW DELHI-110049
3	004481	MR. NAGPAL SURINDER KUMAR NAGPAL & CO 44 RAJINDER NAGAR MARKET BARA BAZAR MARG NEW DELHI-110060	11	008852	MR. KHANNA PREM NATH 154, KADAMBARI APPT. SECTOR-9 ROHINI DELHI-110085
4	004997	MR. RAJESHWAR DAYAL C-224 VIVEK VIHAR, DELHI-110095	12	009583	MR. AHUJA RAVINOER KUMAR R 534 NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060
5	005142	MR. BAJAJ JAGDISH KUMAR 13112 WESTGATE OVERLAND PARK KANSAS 66213	13	010213	MR. TANDON PREM NIVAS PERSHAD 6562/D, CHAMELIAN ROAD DELHI-110006
6	005414	MR. YASH BIR JAGGI B-8/11 VASANT VIHAR NEW DELHI-110057	14	011387	MR. RAWAL OHARAM PAL 350 POCKET-A SARITA VIHAR NEW DELHI-110044
7	006751	MR. AGGARWAL SHIV DAYAL 19-A ANSARI ROAD DARYA GANJ NEW DELHI-110002	15	011409	MR. BAMBA KRISHAN LAL 18, NEW PRAGTISHEEL APARTMENT VASUNDRA ENCLAVE DELHI-110096
8	006842	MR. MALIK JAI GOPAL 229 DR JOSHI ROAD KAROL BAGH NEW DELHI-110005	16	011500	MR. DUA MAOHU SUOHAN SAPNA APARTMENTS 198/19 RAMESH MARKET EAST OF KAILASH NEW DELHI-110065



- 17 011795 MR. GOEL SUSHIL KUMAR  
C-8/8282 VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 18 012351 MR. BANSAL RADHE SHYAM  
M/S R.SHYAM & CO.,  
5/65, AGARSAIN NAGAR  
POST OFFICE STREET  
GURMANDI  
SONEPAT-131001
- 19 013588 MR. KAPUR VIJAY KUMAR  
BUNGALOW NO. 43  
ROAD NO. 71, PUNJABI BAGH  
NEW DELHI-110026
- 20 013617 MR. MATHUR RAJBIR KISHORE  
MG FLATS 3-A, RAJOURI GARDEN  
NEW DELHI-110027
- 21 013991 MR. KINRA ASHOK KUMAR  
FINANCE DIRECTOR  
J.K. INDUSTRIES LTD.,  
LINK HOUSE, 3, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG  
NEW DELHI-110002
- 22 014343 MR. CHOPRA DALIP KUMAR  
R-804, NEW RAJINDER NAGAR  
NEW DELHI-110060
- 23 014815 MR. BAJAJ ANIL KUMAR  
140, GOLF LINKS  
NEW DELHI-110003
- 24 015091 MR. AGARWAL ASHOK KUMAR  
1900, SECTOR - 8  
FARIDABAD-121006
- 25 015186 MR. PARAMESH SURY  
111 FAWCETT TRAIL  
SCARBOROUGH  
ONTARIO-M1B 3A6
- 26 015452 MR. SINGH BALBIR  
B-3/353 PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 27 015654 MR. SAMIR KUMAR SEN  
104, NATIONAL MEDIA CENTRE  
SHANKAR CHOWK  
GURGAON-122002
- 28 016282 MR. MEHTA ASHOK CHAND  
4 COMMUNITY CENTRE  
EAST OF KAILASH  
NEW DELHI-110065
- 29 016472 MR. GUPTA ARUN  
PEARL ENGINEERING POLYMERS LTD  
B-59, GREATER KAILASH PART-1  
PHASE-II  
NEW DELHI-110048
- 30 016510 MR. SHARMA MAHAVIR PRASAD  
H.NO. 295/2 OLD DELHI ROAD  
GURGAON-122015
- 31 016651 MR. SAPRA DALBIR S  
H NO. 1281  
SECTOR 37 -B  
CHANDIGARH-160023
- 32 016760 MR. SUSHIL KUMAR  
311, SECTOR-23  
GURGAON-122007
- 33 016933 MR. SARAF PAWAN KUMAR  
J K CEMENT WORKS  
GHALIB BHAWAN  
MATA SUNDRI ROAD  
NEW DELHI-110002
- 34 017271 MR. SINGH SWARAN JIT  
E-76, RIDGEWOOD ESTATE  
DLF CITY PHASE-IV  
GURGAON-122002
- 35 017530 MR. MITTAL SUDERSHAN KUMAR  
1896, APPA LOOSA DRIVE  
NAPERVILLE, I. L. 60565  
ILLINOIS (USA)
- 36 017952 MR. MATESHWAR PARSHAD  
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR  
AGRICULTURE INSURANCE CO OF INDIA LTD  
13TH FLOOR, AMBADEEP  
14, K.G. MARG  
NEW DELHI-110001
- 37 028174 MR. HARIHARA SANKAR M  
PO BOX 25584  
DUBAI
- 38 041073 MR. DORAIRAJ ANAND  
C/O MR S N KHEMKA  
C-87 GOLF VIEW APTS  
OPP GYAN BHARATI SCHOOL  
SAKET  
NEW DELHI-110017
- 39 044717 MS. BHAGWAT ARCHANA  
E-182, SARITA VIHAR  
NEW DELHI-110044

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 40 | 045405 MR. CHOUDHARY RAKESH<br>H NO. 161, IIND FLOOR<br>POCKET C 4, SECTOR-6<br>ROHINI<br>DELHI-110085                   | 50 | 055691 MR. ARORA RAMAN<br>C-79, UPKAR CO-OP HOUSING SOCIETY<br>MAYUR VIHAR PHASE-I<br>DELHI-110091                            |
| 41 | 048315 MS. NAIK NISHA RAMCHANDRA<br>35, AARADHANA<br>SECTOR 13,<br>R K PURAM<br>NEW DELHI-110066                         | 51 | 056818 MR. DE SUMIT<br>1/B, BISWANATH MOTILAL LANE<br>KOLKATA-700012  |
| 42 | 051738 MR. RAKESH SHARAN<br>315, SOUTH EX. PLAZA II<br>MASJID MOTH<br>NEW DELHI-110049                                   | 52 | 056858 MR. JAIN JITENDRA KUMAR<br>925/1, IIIRD FLOOR<br>FAIZ ROAD, NAIWALA<br>KAROL BAGH<br>NEW DELHI-110005                  |
| 43 | 052277 MR. MALHOTRA HEMANT KUMAR<br>C/O SANTOSH DIXIT & CO<br>A-24, MAIN MARKET<br>MADHU VIHAR<br>DELHI-110091           | 53 | 057042 MR. ANGSHU SENGUPTA<br>BLOCK 'W'<br>FLAT 016<br>REGEREY PARK II<br>DLF PHASE IV<br>GURGAON-122002                      |
| 44 | 052849 MR. SONI PAWAN KUMAR<br>CC-29 NEHRU ENCLAVE<br>KALKAJI<br>NEW DELHI-110019  | 54 | 057150 MR. RAMAN KARTICK<br>17/10, KALKAJI EXTENSION<br>NEW DELHI-110019  |
| 45 | 053517 MR. GANGULY RAJATESH<br>B-109, SHIVALIK,<br>MALAVIYA NAGAR<br>NEW DELHI-110017                                    | 55 | 057426 MR. SAHOO SUBHAJIT<br>107, LAXMAN SINGH COMPLEX-I<br>MUNIRKA<br>NEW DELHI-110067                                       |
| 46 | 053620 MR. SEN NILANJAN<br>COLWELL D SACMON COMMUNICATIONS<br>C-39, SECTOR-58<br>NO:DA-201301                            | 56 | 057495 MR. VENKAT SATYA PRAKASH CHITELLA<br>32 VISHWAKARMA SOCIETY<br>VASUNDHARA ENCLAVE<br>NEAR DDA MARKET<br>DELHI-110096   |
| 47 | 054023 MR. RANJAN LALL<br>C/O AMERICAN EXPRESS CO<br>200 VESEY ST.<br>NY 10285<br>NEWYORK (USA)                          | 57 | 058119 MR. UDAY PRAKASH<br>FLAT NO. 502,<br>PERAL AKSHITA APARTMENTS<br>A-36, TILAK MARG<br>NEAR LBS COLLEGE<br>JAIPUR-302004 |
| 48 | 054540 MR. KUNDU SUKUMAR<br>GH-4 FLAT NO 271<br>MEERA APARTMENT AREA -G17<br>PASCHIM VIHAR<br>NEW DELHI-110063           | 58 | 058443 MR. DOKANIA PRABIN KUMAR<br>A-108, AMHINSHA VIHAR APARTMENT<br>SECTOR-9, ROHINI<br>DELHI-110085                        |
| 49 | 054544 MR. AGARWAL DINESH KUMAR<br>M/S DINESH AGARWAL & ASSOCIATES<br>1405 BAZAR SITA RAM<br>FIRST FLOOR<br>DELHI-110006 | 59 | 058483 MR. PANDEY ALOK NARAYAN<br>C/O BALRAJ ARORA<br>C5 D/88A, JANAKPURI<br>NEW DELHI-110058                                 |
|    |  | 60 | 058781 MR. CHAKRABARTI SRIJIT<br>K-2106, GROUND FLOOR<br>CHITTARANJAN PARK<br>NEW DELHI-110019                                |

- 61 058856 MR. SINGHA CHAYAN KUMAR  
S-505, SCHOOL BLOCK 2ND  
SHAKARPUR  
(FLAT 2A/3F)  
DELHI-110092
- 62 058926 MR. CHOUHAN RAJESH KUMAR  
A-1/105, SAFDARJUNG ENCLAVE  
NEW DELHI-110029
- 63 059096 MR. MISHRA RAJESH KUMAR  
B-14 SUBHAVNA NIKETAN  
MADHUBAN CHOWK  
PITAMPURA  
DELHI-110034
- 64 059706 MR. MISRA ANIL KUMAR  
C/O M/S N D KAPUR & CO  
2A SHANKAR MARKET  
CONNAUGHT CIRCUS  
NEW DELHI-110001
- 65 059862 MS. BASU ROY SUDESHNA  
C/O SMITHKLINE BEECHEM CONSUMER  
HEALTHCARE LIMITED  
DLF PLAZA TOWER  
DLF CITY PHASE I  
GURGAON-122002
- 66 060321 MRS. AGARWAL MEENU  
88/92 NAGDEVI CROSS LINE  
GHARIWALA BUILDING  
2ND FLOOR  
MUMBAI-400003
- 67 060492 MR. YADAV RAM CHANDRA PRASAD  
C/O M/S G KUMAR & CO  
17, LAL GANGA CHAMBER  
M G ROAD  
(C G)  
RAIPUR-492001
- 68 062074 MR. AGRAWAL BINOD KUMAR  
G-1, 1ST FLOOR  
TEXTILE MARKET  
PANDRI  
RAIPUR
- 69 062245 MR. SINGH ABHISHEK  
RELIANCE INFOCOMM LTD  
C G. ROAD  
AHMEDABAD-380015
- 70 070215 MR. KHATTAR RAJEEV  
FLAT NO 18 8TH FLOOR  
VISHAL TOWER  
JANAKPURI DISTRICT CENTRE  
JANAKPURI, NEW DELHI-110058
- 71 070329 MR. RAKESH CHANDRA  
ADDL DIRECTOR GENERAL  
MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
A-46/12, DLF CITY PHASE-I  
GURGAON-122002
- 72 070550 MR. KHANNA RAJENDRA  
MAWANA SUGARS LTD  
6TH FLOOR, KIRTI MAHAL  
19, RAJENDRA PLACE  
NEW DELHI-110008
- 73 070659 MR. CHOUDHARY SANDIP  
B 1/1666 VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 74 070751 MR. SINHA NAVIN  
11577, MARISSA WAY  
GOLD RIVER, CA  
CALIFORNIA-95670 (USA)
- 75 070841 MR. AGRAWAL RAKESH KUMAR  
D-308 NARWANA APPARTMENTS  
PLOT NO 89 MADHU VIHAR  
I P EXTENSION  
DELHI-110092
- 76 071153 MS. SINHA IRA  
11577, MARRISSA WAY  
GOLD RIVER  
CA  
CALIFORNIA-95670 (USA)
- 77 071178 MR. JAIN ANIL KUMAR  
497, SECTOR-37  
ARUN VIHAR  
NDIDA-201301
- 78 072135 MR. ARORA DEVENDRA KUMAR  
E-801, PAWITRA APPARTMENTS  
PLOT -12, VASUNDARA ENCLAVE  
DELHI-110096
- 79 072274 MR. MOHANANEY JITENDRA  
GENERAL MANAGER-FINANCE  
INDRAPRASTHA GAS LTD  
14TH FLOOR, DR. GOPAL DAS BUILDING  
28, BARAKHAMBA ROAD  
NEW DELHI-110001
- 80 072509 MR. GUPTA VIKASH CHANDRA  
L-90 SARITA VIHAR  
NEW DELHI-110044
- 81 072868 MR. AGARWAL PANKAJ  
B 28, POCKET B  
MAYUR VIHAR 2  
DELHI-110091

- 82 072925 MR. SANJAY SACHETI  
OLAM EXPORTS (I) LTD  
2ND FLOOR, 48 TODAR MAL ROAD  
BENGALI MARKET  
NEW DELHI-110001
- 83 073333 MS. SINGHI SUVIGYA  
C-14/3, SAKET  
NEW DELHI-110017
- 84 073390 MR. GAURAV AGARWAL  
19/14, BOBART STREET  
PARRAMELTA  
NEW SOUTH WALES (AUSTRALIA)
- 85 074990 MR. SHUKLA AMBUJ  
1/4969, BALBIR NAGAR EXTN  
SHAHDARA  
DELHI-110032
- 86 075031 MR. TOMAR NEERAJ SINGH  
L-26, FIRST FLOOR  
LAJPAT NAGAR -II  
NEW DELHI-110024
- 87 075098 MR. MENDIRATTA MADHUKER  
C-1/201, JANAKPURI  
NEW DELHI-110058
- 88 075431 MR. MIDDHA RAJENDER KUMAR  
394 MOTA SINGH NAGAR  
JALANDHAR-144001
- 89 076174 MR. ANAND RASTOGI  
SR ACCOUNTS OFFICER  
H P CORPN LTD  
12 CROSS RD  
AMBALA-133001
- 90 076575 MR. ARORA RAJESH  
6/490 OLD MAHAVIR COLONY  
SONEPAT-131001
- 91 077631 MR. AGARWAL MANISH  
26-B, J & K POCKET  
DILSHAD GARDEN  
DELHI-110095
- 92 077805 MR. KAKKAR ASHWINI KUMAR  
202, ANARKALI COMPLEX  
JHANDEWALAN EXTENSION  
NEW DELHI-110055
- 93 077857 MR. MATTA ASHISH KUMAR  
GE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES,  
78, SECTOR-18,  
GURGAON-122015
- 94 078446 MR. AGARWAL MANMOHAN  
HOUSE # 408 2ND FLOOR  
SECTOR 35A  
CHANDIGARH-160022
- 95 078704 MS. MEENAKSHI  
132B, A/D, SHALIMAR BAGH  
DELHI-110088
- 96 079090 MS. AGRAWAL SMITA  
GLAXO SHITHKLINE BEECHAM CONSUMER  
HEALTHCARE LTD  
DLF PLAZA TOWERS  
DLF CITY PHASE-I  
GURGAON-122002
- 97 079458 MR. AGARWAL GUNJAN  
C/O MR. UMESH GARG  
I-15, KIRTI NAGAR  
NEW DELHI-110015
- 98 079692 MR. GARG CHANDRA KANT  
PP-11 J EXTN  
(NEAR CHURCH)  
LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 99 080099 MR. KHURANA PRAVEEN  
CONSULTANT  
N-91 PANCHSHILA PARK  
NEW DELHI-110017
- 100 080144 MR. SHIV KUMAR  
A-84 VIVEK VIHAR -I  
DELHI-110032
- 101 080151 MR. MEHRA KAMAL KISHORE  
B-16, RANA PRATAP MARG  
DELHI-110007
- 102 080220 MR. DEVENDRA KUMAR  
D KAPOOR & CO  
4228 TEL MANDI CHOWK  
PAHAR GANJ  
(OPP. NEW DELHI RAILWAY STATION)  
NEW DELHI-110055
- 103 080237 MR. VASUDEVAN T  
INDIAN OIL CORPORATION LTD  
SCOPE COMPLEX  
LODI ROAD  
NEW DELHI-110023
- 104 080252 MR. ANAND RUPINDER  
58, JOR BAGH  
NEW DELHI-110003

- 105 080281 MR. SHARMA BHIM SEN  
J-92, 1ST FLOOR,  
R B I STAFF COLONY  
PASHCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 106 080287 MR. NARINDER KUMAR  
# 220, SECTOR-40A  
CHANDIGARH-160022
- 107 080343 MR. VINOD KUMAR  
H-58, GROUND FLOOR  
RESIDENCY GREENS  
GREENWOODS CITY  
SECTOR-46  
GURGAON-122001
- 108 080369 MR. SETH PRADEEP  
C-13, MANSAROVER GARDEN  
NEW DELHI-110015
- 109 080381 MR. ATUL KUMAR  
K-3/14 DLF CITY  
PHASE-II  
GURGAON-122 002
- 110 080425 MR. MALHOTRA SHAM KUMAR  
748, SECTOR-11  
PANCHKULA
- 111 080453 MR. GOYAL RADHEY SHYAM  
539 MANGLA PURI J J COLONY  
PHASE I  
NEW DELHI-110045
- 112 080531 MR. SHARMA TILAK RAJ  
B-XX 1131, KRISHNA NAGAR  
GHUMAR MANDI  
LUDHIANA-141001
- 113 080616 MR. SHARMA CHANDER MOHAN  
1/2406 BHAGWATI KUTTIR  
STREET NO 1 EAST RAM NAGAR  
SHAHDARA  
DELHI-110032
- 114 080758 MR. BIRLA PAWAN KUMAR  
JALAN CEMPAKA PUTIH TENGAH 26 B  
HOUSE NO 3  
RT 2/ RT 8, CEMPAKA PUTIH  
JAKARTA-10520
- 115 080856 MR. CHOUDHARY HARSH KUMAR  
H K CHOUDHARY & ASSOCIATES  
C-530 SARASVATI VIHAR  
DELHI-110034
- 116 080912 MR. DEVA RAVI  
C-52 FRIENDS COLONY  
NEW DELHI-110065
- 117 080979 MR. WADHWA RAKESH  
M/S NEPAL RECREATION CENTRE PVT. LTD.  
TAHACHAL  
KATHMANDU
- 118 080993 MR. LAKHWANI MOHINDER KUMAR  
105 JAINA S RAKESH DEEP 11  
YUSUF SARAI COMMERCIAL COMPLEX  
NEW DELHI-110049
- 119 081003 MR. JHUNJHUNWALA AMITABH  
R-18, SOUTH EXTN.PART-II,  
NEW DELHI-110049
- 120 081053 MR. GANDHI SANJIV  
1/24 SECOND FLOOR  
BANSI HOUSE  
ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI-110002
- 121 081119 MR. SHARMA SHIV NANDAN  
129, NAVJEEVAN VIHAR  
NEW DELHI-110017
- 122 081143 MR. KALANI RAMESH KUMAR  
HOUSE NO 772  
SECTOR 2  
PANCHKULA-134109
- 123 081181 MR. GROVER VINOD  
C-60  
MALVIYA NAGAR  
NEW DELHI-110017
- 124 081317 MR. AGGARWAL JAGDISH PARSHAD  
M.AGARWAL & ASSOCIATES., F-74  
1ST FLOOR, GREEN PARK MAIN  
NEW DELHI-110016
- 125 081425 MR. MALHOTRA KANWER SURINDER  
11752/5 SAT NAGAR  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 126 081518 MR. MITTAL SHASHI KANT  
KANT & CO  
KANT ENCLAVE  
NARVANA-126116
- 127 081693 MR. GUPTA MOHIT  
B-VII 1097/IC  
VIKAS NAGAR  
CLOCK TOWER  
LUDHIANA-141001

- 128 081711 MR. MAHALINGAM RAVI  
88A GF DDA FLATS  
MASJID MOTH  
PHASE-II  
NEW DELHI-110048
- 129 081768 MR. MANGAL RAJESH KUMAR  
301 MAHAVIR SHREE HOUSE  
4771/23 BHARAT RAM ROAD  
DURGA GANJ  
NEW DELHI-110002
- 130 081905 MR. VIJAY KUMAR  
CHARTERED ACCOUNTANT  
CHANDER LOK COLONY  
STREET NO.3  
BEHIND ARORA CLINIC  
MANDI GOBINDGARH-147301
- 131 081963 MR. JAIN ARVIND KUMAR  
JAIN NIDHI & ARVIND  
106, 1ST FLOOR C-17 GURU NANAK PURA  
OPP LAXMI NAGAR DISTT CENTRE  
DELHI-110092
- 132 082012 MR. VISHAW RATTAN  
32 MIRABELL COURT  
BRAMPTON  
ONTARIO-L6W 4L1
- 133 082042 MR. WALIA ARVIND  
COO-HEWKEL TEROSON INDIA LTD  
74, IDL MEHRAULI ROAD  
GURGAON-122001
- 134 082091 MR. MATHUR YOGESH  
E-107, NARWANA APTS.  
89 PATPAR GANJ  
DELHI-110092
- 135 082102 MR. CHADHA NAVEEN  
E-372, GREATER KAILASH-I  
NEW DELHI-110048
- 136 082131 MR. AGRAWAL AJAY KUMAR  
62 JAGARATI ENCLAVE VIKAS MARG  
EXTENSION  
DELHI-110092
- 137 082144 MR. GUPTA VINOD KUMAR  
G-207 RASHMI APARTMENTS  
HARSH VIHAR  
PITAM PURA, DELHI-110034
- 138 082166 MR. SUNDAR RAMAN B  
K-68, FIRST FLOOR  
JANGPURA EXTENSION  
NEW DELHI-110014
- 139 082273 MR. MITTAL RAJINDER PARSHAD  
6/52, WEST PUNJABI BAGH  
NEW DELHI-110026
- 140 082294 MR. KAPOOR VIVEK  
VIVEK KAPOOR & CO  
26 MAJITHA ROAD  
AMRITSAR
- 141 082368 MR. GUPTA RAJENDER PARSHAD  
2/B, SAGAR APARTMENTS  
6, TILAK MARG  
NEW DELHI-110002
- 142 082410 MR. HARISH CHANDER  
37/44, WEST PUNJABI BAGH  
NEW DELHI-110026
- 143 082414 MR. DHAWAN RAJAN  
D-12, WEST NIZAMUDDIN  
NEW DELHI-110014
- 144 082435 MR. DATTA VIJAY KUMAR  
A-2/174  
SAFDARJANG ECLAVE  
NEW DELHI-110029
- 145 082547 MR. AGGARWAL RANBIR SINGH  
4517 IST FLOOR  
KRISHNA BAZAR  
CLOTH MARKET  
DELHI-110006
- 146 082555 MR. GUPTA SANDIP  
3928/28 REGHARPURA KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 147 082607 MR. JINDAL RAJ KUMAR  
205A, BHAVAL HOUSE  
17, YUSUF SARAI COMM. COMPLEX  
NEW DELHI-110016
- 148 082670 MR. JUNEJA PARVIN  
E-47, GREATER KAILASH-II  
NEW DELHI-110048
- 149 082672 MR. AJMANI RAKESH KUMAR  
143-B SECOND FLOOR  
LIG FLATS RAJOURI GARDEN  
NEW DELHI-110027
- 150 082695 MR. AGGARWAL ASHOK KUMAR  
3288 PEEHAL MAHADERE  
HAUZ QAZI  
DELHI-110006

- 151 082715 MR. AGGARWAL ANIL KUMAR  
B-5/286 (SFS)  
SECTOR -8  
ROHINI  
DELHI-110085
- 152 082780 MR. SHARMA RAMESH KUMAR  
B-1, NEW CAMPUS  
UNIVERSITY OF JAMMU  
JAMMU TAWI-180001
- 153 082787 MR. AHUJA MANOJ KUMAR  
M K AHUJA & ASSOCIATES  
HOUSE NO 1430  
SECTOR 15  
PANCHKULA-134115
- 154 082840 MR. SINGH RAJINDER PAL  
8, IIND FLOOR  
MAIN ROAD  
CHIRAG DELHI  
NEW DELHI-110017
- 155 082866 MR. NANGIA PRAVEEN  
C/O SERVA ASSOCIATES  
8/28, W.E.A.  
ABDUL AZIZ MARG, IIRD FLOOR  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 156 082925 MR. DHAMIJA NARENDRA KUMAR  
D-34, AJAY ENCLAVE  
NEW DELHI-110018
- 157 082950 MR. MASALDAN SHAILENDRA NARAIN  
M/S. S N MASALDAN & CO  
240 SIDDARTH ENCLAVE  
NEAR ASHRAM CHOWK  
NEW DELHI-110014
- 158 082975 MR. GUPTA RAKESH KUMAR  
E-13/4 VASANT VIHAR  
NEW DELHI-110057
- 159 082986 MR. MITRA BISHWAJIT  
FLAT NO 305  
1191/6 ELAHI BUX ROAD  
NAIWALA  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 160 083020 MR. MALIK VIJAY SINGH  
10-B NETAJI SUBASH MARG  
DARYA GANJ  
NEW DELHI-110002
- 161 083044 MR. LAMBA PRADEEP  
47 PRIMROSE AVENUE  
CHADWELL HEATH  
ROMFORD  
ESSEX-RM6 4PU
- 162 083056 MR. AHUJA TRILOK KUMAR  
114A, ARTHUR ROAD,  
# 07-01 KATONG PARK TOWER  
SINGAPORE-439826
- 163 083071 MR. SURI MANINDER PAL SINGH  
405, SOUTH EX PLAZA-II  
N.D.S.E. PART-II  
NEW DELHI-110049
- 164 083125 MR. ARORA SUDARSHAN  
M/S S ARORA & CO  
187, SATYA NIKETAN  
IIND FLOOR  
NEW DELHI-110021
- 165 083137 MR. KANOJIA KISHORE KUMAR  
REGIONAL AUDIT MANAGER  
C/O EMIRATES  
INTERNAL AUDIT DEPT  
P.O. BOX 686  
DUBAI
- 166 083138 MR. AGARWAL GIRISH KUMAR  
09316, GAUSHALA ROAD  
KISHAN GANJ, DELHI-110007
- 167 083187 MR. CHANDNA JOGINDER  
J CHANDNA & CO  
303, SEWAK BHAWAN  
16/2, W.E.A. KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 168 083196 MR. MAHAJAN AJAY  
46132, AISQUITH TERRACE STERLING  
VIRGINIA-13007(USA)
- 169 083201 MR. BHASIN BRIJ MOHAN  
DY. GENERAL MANAGER  
H D F C LTD  
CAPITAL COURT, OLOF PALME GARG  
MUNIRKA, NEW DELHI-110067
- 170 083206 MR. SINGH GURVINDER  
52 MAUSAM VIHAR  
DELHI-110051
- 171 083231 MR. AGGARWAL AWANISH KUMAR  
C-451, MALHOTRA HOUSE  
ARJUN NAGAR  
OPP. DEFENCE COLONY  
NEW DELHI-110003

- 172 083248 MR. NEHRU RAVINDER KUMAR  
NEAR POLICE POST  
RAJBAGH  
SRINAGAR
- 173 083405 MR. BANSAL DAYA PRASAD  
SFS OOA FLAT NO. 154  
DR. MUKHERJEE NAGAR  
DELHI-110009
- 174 083413 MR. GUPTA NARENDRA MOHAN  
C-28 MAYFAIR GARDEN  
NEW DELHI-110016
- 175 083440 MR. SYAL SANJIV  
2ND FLOOR  
61, PANCHKUIAN ROAD  
NEW DELHI-110001
- 176 083459 MR. SHARMA UMESH KUMAR  
E-73, DDA MIG FLATS  
SAKET  
NEW DELHI-110017
- 177 083469 MR. SATISH KUMAR  
103 ANUPAM APARTMENTS  
M B ROAD  
SAKET  
NEW DELHI-110017
- 178 083477 MR. GOEL KUMUO  
MANAGING DIRECTOR  
KLG SYSTEL LIMITED, UNIT 3-6, GROUND  
FLOOR  
TDWER-A, UNITECH BUSINESS PARK  
F BLOCK, SOUTH CITY-I, SECTOR-41  
GURGAON-122001
- 179 083513 MR. GOEL ANIL  
P O BOX 16776  
DUBAI
- 180 083545 MR. SATISH KUMAR  
NEELAM'S NEST  
B-21, FIRST FLOOR  
MOTI NAGAR  
NEW DELHI-110015
- 181 083572 MR. KULBHUSHAN KUMAR  
B-18, MODEL TOWN ROAD  
NEAR INCOME TAX OFFICE  
OPP. PRAKASH COLOR LAB  
JALANDHAR-144001
- 182 083583 MR. DHINGRA SUNIL  
10-F - MALVIYA COMPLEX  
M M MALVIYA ROAD  
AMRITSAR-143001
- 183 083625 MR. DADU MAHENDRA  
C-13 MANSAROVER GARDEN  
NEW DELHI-110015
- 184 083643 MR. KANT HARDESH  
29 NEW GRAIN MARKET  
AMBALA CITY  
AMBALA-134003
- 185 083719 MR. SATISH KUMAR  
47 BALBINDER APARTMENTS  
A-6 PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 186 083779 MR. MEHTA RAJAT KUMAR  
GE CAPITAL SERVICES INDIA  
4 A OLF CORPORATE PARK  
PHASE-III  
GURGAON-122002
- 187 083803 MR. KUMAR KAMAL  
137, GARG PLAZA  
SANT NAGAR ROAD  
COMMUNITY CENTRE  
PITAMPURA  
DELHI-110034
- 188 083804 MR. GOYAL ANIL  
KOTHI NO-217 C  
BHAI RANDHIR SINGH NAGAR  
LUDHIANA-141001
- 189 083870 MR. GUPTA MUKESH KUMAR  
105 CHAUDHARY COMPLEX  
9 MAOHUBAN ROAD  
DELHI-110092
- 190 084063 MR. AGGARWAL PRAVEEN  
33-B PLEASURE GARDEN MARKET  
CHANDNI CHOWK  
DELHI-110006
- 191 084096 MR. JAIN AJAY  
C-14, C.C. COLONY  
DELHI-110007
- 192 084122 MR. ASHOK KUMAR  
5-A/10972, W.E.A.  
SANT NAGAR  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 193 084151 MR. JOHAR MANINDER SINGH  
405 SOUTH EX PLAZA II  
SOUTH EXTN-II  
NEW DELHI-110049



- 194 084261 MR. KHULLAR DEEPAK  
C/O STANDARD CHARTERED BANK  
P O BDX 999  
DUBAI
- 195 084276 MR. GUPTA SURESH KUMAR  
SCO 44  
HUDA COMPLEX  
ROHTAK-124001
- 196 084341 MR. ASHOK KUMAR  
P-7, GREEN PARK EXTENSION  
NEW DELHI-110016
- 197 084357 MR. SUNIL KUMAR  
7/69 MOTI NAGAR  
NEW DELHI-110015
- 198 084452 MR. KAPOOR SANJAI  
7A, PKT -D, SFS FLATS  
MAYUR VIHAR PHASE-III  
DELHI-110096
- 199 084507 MR. SHARMA VIVEK KRISHNA  
C-67 NIZAMUDDIN EAST  
NEW DELHI-110013
- 200 084603 MR. SAHI ASHOK KUMAR  
FLAT NO. 32  
SHANKAR MARKET  
CONNAUGHT PLACE  
NEW DELHI-110001
- 201 084685 MR. BAWA AJAY  
50/8, FIRST FLOOR  
TOLSTOY LANE  
JANPATH  
NEW DELHI-110001
- 202 084693 MR. RAHEJA NARINDRA  
CHIEF FINANCIAL OFFICER  
BHARTI TELENET LTD  
224, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE  
PHASE-III, NEW DELHI-110020
- 203 084785 MR. KHANNA RAKESH  
M-115-A GREATER KAILASH PART I  
NEW DELHI-110048
- 204 084796 MS. KHURANA URMILA  
D-3/3, VASANT VIHAR  
NEW DELHI-110057
- 205 084874 MR. KELKAR MILIND KUMAR  
"ASHIRVAD"  
27, BHARTI ARTISTS COLONY  
VIKAS MARG, TRANS YAMUNA  
DELHI-110092
- 206 085025 MR. SACHOEVA DILBAGH SINGH  
63 WEST AVENUE ROAD  
WEST PUNJABI BAGH  
NEW DELHI-110026
- 207 085091 MR. DAVINDER KUMAR  
D-1/116  
JANAKPURI  
NEW DELHI-110058
- 208 085092 MR. JAIN SUNIL KUMAR  
V-25, GREEN PARK MAIN  
NEW DELHI-110016
- 209 085109 MR. KANWAR SATISH KUMAR  
262 SECTOR 17  
FARIDABAD-121001
- 210 085125 MR. GARG ROSHAN LAL  
GOHANA ROAD  
OPP-MALIK HOSPITAL  
PANIPAT-132103
- 211 085188 MR. CHOUDHARY DEEPAK KUMAR  
BLK 104 # 04-112 BUKIT PURMEI ROAD  
SINGAPORE-090104
- 212 085196 MR. GUPTA PRAKASH CHANDRA  
E-45 N D S E PART - I  
NEW DELHI-110049
- 213 085238 MR. NARESH KUMAR  
2044/6, CHUNA MANDI  
PAHARGANJ  
NEW DELHI-110055
- 214 085247 MR. JAIN KAMAL  
ROOM NO.206  
WP -504, SHIV MARKET  
ASHOK VIHAR  
DELHI-110052
- 215 085276 MR. SETH PRAVEEN  
SCO 183-184-185  
SECTOR 17C  
CHANDIGARH-160017
- 216 085289 MR. SACHAR ROMINDER SINGH  
17 REHMAN BUILDING SHAHADRA  
DELHI-110032
- 217 085350 MR. AGRAWAL MANOJ KUMAR  
BA/48-C, ASHOK VIHAR  
PHASE-1  
DELHI-110052

- 218 085372 MR. CAMPBELL ANOOP  
GENERAL MANAGER (FINANCE)  
ARCHIES GREETINGS & GIFTS LTD  
A-37 NARAINA INDUSTRIAL AREA  
PHASE-1  
NEW DELHI-110028
- 219 085403 MR. DHALIWAL AVTAR SINGH  
AVTAR SINGH & CO  
DARA PUR DISTT HOSHIARPUR  
TANDA URMUR-144203
- 220 085413 MR. JAIN NANDI WARDHAN  
14, ARIHANT NAGAR  
NEW DELHI-110026
- 221 085416 MR. VIJ SUDHIR  
2/63 ROOP NAGAR  
DELHI-110007
- 222 085420 MR. MATHUR VINEET  
X-5, GREEN PARK MAIN  
NEW DELHI-110016
- 223 085481 MR. SIKRI KRISHAN  
6/79 W E A  
GURUDWARA ROAD  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 224 085518 MR. AHUJA HARINDER PAL SINGH  
595, MODEL TOWN  
JAI SINGH COMPLEX  
DPP. RARE WALA MARKET  
LUDHIANA-141002
- 225 085521 MR. KUNDRA ASHISH KUMAR  
A KUNDRA & CO  
44-B TAGORE NAGAR CIVIL LINES  
LUDHIANA-141001
- 226 085550 MR. DUTTA RAJORSHI  
WIPROSPECTRAMIND SERVICES LTD  
239, OKHLA INDL. ESTATE, PHASE III  
NEW DELHI-110020
- 227 085586 MR. SACHDEVA MANOJ KUMAR  
M K SACHDEVA & ASSOCIATES  
108 SUNEHRI BAGH APARTMENTS  
SECTDR 13 ROHINI  
DELHI-110085
- 228 085645 MR. MATHURIA RAJESH  
4E/7 JHANDEWALAN EXTN  
4TH FLDOR  
NEW DELHI-110055
- 229 085647 MR. ARORA MUKESH KUMAR  
A-504 SAHARA APPARTMENT  
PLOT NO 11 SECTOR 6  
DWARKA  
NEW DELHI-110045
- 230 085673 MR. YADAV NISHITH  
8 VEER SAVARKAR BLOCK  
MADHUBAN ROAD  
OPP NIRMAN VIHAR  
DELHI-110092
- 231 085686 MR. GOELA SANJEEV  
76, ANSON STREET,  
ORANGE NSW 2800,  
AUSTRALIA
- 232 085694 MR. BALBIR SINGH  
1418, SECTOR-61  
CHANOIGARH-160062
- 233 085729 MR. MAINI DINESH  
D-24 GROUND FLOOR  
GULMOHAR PARK  
NEW DELHI-110049
- 234 085835 MR. SUSHIL KUMAR  
C\_1/21 JANAK PURI  
NEW DELHI-110058
- 235 085837 MR. MOHINDER KUMAR  
SHOP NO 33  
DISTT ROHTAK (HARYANA)  
SAMPLA MANDI  
ROHTAK-124501
- 236 085964 MR. SETH RAMAN  
7042 MANDI GHAS  
PAHARI DHIRAJ  
DELHI-110006
- 237 085969 MR. SDOD DINESH  
B-3/64 SAFDARJUNG ENCLAVE  
NEW DELHI-110029
- 238 085984 MR. SOOD RAJEEVE  
HDOSE ND. 596  
SECTOR-16D  
CHANDIGARH-160015
- 239 086040 MR. SINGH MANMOHAN  
C/O MANJIT ELECTRI WORKS  
NATIONAL ROAD  
NEAR POST OFFICE GHUMER MANDI  
LUDHIANA-141001

- 240 086090 MR. TANDON NARESH KUMAR  
N TANDON & CO  
61 SANJAY GRAM  
OPP SECTOR -14  
DELHI ROAD  
GURGAON-122001
- 241 086096 MR. CHOPRA SUDHIR  
F-4/16, MODEL TOWN  
DELHI-110009
- 242 086105 MR. KALRA PARMINDER SINGH  
E-36 GREATER KAILASH PART-I  
NEW DELHI-110048
- 243 086251 MR. SINGH ARVINDER  
166, GURU AMARDAS NAGAR  
NEAR VERKA MILK PLANT  
JALANDHAR CITY  
JALANDHAR-144008
- 244 086252 MR. KANWAR JATINDER PAL SINGH  
EXECUTIVE DIRECTOR  
RAVNAQ AUTOMOTIVE COMPONENTS LTD  
CHIRANJIV TOWER 15TH FLOOR 43 NEHRU  
PLACE  
NEW DELHI-110019
- 245 086310 MR. GULATI JOGINDER SINGH  
J-30 VIKAS PURI  
NEW DELHI-110018
- 246 086330 MR. AGGARWAL MUKESH KUMAR  
C/O M/S AGARWAL JINDAL & ASSOCIATES  
10129, EAST PARK ROAD  
KAROL BAGH (OPP. FILMISTAN)  
NEW DELHI-110005
- 247 086391 MR. SAWHNEY AJAY  
AJAY SAWHNEY & ASSOCIATES  
E-82, RAMESH NAGAR  
NEW DELHI-110015
- 248 086446 MR. RADHAKRISHNAN P R  
E-305 GREATER KAILASH PHASE II  
NEW DELHI-110048
- 249 086532 MR. KHURANA RAM SAWRUP  
R S KHURANA & CO  
201, A-23/24, SATIJA HOUSE,  
DR. MUKERJEE NAGAR COMMERCIAL COM-  
PLEX,  
DELHI-110009
- 250 086564 MR. KALUCHA VINEET  
14/84A VIKRAM VIHAR  
LAJPAT NAGAR-4  
NEW DELHI-110024
- 251 086639 MR. HARISH MOHAN  
6, GABRIELLE CRES  
WHITBY ON-L1R 3M7
- 252 086688 MR. KALIA SUMANISH KUMAR  
D-67 PANCHSHEEL ENCLAVE  
NEW DELHI-110017
- 253 086760 MR. GANDHI PANKAJ  
1539 SECTOR 22-B  
CHANDIGARH-160022
- 254 086799 MR. SAHAY SHAIVAL  
D-17 GREATER KAILASH ENCLAVE  
PART -II, NEW DELHI-110048
- 255 086843 MR. CHOPRA SUNIL  
266 KALYAN VIHAR  
DELHI-110009
- 256 086872 MR. SURESH KUMAR  
7341 PREM NAGAR  
GALI NO 1 SUBZI MANDI  
DELHI-110007
- 257 086892 MR. GUPTA CHAMAN LAL  
21 MANAK VIHAR  
DELHI CANTT  
NEW DELHI-110010
- 258 086902 MR. MATHUR DILIP NATH  
203-204 AVADH COMPLEX  
D-5 LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 259 086939 MR. VINAY KUMAR  
C-12 FRIENDS APARTMENTS  
PLOT NO 49 PATPARGANJ  
DELHI-110092
- 260 086961 MR. GUPTA AJAY KUMAR  
D-288/10, LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 261 086979 MR. SETH SANDEEP  
65/42, NEW ROHTAK ROAD  
NEW DELHI-110005
- 262 087017 MR. NAIR MOHAN  
G-15 HANS BHAWAN  
1 BAHADURSHAH ZAFAR MARG  
NEW DELHI-110002
- 263 087031 MR. GUPTA RAJIV  
RAJIV SAT BHUSHAN & ASSOCIATES  
S.C.O. 1,2,3, 4TH FLOOR  
ABOVE SBI TREASURY  
SECTOR 17-B, CHANDIGARH-160017

- 264 087052 MR. AGARWAL RAKESH KUMAR  
G-19 FRIST FLOOR  
TIWARI COMPLEX  
VIJAY CHOWK  
LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 265 087075 MR. DUGGAL MADHU RANJAN  
56 DDA FLATS GULMOHAR ENCLAVE  
NEW DELHI-110049
- 266 087116 MR. DEEPAK KUMAR  
112-B, DDA FLATS, EKTA ENCLAVE  
PIRAGARHI  
NEW DELHI-110041
- 267 087195 MR. GUPTA BRIJ MOHAN  
2169 MAIN RDAD  
WEST PATEL NAGAR 2nd FLOOR  
NEW DELHI-110008
- 268 087268 MR. BAWEJA RAKESH KUMAR  
F-14 SHIVAM HOUSE  
CONNAUGHT PLACE  
NEW DELHI-110001
- 269 087271 MR. BHARAT KUMAR  
S- 524 VIKAS MARG  
SHAKARPUR  
DELHI-110092
- 270 087309 MR. PRABHAT KUMAR  
143 PRINCETON STREET  
ROSLYN HEIGHTS  
NEW YORK 11577  
U S A
- 271 087310 MS. AGARWAL SANJULI  
SANJULI & ASSOCIATES  
B-40 PANCHSHEEL ENCLAVE  
NEW DELHI-110017
- 272 087329 MR. MEHRA SANDEEP  
470/4, URBAN ESTATE  
GURGAON-122001
- 273 087418 MR. BHATNAGAR PANKAJ KUMAR  
C-393, YOJANA VIHAR  
DELHI-110092
- 274 087504 MR. NAYAR RAJIVE  
M-401 GURUHARKISHAN NAGAR  
IIND FLOOR PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110087
- 275 087519 MR. SANJEEV KUMAR  
H.NO. 43 SECTOR 10  
PANCHKULA-134109
- 276 087587 MR. BISARIA DEVENDRA  
SECTOR B POCKET 9 FLAT NO 6395  
VASANTKUNJ  
NEW DELHI-110070
- 277 087593 MR. AGARWAL MUKESH KUMAR  
HABUL OFFSHERE SERVICES COMPANY  
POST BOX NO 24600  
DOHA
- 278 087594 MR. KHUSHU SANJAY  
120 COLLINS STREET  
MELBOURNE  
VIC-3000, AUSTRALIA
- 279 087651 MR. MANISH VIMAL  
C/O PT INDORAMA SYNTHETICS  
16TH GRAHA IRAMA BUILDING  
JL H R RASUNA SAID KAV 1 & 2  
BLOCK X-I  
JAKARTA
- 280 087689 MR. KHULLAR RAJEEV  
J84 RESERVE BANK ENCLAVE  
PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110068
- 281 087711 MR. SAHA PINAKI  
ACCOUNTING MANAGER  
BECHTEL INDIA PVT LTD  
249A, UDYOG VIHAR, PHASE IV  
GURGAON-122015
- 282 087729 MR. DEORA ARUN KUMAR  
FF/3, STUTEE  
BANK STREET  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 283 087731 MR. CHOPRA SANJAY  
6A, LIG FLATS,  
RAJOURI GARDEN,  
NEW DELHI-110027
- 284 087739 MR. RAJENDRA PRASAD  
106/C-1 KRISHNA NAGAR  
STREET NO 6  
SAFDARJUNG ENCLAVE  
NEW DELHI-110016
- 285 087820 MR. JAIN NIPUN  
713 KILASH  
26 KASTURBA GANDHI MARG  
NEW DELHI-110001
- 286 087830 MR. GHIYA SUNIL  
HOUSE NO. 847  
SECTOR-17, FARIDABAD-121002

- 287 087855 MR. CHATURVEDI KAILASH NATH  
H NO 1764  
SECTOR 16  
FARIDABAD-121002
- 288 087930 MR. MATHUR ANUJ  
B-102 UNESCO  
55 I.P EXTENSION  
DELHI-110092
- 289 087952 MR. GARG AJAY KUMAR  
4855-56/24, ANSARI ROAD  
DARYA GANJ  
NEW DELHI-110002
- 290 087983 MR. MEHTA ARUN  
103-104 AWADH COMPLEX  
D-5 LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 291 087992 MR. JAIN SHASHANK  
26-C DDA-FLATS  
MASJID MOTH  
NEW DELHI-110048
- 292 088049 MR. CHOPRA ARVIND  
73 RING ROAD  
LAJPAT NAGAR-III  
NEW DELHI-110024
- 293 088083 MR. CHANDRA VINIT  
CITIBANK N.A  
1 TEMASEK AVENUE  
#32-01 MILLENIA TOWER  
SINGAPORE-39192
- 294 088104 MR. HINGORANI SUNIL  
C-39, MAYFAIR GARDENS  
NEW DELHI-110016
- 295 088116 MS. SOKHI DILPREET SINGH  
37 RAJPUR ROAD  
DELHI-110054
- 296 088126 MR. SHARMA ATUL  
58 DAYANAND VIHAR  
VIKAS MARG EXTENSION  
DELHI-110092
- 297 088183 MR. KATHURIA VIJAY KUMAR  
D-4/18, KRISHNA NAGAR,  
DELHI-110051
- 298 088196 MR. RAVINDER KUMAR  
RAVINDER SUNGER & CO  
D-41 GARONDHA APPARTMENT  
SHRESTHA VIHAR  
DELHI-110092
- 299 088211 MR. AHUJA NAVEEN  
E-131, MOHAMMED PUR  
ADJ. BHIKAJI CAMA PLACE  
NEW DELHI-110066
- 300 088220 MR. CHAWLA ARUN  
20/22 PUNJABI BAGH  
NEW DELHI-110026
- 301 088240 MR. BHARAT BANDHU  
4227, SECTOR-D  
POCKET-4  
VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 302 088352 MR. SARAWAT ROHIT  
277, DU VILLAGE  
DOLLARD DES ORMEAUX  
QUEBEC  
CANADA-H9B IM8
- 303 088373 MS. DHIR BINU  
M/S. HOTLINE INFORMATION SERVICES  
302 IIIIRD FLOOR 5 PUSA ROAD  
NEW DELHI-110005
- 304 088392 MR. GUPTA SANJEEV  
C-442 SECTOR 18  
ROHINI  
DELHI-110085
- 305 088436 MR. SEHGAL RAJEEV  
34/46, WEST PATEL NAGAR  
NEW DELHI-110008
- 306 088441 MR. BHATNAGAR PRAVEEN  
P.O. BOX 24570  
LANDMARK GROUP  
DUBAI
- 307 088459 MR. BHANDARI NEERAJ  
B-88, ASHOK VIHAR  
PHASE-I, NEW DELHI-110052
- 308 088475 MR. DHINGRA RAJEEV  
C-2/82-C, LAWRENCE ROAD  
DELHI-110035
- 309 088536 MR. DHIR ARUN  
4, DALBY CLOSE  
ROWVILLE  
VICTORIA-3178(AUSTRALIA)
- 310 088698 MR. JHA KAMLESH KUMAR  
K K JHA & ASSOCIATES  
D-81 GROUND FLOOR  
(LEFT PORTION)  
KALKAJI, NEW DELHI-110019

- 311 088770 MR. UPPAL GURINDER SINGH  
GURINDER SINGH UPPAL & ASSOCIATES  
H NO 206  
SECTOR 21-A  
CHANDIGARH-160022
- 312 088802 MR. SHARMA SANJEEV KUMAR  
H.NO 275, SECTOR 16  
FARIDABAD
- 313 088803 MR. JAIN SANJIVE KUMAR  
B-5/13, FIRST FLOOR  
RANA PRATAP BAGH  
DELHI-110007
- 314 088836 MR. MAHESH CHAND  
C/O. AGGARWAL CLINIC  
CHAWLA COLONY  
BALLABGARH-121004
- 315 088855 MR. KHANDPUR SURESH KUMAR  
115- A EKTA ENCLAVE  
PEERA GARHI CHOWK  
NEW ROHTAK ROAD  
NEW DELHI-110087
- 316 088955 MR. MALHOTRA SANJAY KUMAR  
ASSISTANT MANAGER  
INVESTCORP BANK E.C.  
P.O BOX 5340  
MANAMA (BEHRAIN)
- 317 089018 MR. BHATIA RAJEEV  
202 A-20, INDRAPRASTHA BHAWAN  
MUKHERJI NAGAR COMMERCIAL COMPLEX  
MUKHERJI NAGAR  
DELHI-110009
- 318 089060 MR. DUGGAL NASHEET  
B-3/397, PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 319 089083 MR. RAVISHANKAR S  
S RAVISHANKAR & ASSOCIATES  
302 NIRMAN APARTMENTS  
MAYUR VIHAR PHASE-I EXTN  
DELHI-110091
- 320 089145 MR. HARI NARAYANAN B  
165 SHEIKH SARAH  
DDA RPS FLATS  
NEW DELHI-110017
- 321 089224 MR. BHUPENDAR KUMAR  
WZ-439 M S BLOCK  
HARI NAGAR  
NEW DELHI-110064
- 322 089232 MR. SINGH RAVINDER KUMAR  
141, SIYA RAM APPTS  
102, I.P. EXTENSION  
DELHI-110092
- 323 089281 MR. VIVEK KUMAR  
82, PIONEER WAY  
MOUNTAIN VIE, C.A.  
U S A-94041
- 324 089347 MR. JERATH MANISH  
A-23, MEERA BAGH  
NEW DELHI-110087
- 325 089354 MR. MADAN SUSHIL  
WZ-760 RISHI NAGAR  
DELHI-110034
- 326 089391 MR. VARMA VIKAS  
Y-46/4, DEODHAR MARG,  
DLF PHASE-1,  
GURGAON-122002
- 327 089459 MR. KHULLAR VIKRAM  
C/O P T SCHLUMBERGER  
GEOPHYSICS, NUSANT SENTA  
MULIN BLDG, 17TH FLOOR, SUITE 1702, J1 #R  
RASUNA SAIE, KAU, X-6, NO.8,  
JAKARTA-12940
- 328 089537 MR. NARESH KUMAR  
GF-5, HANS BHAWAN  
WING-II, B S Z MARG  
NEW DELHI-110002
- 329 089547 MR. SHARMA VIJAY KUMAR  
65-A KRISHNA COLONY  
ITI ROAD  
YAMUNANAGAR-135001
- 330 089573 MR. MAHESH KUMAR  
SUITE # 308,  
4 HANOVER ROAD  
BRAMPTON-ON L6S 4J1
- 331 089585 MR. KOHLI RAMINDER SINGH  
B-142, SWASTHYA VIHAR  
VIKAS MARG  
DELHI-110092
- 332 089587 MR. SINGHAL GOVIND KUMAR  
FLAT NO 82 BLOCK-D  
ANUPAM APARTMENTS  
B-13 VASUNDHRA ENCLAVE  
DELHI-110096

- 333 089588 MR. BAHL DEVESH  
E-4/3, VASANT VIHAR  
NEW DELHI-110057
- 334 089590 MS. KHULLAR NANDITA  
J-84, RBI ENCLAVE  
PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 335 089635 MR. SHARMA SANJEEV  
IIND FLOOR, G-134, VIKASPURI  
NEW DELHI-110018
- 336 089640 MR. NANDA PANKAJ  
FLAT NO. 72, VIDYA APARTMENTS  
MIANWALI NAGAR  
ROHTAK ROAD  
NEW DELHI-110041
- 337 089647 MR. JAIN DHARMENDRA  
A-146/26 CHAUDHARY CHAMBERS  
DELHI VIKAS MARG SHAKARPUR  
DELHI-110092
- 338 089720 MR. SHARMA ANIL KUMAR  
ANIL KUMAR SHARMA & CO  
MB-134 SHAKARPUR  
DELHI-110092
- 339 089733 MR. BANSAL AJAY  
YUM RESTAURANTS (INDIA)(PVT LTD  
12 COMMUNITY CENTRE  
SAKET  
NEW DELHI-110017
- 340 089806 MR. NAYYAR DEEPAK  
N-21 MALVIYA NAGAR  
NEW DELHI-110017
- 341 089815 MR. GARG SANDEEP  
GD-195, PITAMPURA  
DELHI-110034
- 342 089830 MR. GUPTA SATISH KUMAR  
NEW P T HOUSE  
BARA BAZAR  
SHAMLI-247776
- 343 089832 MR. KAPOOR SUNIL  
KP-141, MAURYA ENCLAVE  
PITAM PURA  
DELHI-110034
- 344 089833 MR. KHANNA RAJESH  
1/10492-A SHIV MANDIR MARG  
MOHAN PARK  
NAVEEN SHAHDARA  
DELHI-110032
- 345 089861 MR. KOHLI DHANANJAI  
B-8/6064,  
VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 346 089912 MR. JAIN ARUN  
GENERAL MANAGER-INTERNAL AUOIT  
RANBAXY LABORATORIES LTD  
PLOT NO 90, SECTOR-32  
GURGAON-122001
- 347 089917 MR. MAKKAR GEET PAUL  
G P MAKKAR & CO  
11, DAYANAND NAGAR  
LAWARANCE ROAD  
AMRITSAR-143001
- 348 089946 MR. GUPTA DEEPAK  
HOUSE NO. 11, ROAD NO. 7  
EAST PUNJABI BAGH  
NEW DELHI-110026
- 349 089984 MR. BANSAL DHARAM PRAKASH  
PLOT NO.36,HOUSE NO.61  
STREET NO.6,BIHARI COLONY  
SHAHDRRA  
DELHI-110032
- 350 090041 MR. GAUR PRATUL  
8B, POCKET-2, PHASE-2  
TYPE A  
KONDLI GHAROLI  
DELHI-110096
- 351 090058 MS. BANERJEA DIPASRI  
E-51, PANCHSHEEL PARK  
NEW DELHI-110017
- 352 090108 MR. KAPUR SANJAY  
414 POCKET F  
SARITHA VIHAR  
NEW DELHI-110044
- 353 090126 MR. BAGARIA KALU RAM  
C-13, BRAHMA APARTMENTS  
PLOT NO.7  
SECTOR-07  
DWARKA PHASE-1,  
NEW DELHI-110075
- 354 090137 MR. AHUJA ARAN  
28, DSIDC COMPLEX  
MATA SUNDARI ROAD  
NEW DELHI-110002

- 355 090152 MR. SATISH KUMAR  
252 BHERA ENCLAVE  
PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110087
- 356 090220 MR. GABA VIJAY KUMAR  
C/O NVR & ASSOCIATES  
606, NEW DELHI HOUSE  
27, BARAKHAMBHA ROAD  
CONNAUGHT PLACE  
NEW DELHI-110001
- 357 090251 MR. ANIL KUMAR  
HOUSE NO-674  
SECTDR 31  
GURGADN-122001
- 358 090294 MR. GANDHI AJIT  
A-50, COSY HOME APTS  
SECTOR-9  
ROHINI  
DELHI-110085
- 359 090379 MS. LOGANEY JYOTI  
93 SPRINGFIELD ROAD  
ABERDEEN SCOTLAND  
U K AB 15 7RT
- 360 090407 MR. JINDAL MANISH  
1 TODAR MAL LANE  
BENGALI MARKET  
NEW DELHI-110001
- 361 090434 MR. GOEL VIKAS  
A-75, JAL VAYU VIHAR  
KAMANAHALLI MAIN ROAD  
BANGALORE-560043
- 362 090444 MR. JAIN SANJAY  
G-3 M C D FLATS  
BHAMASHAH MARKET  
KAMLA NAGAR  
DELHI-110007
- 363 090453 MR. GAGAN ANAND  
235, MODEL GRAM  
LUDHIANA-141002
- 364 090454 MR. NANDA HEMANT  
11 METCHCALFE ROAD  
CIVIL LINES  
DELHI-110054
- 365 090488 MR. ARUN KUMAR  
HANG OIL MILLS  
483 SHAM NAGAR  
LUDHIANA-141001
- 366 090546 MR. WADHWA RAJIV  
182 SATYA NIKETAN  
NEW DELHI-110021
- 367 090624 MR. ARVINDER SINGH  
E-121 INDUSTRIAL AREA  
PHASE-VII  
DISTT RDPAR (PUNJAB)  
S A S NAGAR-160055
- 368 090693 MR. GUPTA SANJEEV KUMAR  
28B, JANYUG APTS  
SECTOR-14  
ROHINI  
DELHI-110085
- 369 090736 MR. GUPTA RAJESH KUMAR  
C/O NATHU RAM GOYAL  
RAILWAY ROAD  
MALERKOTLA-148023
- 370 090746 MR. SURESH KUMAR  
15 ADARSH NAGAR  
NEAR MODERN SCHOOL  
HISAR-125001
- 371 090774 MR. SANJAY KUMAR  
370-371/2 SAHI HOSPITAL ROAD  
JANGPURA  
BHOGAL  
NEW DELHI-110014
- 372 090873 MR. NARULA SUDEEP SINGH  
40/57 C R PARK  
NEW DELHI-110019
- 373 090957 MR. TEJODHAR MANNAVA SRINIVASA  
C/O RAJINDER SINGH & CO  
6/85-86, MALVIYA NAGAR  
LGF  
NEW DELHI-110017
- 374 090961 MR. VAIDHYANATHAN P K  
VAIDHYANATHAN & ASSOCIATES  
EA/204 G-8 AREA  
MAYA ENCLAVE HARI NAGAR  
NEW DELHI-110064
- 375 090985 MR. VIJ VIMAL  
A-2 DAYANAND COLONY  
LAJPAT NAGAR-IV  
NEW DELHI-110024
- 376 090992 MR. NAGPAL MANOJ  
C-400, SARASWATI VIHAR  
DELHI-110034



- 377 091012 MR. DATTA NEERAJ  
CANADIAN INVESTOR PROTECTION FUNO  
79, WELLINGTON ST WEST  
SUITE 610, PO BOX 75  
ONTARIO (CANADA)  
TORONTO-M5K 1E7
- 378 091037 MR. RASTOGI PYUSH  
F-8 ASSOCIATED APARTMENTS  
PLOT NO 83 I P EXTN  
PATPAR GANJ  
DELHI-110092
- 379 091053 MR. MALHOTRA ARUN  
C-1-A/58A  
JANAK PURI  
NEW DELHI-110058
- 380 091097 MR. MAGOW RAJESH  
74, GH-14, PASCHIM VIHAR  
P.O. SUNOER VIHAR  
NEW OELHI-110087
- 381 091103 MR. BHATIA TARUNJEET SINGH  
C/O R.K MALHOTRA & ASSOCIATES  
2721/7 LITTLE STAR BUILDING  
2ND FLOOR CHOWK SANGTRASHAN  
PAHAR GANJ  
NEW OELHI-110055
- 382 091167 MR. MEHTA KULOEEP  
347-348, 12TH STREET  
JOSHI ROAD  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 383 091182 MR. HARPREET SINGH PAHWA  
PAHWA & ASSOCIATES  
HOUSE NO. 49A  
MODEL TOWN EXTENTION  
LUDHIAN141002
- 384 091190 MR. MAHESH KUMAR  
POST BOX NO. 5239  
DUBAI
- 385 091250 MR. SANJEEV KUMAR  
H.NO.1452,  
SECTOR-8  
FARIDABAD-121006
- 386 091271 MR. BHATNAGAR RAJEEV  
BHATNAGAR RAJEEV & CO  
C/O CONTINENTAL MARINE CORPORATE  
POST BOX 27974  
DUBAI
- 387 091281 MR. MEHRA ANSHUL  
H-504 MAYUR OHWAJ SOCIETY  
PLOT NO 60 I P EXTENSION  
PATPARGANJ  
DELHI-110092
- 388 091294 MR. DAVE AMULYA  
715-430, MCMURCHY AVE.S  
BRAMPTON  
ONTARIO-L6Y2N4
- 389 091321 MR. MEHRA MANU  
GULF TOTAL TRACTEBEL POWER CO  
P.O. BOX 42395  
ABU DHABI
- 390 091376 MR. JASORIA ASHISH  
D-1/97, JANAKPURI  
NEW DELHI-110058
- 391 091421 MS. SEN NABANITA  
C-408, CHITTARANJAN PARK  
NEW DELHI-110019
- 392 091474 MR. BHUTANI GIRISH  
G-30 KIRTI NAGAR  
NEW DELHI-110015
- 393 091642 MR. YASHVEER SINGH CHAUHAN  
H NO 4830 MOHALA MUFTI WAOA  
DISTT REWARI  
REWARI-123401
- 394 091701 MR. CHOUDHARY NAVEEN  
C-10 GREATER KAILASH  
ENCLAVE -1  
NEW OELHI-110048
- 395 091741 MR. DINESH KUMAR  
C-7 1ST FLOOR  
LAJPAT NAGAR-I  
NEW DELHI-110024
- 396 091793 MR. YAOAV NAWAL KISHOR  
POST BOX NO 12133  
KATHMANOU
- 397 091819 MR. SEN DIPEN  
634/12  
NAI ABADI GALI NO. 8  
ARJUN NAGAR  
GURGAON-122001
- 398 091833 MR. JAIN VINIT KUMAR  
38-D, AYODHYA APTT  
PLOT NO. 30/2  
SECTOR-13, ROHINI  
DELHI-110085

- 399 091863 MR. RAGHUNATHAN R  
C-99 INDERPURI  
NEW DELHI-110012
- 400 091904 MR. PARDEEP KUMAR  
1975 SECTOR-13  
URBAN ESTATE  
KARNAL-132001
- 401 091958 MR. BISARYA SUMEET  
DALMIA CEMENT(B) LTD  
11TH FLDOR, HANSALAYA  
15, BARAKHAMBA ROAD  
NEW DELHI-110001
- 402 091976 MR. JAIN GAURAV  
HOUSE NO 879  
SECTOR 28  
FARIDABAO-121002
- 403 091977 MR. GUPTA RAJESH  
B - 98 IIND FLOOR  
TAKSHILA MARKET  
NEAR BALCO MARKET  
PATPARGANJ  
DELHI-110092
- 404 091996 MS. GARG SHIPRA  
C-433 NIRMAN VIHAR  
DELHI-110092
- 405 092009 MR. SINGH GURDEV  
SCO 80-81  
SECTOR 17-C  
CHANDIGARH-160018
- 406 092027 MR. SETHI SANJAY  
508A VISHAL BHAWAN  
95 NEHRU PLACE  
NEW DELHI-110019
- 407 092052 MR. WALIA SAMEER  
ACCENTURE  
6TH FLOOR, DLF CENTER  
SANSAD MARG  
NEW DELHI-110001
- 408 092053 MR. RAJ KUMAR  
952 SECTOR 21-C  
FARIDABAD-121001
- 409 092096 MR. SANDEEP KUMAR  
202, MARTIN VALLEY MEWS NE  
CALGARY, AB  
CALGARY-T3J4W3
- 410 092173 MR. SANJIV SANGWAN  
H-27A, KALKAJI, NEW DELHI-110019
- 411 092178 MR. SINGH SATYAPAL  
B-28/1, WAZIRPUR INDUSTRIAL AREA  
DELHI-110052
- 412 092185 MR. GARG SUNIL KUMAR  
C/O A K MITTAL & CO  
409 ESSEL HOUSE  
10 ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI-110002
- 413 092293 MR. GUPTA CHANDRA SHEKHER  
NILESH SHEKHER & CO  
C-9/160, YAMUNA VIHAR  
DELHI-110053
- 414 092298 MR. KHANDELWAL DEEPAK  
BANK OF AMERICA  
DCM-BUILDING  
16, BARAKHAMBA ROAD  
NEW DELHI-110001
- 415 092337 MR. RELAN ROHIT  
C-503, SAI BABA APARTMENTS  
SAI BABA CHOWK  
PLOT ND 4, SECTOR NO-9  
ROHINI  
DELHI-110085
- 416 092362 MR. GOYAL SANJAY  
4A UJJWAL APARTMENTS  
H-BLOCK VIKAS PURI  
NEW DELHI-110018
- 417 092363 MR. JAIN MANDJ KUMAR  
C-3A/147A, JANAKPURI  
NEW DELHI-110058
- 418 092391 MS. NAGPAL VARSHA  
16 VAISHALI  
PITAMPURA  
DELHI-110088
- 419 092418 MR. JAIN AJIT  
96 PRASAD NAGAR  
NEW DELHI-110005
- 420 092431 MR. AGGARWAL PARDEEP KUMAR  
308, SYNDICATE HOUSE  
3, OLD ROHTAK ROAD  
INDERLOK  
DELHI-110035
- 421 092450 MR. NEERAJ MOHAN  
HOUSE NO 3169  
SECTOR 44-D  
CHANDIGARH-160 047

- 422 092465 MR. MANDAL ROHIT  
D-62 MALCHA MARG  
CHANAKYAPURI  
NEW DELHI-110021
- 423 092480 MR. MALHOTRA VISHAL  
S.R. BATLIBOI & CO  
IIND FLOOR, CAPITAL COURT  
OLOF PALME MARG,  
MUNIRKA  
NEW DELHI-110067
- 424 092521 MR. CHOPRA RAJIV  
A-262 PRASHANT VIHAR  
DELHI-110085
- 425 092524 MS. GUPTA VANITA  
A-2/263, JANAKPURI  
NEW DELHI-110058
- 426 092536 MR. SURI DEEPAK  
HOUSE NO 993  
SECTOR 28  
FARIDABAD-121001
- 427 092539 MR. KAMBOJ AJAY  
C-4/89B, KESHAV PURAM  
LAWRENCE ROAD  
DELHI-110035
- 428 092560 MR. RAJEEV KUMAR  
EB-10, POWDOK MASPION, PPLG  
WARU, SIDOARJO  
SURABAYA-61256
- 429 092642 MR. MURLIDHARAN RAHUL  
VICE PRESIDENT  
J P MORGAN SECURITIES INL  
270, PARK AVENUE, 5TH FLOOR  
USA  
NEW YORK-NY 10017
- 430 092667 MR. JAGDISH SINGH  
STREET NO. 3, H NO 20077-A  
JUGHAR SINGH NAGAR  
BHATINDA-151001
- 431 092673 MR. SINGH PRASHANT  
P.O. BOX 7660  
KATHMANDU
- 432 092693 MR. LAKHBINDER SINGH  
FLAT NO. 17  
PLOT-452-453  
SECTOR-21-A  
FARIDABAD-121001
- 433 092713 MR. NARESH KUMAR  
ELG-1, PUSHPA COMPLEX  
HISAR-127046
- 434 092739 MS. CHAWLA SONIA  
B-106, MANSAROVER GARDEN  
NEW DELHI-110015
- 435 092769 MS. SHARMA RAJWINDER  
55, SEVEN CRESCENT  
LANGLEY, SLOUGH  
BERKS-SL3 8UU
- 436 092778 MR. SOOD SAMEER  
43- MALL APARTMENT  
MALL ROAD  
DELHI-110054
- 437 092804 MR. JINDAL PARMOD KUMAR  
45 GOPAL PARK  
KRISHAN NAGAR  
DELHI-110051
- 438 092811 MR. HARISH KUMAR  
H-23, FIRST FLOOR  
RESIDENCY GREENS  
GREENWOOD CITY, SECTOR-46  
GURGAON-122001
- 439 092857 MR. BHANOT VIVEK  
C-2/143, JANAKPURI  
NEW DELHI-110058
- 440 092884 MS. TEWARI NEETA UDAY  
69B POCKET -A 14  
POCKET 14-A  
KALKAJI EXTN  
NEW DELHI-110019
- 441 092893 MR. SOOD RAJEEV  
5C/48-49 NEW ROHTAK ROAD  
NEW DELHI-110005
- 442 092919 MR. BEHL SUMEET  
C/O SUNIL CHAUDHRY BUILDING  
387/6, NEAR RAJ MODEL SCHOOL  
MASTER COLONY, DINA NAGAR  
TEHSIL PATHANKOT, DT. GURDASPUR  
GURDASPUR-143531
- 443 092923 MR. GILL SUKHBINDER SINGH  
HOUSE NO.2827  
SECTOR 37C, CHANDIGARH-160015
- 444 092946 MR. SHARMA VINOD KUMAR  
3845, SHEPPARD AV. E.  
TORONTO  
CANADA-M2T 3S8

- 445 092962 MR. GUPTA SHALABH  
CHARTERED ACCOUNTANT  
ADARSH COLONY  
SAMADHI ROAD  
KHANNA-141001
- 446 092977 MR. MANGLA AKHIL  
23, GF MANAK VIHAR  
DELHI-110092
- 447 092984 MR. JAIN SANJAY  
129 B/L MODEL TOWN  
YAMUNANAGAR-135001
- 448 093015 MR. GULATI AJAY  
C-66 SHIVALIK NAGAR  
MALVIYA NAGAR  
NEW DELHI-110017
- 449 093118 MR. JAIN VIKAS  
B-5 FREEDOMS FIGHTER CULTURAL CENTRE  
NEB SARAI  
NEW DELHI-110068
- 450 093141 MR. SINGH SUKHVINDER PAL  
G-32, LOWER GROUND FLOOR  
KIRTI NAGAR  
NEW DELHI-110015
- 451 093287 MR. CHHIBBER SAMEER  
8/39 WEA KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 452 093300 MR. VERMA ASHOK  
ASHOK VERMA & ASSOCIATES  
CHAMBER NO 304  
WEGMANS HOUSE  
21 VEER SAVARKAR BLOCK  
SHAKARPUR  
DELHI-110092
- 453 093302 MR. BHATTARAI ANAL RAJ  
74/2, HATTIGAUDA MARG  
OLD BANESHWOR  
POST BOX 20902  
KATHMANDU
- 454 093312 MR. ANEJA CHARANJIT SINGH  
112 MILADY ROAD  
NORTH YORK  
ONTARIO-M9L 2H8, CANADA
- 455 093326 MR. NARESH KUMAR  
10129 EAST PARK ROAD  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 456 093360 MR. V VIDYA SAGAR  
210 MIG FLATS  
PRASAD NAGAR  
NEW DELHI-110005
- 457 093416 MR. GUPTA RITESH  
A-26 HAUZ KHAS  
NEW DELHI-110016
- 458 093483 MR. BANSAL SANDEEP  
TUPPERWARE INDIA PVT LTD  
1A, UDYOG VIHAR  
SECTOR-18  
GURGAON-122002
- 459 093493 MR. DHINGRA MUKUL  
224 MANDAKINI ENCLAVE  
ALAKNANDA  
NEW DELHI-110019
- 460 093502 MR. MEHTANI SUNIL  
928/4 STREET NO-8  
DEEP NAGAR  
LUDHIANA-141001
- 461 093519 MS. SHARMA BINDU  
C-504, NAGARJUNA APARTMENT  
MAYUR KUNJ  
MAYUR VIHAR PHASE-I EXTN  
DELHI-110091
- 462 093546 MR. MAHAJAN ASHISH  
ABOVE FIRST FLIGHT COURIERS  
NEAR NIIT EDUCATION CENTRE  
SCHOOL BAZAAR  
MANDI-175001
- 463 093558 MR. RAJIV KUMAR  
B-204, IIND FLOOR  
VIJAYA APPARTMENTS  
OPP. MANOJ VIHAR  
INDIRAPURAM  
GHAZIABAD-201010
- 464 093612 MR. DAS RAMA PRASAD  
PANDEY DUA & MATHUR  
A-1/105 SAFDERJUNG ENCLAVE  
NEW DELHI-110029
- 465 093650 MR. GUPTA MUKESH  
A-27/2 STREET NO-3  
LAXMAN PARK  
EAST CHANDER NAGAR  
DELHI-110051

- 466 093651 MS. JAIN PARUL  
KPMG INDIA PVT. LTD  
BLOCK 4-B, DLF CORPORATE PARK  
DLF CITY PHASE III  
GURGAON-122002
- 467 093705 MR. JAIN SANJAY  
54 JAGAN NATH VIHAR  
NEAR S D GIRLS SENIOR SECONDARY  
SCHOOL  
DEVI MANDIR ROAD  
PANIPAT-132103
- 468 093724 MR. SHARMA VIRENDRA KUMAR  
546, POCKET-5  
MAYUR VIHAR PHASE-I  
DELHI-110091
- 469 093740 MR. KAPOOR SUDHIR  
PRICE WATERHOUSE  
PW CENTRE  
SAIDULAJAB  
M.B. ROAD, OPP. D BLOCK, SAKET  
NEW DELHI-110030
- 470 093743 MR. MITTAL VINAY  
A-2/10 MAYUR APPARTMENT  
SECTOR-9  
ROHINI  
DELHI-110085
- 471 093761 MR. MUNJAL NAVNEET  
H NO-1176  
SECTOR 22-B  
CHANDIGARH-160022
- 472 093810 MR. MUKESH KUMAR  
H NO 1701, SECTOR -8  
FARIDABAD-121002
- 473 093836 MR. PANDA MANOJ KUMAR  
AA-13 IIND FLOOR  
SHALIMAR BAGH  
DELHI-110088
- 474 093852 MR. RAMPAL AMIT  
KOTHI NO 2356  
SECTOR 38-C  
CHANDIGARH-130023
- 475 093894 MS. SUMAN LATA  
RZ-263/1, DURGA OARK  
DWARKA PROJECT  
P.O. PALAM  
NEW DELHI-110045
- 476 093998 MR. GUPTA MUNISH  
# C-2081, PANIPAT REFINERY TOWNSHIP  
DADLANA  
PANIPAT-132140
- 477 094011 MR. TANEJA ASHISH  
C-19 NIZAMUDDIN WEST  
NEW DELHI-110013
- 478 094055 MR. KUKREJA RAJESH  
C/O ORACLE CORPORATION  
110, MATHESON BLUD  
W.SUITE  
100 MISSISSUAGA  
ONTARIO (CANADA)
- 479 094191 MR. DHAWAN CHANDER PARKASH  
WZ-106B RAM NAGAR  
NEAR TILAK NAGAR  
NEW DELHI-110018
- 480 094192 MR. JAIN ATUL KUMAR  
D-22, PANDAV NAGAR  
DELHI-110092
- 481 094230 MR. SUBHASH CHAND  
DEEWAN COLDNY  
RAILWAY ROAD  
MOHINDERGARH-123029
- 482 094281 MS. TANEJA MONICA  
S R BATLIBOI & CO  
7TH FLOOR SURYA KIRAN BUILDING  
KASTURBA GANDHI MARG  
NEW DELHI-110001
- 483 094308 MR. DEEPAK KUMAR  
303, 304B, APARA PLAZA 'B'  
ROAD NO. 44  
PITAMPURA  
DELHI-110034
- 484 094323 MR. BANSAL NAVNEET  
F-41, GREENWOOD CITY  
(UNITECH)  
SECTOR-46,  
GURGAON-122001
- 485 094332 MR. BANSAL AMIT  
B-XIX-646  
OPP OLD D M C  
CIVIL LINES  
LUDHIANA-141001
- 486 094333 MR. RUNGTA GOUTAM  
1ST FLOOR  
D-316 VIVEK VIHAR  
DELHI-110095

- 487 094360 MR. GUPTA ARUN  
4-JDA PLOT  
NEW REHARI  
JAMMU TAWI-180005
- 488 094424 MR. WADHERA VIKRANT  
BE-39 SHALIMAR BAGH  
NEW DELHI-110052
- 489 094436 MR. BAL MANAS RANJAN  
D-10, 2ND FLOOR  
GREEN PARK (MAIN)  
NEW DELHI-110016
- 490 094452 MS. BAJAJ PREET  
J-12 RAJOURI GARDEN  
NEW DELHI-110027
- 491 094501 MR. KAPIL DEV  
1619 ULDHANPUR  
NAVEEN SHAHDARA  
DELHI-110032
- 492 094541 MR. KHURANA ASHISH  
G-1, POCKET II  
NEELGIRI APARTMENTS  
NARAINA VIHAR  
NEW DELHI-110028
- 493 094574 MR. GOEL UMA SHANKER  
203, SHREE GANESH COMPLEX  
32-B, VEER SAVARKAR BLOCK  
SHAKARPUR, VIKAS MARG  
DELHI-110092
- 494 094578 MR. DUBEY SHASHANK  
PUNJ LLOYD LTD.  
PUNJ HOUSE  
17-18 NEHRU PLACE  
NEW DELHI-110019
- 495 094613 MR. VINOD KUMAR  
R-IV-23, YAMUNA COLONY  
DEHRADUN-248001
- 496 094618 MR. RAJESH KUMAR  
1/9410 GALI NO-7  
WEST ROHTAS NAGAR  
SHAHDARA  
DELHI-110032
- 497 094628 MR. JAIN NAVIN  
BSR & CO  
4B, DLF CORPORATE PARK  
DLF CITY PHASE-III  
GURGAON-110007
- 498 094659 MR. BHASIN MOHIT  
D-1107 NEW FRIENDS CDLONY  
NEW DELHI-110065
- 499 094720 MS. MONDAL MINAKSHI  
26/601  
EAST END APARTMENTS  
MAYUR VIHAR  
PHASE -1 (EXTN)  
NEW DELHI-110096
- 500 094790 MR. KARN BISHAMVER KUMAR  
H-17,3RD FLOOR  
VIKAS MARG  
LAXMINAGAR  
DELHI-110092
- 501 094825 MR. SHARMA SANDIP  
14 SWASTIK VIHAR  
PANCHKULA-134109
- 502 094833 MR. SABOO ANAND  
WHIRLPOOL OF INDIA LTD  
MANAGER (FINANCE)  
A-8 QUTAB INSTITUTIONAL AREA  
VAITALIK IIND FLOOR  
NEW DELHI-110067
- 503 094834 MS. ARORA SUSHMA  
D-14/43, GROUND FLOOR  
EXCLUSIVE FLOORS  
DLF PHASE-V  
GURGAON-122002
- 504 094838 MR. CHOUDHARY DHARMENDRA KUMAR  
12/208, COMMUNITY CENTRE  
PREET VIHAR, DELHI-110092
- 505 094961 MR. GULATI SANJEEV  
304, 15A/1, PRESTIGE CHAMBERS  
W.E.A., KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 506 095014 MR. GOPAL NITIN  
255, NAGIN LAKE APARTMENTS  
OUTER RING ROAD  
PEERAGARHI, PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110087
- 507 095030 MR. HIRA RAJIV  
241 DR MUKHERJEE NAGAR  
DELHI-110009
- 508 095062 MR. RAMAN KUMAR  
PLDT NO-6 STREET NO-7  
NEW TEHSIL PURA  
AMRITSAR-143001

- 509 095123 MR. VASHISTHA DARPAN  
370 KAYASTHAN STREET  
RDHTAK-124001
- 510 095164 MR. SUNIL KUMAR  
545, SECTOR-31, URBAN ESTATE  
GURGAON-120001
- 511 095202 MR. BISWAL SUDHANGSHU SHEKHAR  
D-10, GREEN PARK, (MAIN)  
IIND FLOOR,  
NEW DELHI-110016
- 512 095203 MS. SAXENA SUNEETA  
B-42 PANCHSHEEL ENCLAVE  
NEW DELHI-110017
- 513 095207 MR. GUPTA SUNIL  
H NO -2714 TMBER MARKET  
AMBALA CANTT  
AMBALA-133001
- 514 095225 MS. CHUGH SUNILA  
5/8 ASHOK NAGAR  
NEAR TILAK NAGAR  
NEW DELHI-110018
- 515 095231 MR. JAIN KAMAL KUMAR  
A-20 RESERVE BANK COLONY  
OPP PANCHSHEEL CLUB  
HAUZ KHAS  
NEW DELHI-110016
- 516 095243 MS. CHAWLA RITU,  
ROAD NO. 14, HOUSE NO. 9  
PUNJABI BAGH EAST  
NEW DELHI-110026
- 517 095271 MR. NARENDER KUMAR  
RZ-51, MAYA BHAVAN  
STREET NO. 2,  
MAIN SAGAR PUR  
NEW DELHI-110046
- 518 095299 MR. JAISWAL PIYUSH KRISHNA  
C/O MR P C GUPTA  
A-15, BUDH VIHAR  
BADARPUR, NEW DELHI-110044
- 519 095332 MS. CHADHA VASUDHA  
49, ENGINEERS ESTATE  
21, I.P. EXTENSION  
PATPAR GANJ, DELHI-110092
- 520 095349 MR. SHARMA NAWRAJ  
120, HIGHLAND PLACE # 2R  
BROOKLYN, NY 11208  
NEW JERSEY (USA)
- 521 095400 MR. ABHILASHI INDERJIT  
B-18, MODEL TOWN ROAD  
NEAR INCOME TAX OFFICE  
OPP. PARKASH COLOUR LAB  
JALANDHAR-144001
- 522 095403 MR. MATHUR RAHUL  
A-14 DRONACHARYA APARTMENTS  
MAYUR VIHAR PHASE-I EXTN  
DELHI-110091
- 523 095425 MR. MEHTA MANDEEP  
KULDEEP RATTAN & CO  
347-348, 12TH STREET  
JOSHI ROAD, KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 524 095430 MR. CHAMAN LAL  
B-18, MODEL TOWN ROAD  
NEAR I.T.O  
OPP. PARKASH COLOR LAB  
YAMUNANAGAR-144001
- 525 095452 MR. MAHESHWARI PRADYUMNA  
38-A POCKET - 6  
MIG FLATS  
MAYUR VIHAR PHASE-III  
DELHI-110096
- 526 095503 MR. ASHISH KUMAR  
51, VIGYAN VIHAR,  
DELHI-110092
- 527 095536 MR. AGGARWAL MADHUR  
BN-39 (W) SHALIMAR BAGH  
DELHI-110052
- 528 095543 MR. GROVER JETENDRA  
A-113, REGENCY PART-1  
DLF PHASE-IV  
GURGAON-122001
- 529 095556 MR VAIBHAV  
C-2/106, FIRST FLOOR  
JANAKPURI  
NEW DELHI-110058
- 530 095560 MR. GUPTA AMIT  
C-49, BALI NAGAR,  
NEW DELHI-110015
- 531 095593 MR. HARJIT SINGH  
B-123 SAINIK NAGAR  
NEAR GULAB BAGH  
NEW DELHI-110059

- 532 095596 MR. MALHOTRA KAPIL  
F-72, PRASHANT VIHAR,  
SECTOR-14,  
ROHINI  
DELHI-110085
- 533 095633 MR. KASHMIR SINGH SDKHAL  
H. NO 168 V P O SANT NAGAR  
TEHSIL RANIA  
SIRSA-125075
- 534 095635 MR. RAINA KAILAS NATH  
MANAGER OPERATIONS  
ASSOCIATES INDIA FIN.SERVICES PVT LTD  
3 L S C  
PUSHP VIHAR  
NEW DELHI-110062
- 535 095639 MR. BHAGIRATH KAPIL KUMAR  
18, SECTOR-28A  
CHANDIGARH-160002
- 536 095647 MR. SINGH VIJAY DEEP  
C/O M/S PRICE WATERHOUSECOOPERS (P) LTD  
PWC CENTRE  
SAIDULAJAB, M B ROAD  
OPP. D BLOCK  
SAKET  
NEW DELHI-110030
- 537 095669 MR. DHAMA GOLDIE  
A-239, SARITA VIHAR  
MATHURA ROAD  
NEW DELHI-110044
- 538 095672 MR. MITTAL SUMIT  
354, SECTOR-15  
PART-I  
GURGAON-122001
- 539 095690 MR. LAKHOTIA DINESH  
C-4/187 DAYANAND COLONY  
LAJPAT NAGAR -IV  
NEW DELHI-110024
- 540 095782 MR. RAMAKRISHNA S V  
S-190 PANCHSHILA PARK  
NEW DELHI-110017
- 541 095785 MR. BAGRI AJAY  
H NO 1418, SECTOR-15  
FARIDABAD-121008
- 542 095807 MR. GUPTA AJAY  
B-3/317 PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 543 095812 MR. MEHTA ANIL  
H-103 LIG FLATS PHASE -I  
ASHOK VIHAR  
DELHI-110052
- 544 095835 MR. BHATIA RAMINDER SINGH  
SENIOR CONTROLLING OFFICER , CONTROL-  
LING ASIA  
DEUTSCHE BANK AG-APHO  
# 14-01 SUNTEC CITY TOWER-1  
7 TEMASEK BOULEVARD  
SINGAPORE-038987
- 545 095848 MR. BHATNAGAR AMIT  
FLAT # 466 SECTOR-4  
R K PURAM  
NEW DELHI-110022
- 546 095879 MS. KAUL REKHA  
ERNST & YOUNG LLP  
222, BAY STREET  
TORONTO  
ONTARIO, CANADA
- 547 095895 MR. INDERDEEP SINGH  
C/O A.G.S. ASSOCIATES  
7, VAISHALI, MAIN ROAD  
PITAMPURA  
DELHI-110088
- 548 095936 MR. BHUPINDER PAL SINGH  
123, GUJRANWALA TOWN  
PART-II  
DELHI-110033
- 549 095992 MS. MAGGON PREETI  
72-T, SECTOR-7, JASOLA  
NEAR SARITA VIHAR,  
NEW DELHI-110025
- 550 095999 MR. SONI HARDEEP SINGH  
J-3/137D RAJOURI GARDEN  
NEW DELHI-110027
- 551 096012 MR. VARSHNEY RAKESH  
214, TRIVENI COMPLEX  
E-10-12, JAWAHAR PARK  
LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 552 096021 MR. CHADHA SANJAY  
49, ENGINEERS ESTATE  
21, PATPAR GANJ  
I P EXTENSION  
DELHI-110092



- 553 096034 MR. KHANNA NEERAJ  
B-18, MODEL TOWN ROAD  
NEAR I T O  
OPP PRAKASH COLOUR LAB  
JALANDHAR-144001
- 554 096042 MR. RASTOGI SAURABH  
A-71 MADHUBAN  
SHAKARPUR  
DELHI-110092
- 555 096063 MR. ACHARYA BUDDHI PRASAD  
POST BOX NO. 5783  
KATHMANDU
- 556 096074 MR. SEHGAL YOGESH  
FLAT NO. 2267,  
SECTOR B, POCKET II,  
VASANT KUNJ,  
NEW DELHI-110070
- 557 096104 MS. LUTHRA RACHNA  
E-198, 1ST FLOOR  
NEW RAJINDER NAGAR  
NEW DELHI 110060
- 558 096146 MS. CHIGAL MEENU  
274 SECTOR 16-A  
FARIDABAD-121002
- 559 096150 MR. MADHAVAN ROHIT  
6-B NEETHI APARTMENTS  
84 IP EXTENSION PATPARGANJ  
DELHI-110092
- 560 096154 MR. KAPOOR RITESH  
RL-34 GANGA RAM VATIKA  
TILAK NAGAR  
NEW DELHI-110018
- 561 096210 MS. AGARWAL KRITI  
F-170, W-5C  
SAINIK FARMS  
NEW DELHI-110062
- 562 096211 MR. DHINGRA ANKUR  
INFOSECH SOFTWARE LTD  
31-32 BEGUMPUR PARK  
SHIVALIK, NEW DELHI-110017
- 563 096214 MR. ARORA GAURAV  
C-97, PANCHSHEEL ENCLAVE  
NEW DELHI-110017
- 564 096301 MR. POPLI ROHIT  
5/22 SARVA PRIYA VIHAR  
NEW DELHI-110016
- 565 096336 MR. GUPTA RAJESH KUMAR  
49 GULMOHAR ENCLAVE  
NEW DELHI-110049
- 566 096378 MR. BHOGRA SANDEEP  
GENPACT INDIA  
SECTOR ROAD  
SECTOR 53, DLF PHASE-V  
GURGAON-122002
- 567 096382 MR. KHURANA TAJINDER  
216-B POCKET C  
MAYUR VIHAR PHASE-II  
DELHI-110091
- 568 096398 MR. SINGH GURPREET  
A-17, LAJPAT NAGAR-III  
NEW DELHI-110024
- 569 096524 MR. CHAWLA VIKRANT  
A2-B/119 A EKTA APARTMENTS  
PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 570 096532 MR. VINOD KUMAR  
KP-365, PITAM PURA  
NEW DELHI-110034
- 571 096541 MR. CHAWALA SUDHIR  
RZ-A/1-A, MOHINDRA PARK, PANKHA ROAD,  
OPP. MATA CHANAN DEVI HOSPITAL  
C-1, JANAK PURI  
NEW DELHI-110059
- 572 096558 MR. AHMED TABISH  
ASST. MANAGER  
ASSOCIATES INDIA FINANCIAL SERVICES  
PVT LTD  
3, LSC, PUSHP VIHAR  
NEW DELHI-110062
- 573 096569 MS. R. MEENAKSHI  
R 574 NEW RAJENDRA NAGAR  
NEW DELHI-110060
- 574 096572 MR. RANA GOVIND SINGH  
43 SECTOR 4  
R K PURAM  
NEW DELHI-110022
- 575 096581 MR. SHARMA DEEPAK KUMAR  
G-32, SECTOR-7  
JASOLA DDA FLATS  
OPP. SARITA VIHAR  
NEW DELHI-110044

- 576 096584 MR. UPADHYAY KAMLESH KUMAR  
10/133, WEST GURU ANGAD NAGAR  
LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 577 096593 MR. BISWAS SUMAN  
C/O MR RACHAN SINGH  
3317A CHANDER LOK HOUSING SOCIETY  
DLF PHASE -IV  
GURGAON
- 578 096606 MR. PANDEYA ARJUN PRASAD  
J-10A/F, STREET NO 6  
LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 579 096608 MS. WADHWA SHRUTI  
67, AMARPALI APARTMENTS  
56, I.P. EXTENSION  
DELHI-110092
- 580 096617 MR. SINGH INDERJIT  
F 7 KATWARIA SARAI  
NEW DELHI-110016
- 581 096630 MR. VERMANI ANAND  
ASSOCIATE, CORPORATE FINANCE  
KPMG INDIA PVT LTD  
4/B, DLF CORPORATE PLAZA  
GURGAON
- 582 096643 MR. MATHUR MOHIT  
LOVELOCK & LEWES  
PWC CENTRE  
M.B. ROAD, SAIDULLAJAB  
NEW DELHI-110030
- 583 096665 MR. KHANNA VISHAL  
1328, SECTOR-D  
POCKET-1  
VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 584 096691 MR. SHARMA MUKUL  
29-C DDA FLATS  
NEW FRIENDS COLDNY  
NEW DELHI-110065
- 585 096705 MR. VERMA HERRY YOM  
301-302, BURJ USMAN  
NEAR SHIV MANDIR  
KHURJA  
BULANDSHAHR-203131
- 586 096721 MR. RAJESH KUMAR  
D-83 2ND FLOOR  
AMAR COLONY-IV  
NEW DELHI-110024
- 587 096753 MS. GUPTA SURUCHI  
1/1293, NAIWALA  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 588 096774 MR. JAIN SACHIN  
FLAT NO 53, VARDAN APTS  
PLOT NO. 64, I P EXTENSION  
PATPARGANJ  
DELHI-110092
- 589 096793 MR. SALUJA RISHI  
B-1/202, MILAN VIHAR  
PLOT NO. 72, I P EXTENTION  
DELHI-110092
- 590 096828 MS. BHOMIA VIJAYA  
AA-13 IIND FLOOR  
SHALIMAR BAGH  
DELHI-110088
- 591 096881 MR. UPPAL AJAY  
B-361 SUDERSHAN PARK  
MOTI NAGAR  
NEW DELHI-110015
- 592 096909 MR. MUNISH KUMAR  
99 AMBIKA VIHAR  
PO SUNDER VIHAR  
NEW DELHI-110087
- 593 096935 MR. SUMIT KUMAR  
71 ASHOK NAGAR  
NEAR PNB, BASTI NAU  
JALANDHAR-144001
- 594 096963 MR. PRADHAN SUYASH KUMAR  
PRICE WATERHOUSE COPERS (P) LTD  
SAIDULLAJAB M B ROAD  
OPP D BLOCK SAKET  
NEW DELHI-110030
- 595 096986 MR. GARG MANISH  
MIG SUPER 684/B PHASE-XI  
SAS NAGAR  
MOHALI-160062
- 596 096999 MR. AGGARWAL MAHESH KUMAR  
54 VAISHALI  
PITAMPURA,  
DELHI-110034
- 597 097059 MS. AGGARWAL MEENAKSHI  
SACO-FINANCE  
INDIAN OIL CORPORATION LTD  
REFINERY H.O. 1ST FLOOR, SEAT NO. 1110  
7, INSTITUTIONAL AREA, LODHI ROAD  
NEW DELHI-110003

- 598 097061 MR. JAIN AMIT  
FLAT NO. 902, IVORY COURT -IV  
C/O ESSEL HOUSING PROJECTS PVT  
MAIN MEHRAULI GURGAON ROAD  
OPP. PRIVAT HOSPITAL  
GURGAON-122015
- 599 097073 MR. AGARWAL RAGHAVENDRA  
D-51, MAMTA APARTMENTS  
APPA SAHEB MARATHE MARG  
OPP. CHAITANYA TOWERS  
PRABHAEVI,  
MUMBAI-400025
- 600 097099 MS. GUPTA POOJA  
SINGHAL ASSOCIATES  
4546/16, DARYA GANJ  
NEW DELHI-110002
- 601 097132 MS. MOGLA SUSHMA  
H NO 2046  
SECTOR-27-C  
CHANOIGARH-160019
- 602 097141 MS. GUPTA POOJA  
19 BUNGLOW ROAO  
DELHI-110007
- 603 097142 MR. MEHTA HIMANSHU  
M-35 SAKET  
NEW DELHI-110017
- 604 097226 MR. TIBREWAL BASANT  
137-C A/C-1 SHALIMAR BAGH  
OELHI-110052
- 605 097235 MR. SINGH VIRENDER PAL  
1/7383, LANE NO. 13,  
EAST GORAKH PARK,  
SHAHOARA, DELHI-110032
- 606 097258 MR. SHARMA NITIN  
165-C, SFS FLATS BLOCK-L  
SECTOR -19  
ROHINI, DELHI-110085
- 607 097299 MR. BHASIN VIKAS  
559 SECTOR-14  
GURGAON
- 608 097311 MR. CHAUDHURI NILADRI  
D 7/7531 VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 609 097331 MR. GOYAL MOHIT  
38/B-5, SECTOR 8  
ROHINI  
DELHI-110085
- 610 097340 MR. SEHJPAL RISHI  
C/O. GOYAL A KUMAR & CO  
SCO 2924, SECTOR 22-C  
CHANDIGARH-160022
- 611 097385 MS. PAMNEJA SONIKA  
B-361 SUOARSHAN PARK  
MOTI NAGAR  
NEW OELHI-110015
- 612 097455 MR. KANDPAL KAMAL KISHORE  
BENNETT COLEMAN & CO LTD. MAS  
7, BAHAOURSHAH ZAFAR MARG  
NEW OELHI-110002
- 613 097472 MR. RAWAL RAHUL  
3RD FLOOR  
1, COMMUNITY CENTER  
EAST OF KAILASH  
NEW DELHI-110065
- 614 097518 MR. ARYAL KHUMA PRASAD  
1168, DARBAR MARG  
POST BOX NO. 11930  
KATHMANDU
- 615 097642 MR. MOROANI SANJEEV R  
A-90 OAYANANO COLONY  
LAJPAT NAGAR-IV  
NEW OELHI-110024
- 616 097643 MR. SINGHAL ANUJ  
ASSTT. VICE PRESIOENT  
BANK OF AMERICA  
EXPRESS TOWER, 16TH FLOOR  
NARIMAN POINT  
MUMBAI-400021
- 617 097648 MR. TIWARI RITESH  
C/O MR. VIKRAM ADVANI  
D-45 MARG 12 AVENUE 1  
SAKET  
NEW DELHI-110017
- 618 097671 MR. NAKRA VISHAL  
K-13 B K DUTT COLONY  
NR SAFDARJUNG AIRPORT  
NEW DELHI-110003
- 619 097684 MR. SRIVASTAVA ANKUR  
303, MANSAROVER,  
90, NEHRU PLACE,  
NEW DELHI-110019
- 620 097691 MR. MARWAH RAJAT  
4B, DLF CORPORATE PARK  
GURGAON

- 621 097723 MR. GOYAL RAJNEESH  
B-93, FIRST FLOOR  
SHIVALIK  
MALVIYA NAGAR  
NEW DELHI-110017
- 622 097729 MS. NANDA SHELLY  
7 RANBIR MARG  
MODEL TOWN  
PATIALA-147001
- 623 097789 MR. KALIA AASHUTOSH  
40, NEPEN PLACE  
BRAMPTON  
CANADA  
ONTARIO-L6S 5Y8
- 624 097793 MR. SHARMA ATUL  
MULTANI PHARMACEUTICALS LTD  
H-36, CONNAUGHT PLACE  
NEW DELHI-110001
- 625 097815 MR. BINDRA HARPREET SINGH  
BD-100 M I G FLATS  
JANAKPURI  
NEW DELHI-110058
- 626 097849 MR. PURI GAGANPREET SINGH  
K P M G  
BLOCK 4 B, DLF CORPORATE PARK  
DLF CITY, PHASE-III  
MEHRAULI GURGAON ROAD  
GURGAON-122015
- 627 097876 MS. MITTAL VEENU  
EARNST & YOUNG  
PO BOX 9267  
UAE, DUBAI
- 628 097940 MR. JAIN ANURAG  
H 129 DDA FLATS  
ASHOK VIHAR PHASE I  
DELHI-110052
- 629 097957 MR. BHUGRA SAMEER  
2343, SECTOR 13,  
URBAN ESTATE  
KARNAL-132001
- 630 098000 MR. V MUTHUKUMARAN  
C-2-B/55B JANAKPURI  
NEW DELHI-110058
- 631 098002 MR. SHRESTHA GOPAL KUMAR  
C/O N KRISHNASWAMY & CO  
TOYARAJ BHAWAN, GYNESHWOR  
POST BOX NO 1061  
KATHMANDU
- 632 098012 MS. GOYAL ARADHANA  
FF-44 LAXMI NAGAR,  
MANGAL BAZAR  
DELHI-110092
- 633 098042 MR. VAIBHAV KUMAR  
C-28, MAYFAIR GARDEN  
NEW DELHI-110017
- 634 098044 MR. JAIN MUNISH  
21 MASTER TARA SINGH NAGAR  
JALANDHAR-144001
- 635 098068 MR. ASNANI RUCHIR  
49 E POCKET 3  
MAYUR VIHAR PHASE I  
DELHI-110091
- 636 098089 MR. NAUTIYAL SHEKHAR  
OLAM INTERNATIONAL LIMITED  
# 11-02, SUNTEC TOWER-II  
TEMASEK BOULEVARD  
SINGAPORE
- 637 098096 MR. SURI RAMANDEEP SINGH  
35/1 DOUBLE STOREY  
ASHOK NAGAR  
NEW DELHI-110018
- 638 098098 MR. KAFLE MAN MOHAN RAJ  
G9 - 2-760 BATTIS PUTALI  
KATHMANDU
- 639 098101 MR. MITTAL ASHU  
MOSER BAGR INDIA LTD  
43 B MOD MILL INDUSTRIAL ESTATE  
OKHLA INDUSTRIAL AREA  
PHASE III, NEW DELHI-110020
- 640 098102 MR. MOHAN KUMAR  
21/24 - B, TILAK NAGAR  
NEW DELHI-110018
- 641 098110 MR. GUPTA ATIN  
83, NEW LAJPAT NAGAR  
PAKHOWAL ROAD  
LUDHIANA-141008
- 642 098114 MS. SHARMA VATSALA PRADHAN  
F-1/106, CHARMWOOD  
SURAJKUND  
FARIDABAD-121009
- 643 098117 MR. AGARWAL MANOJ KUMAR  
U-120, UPPADHAYA BLOCK  
SHAKARPUR  
DELHI-110092

- 644 098153 MR. BHATIA SANJAY  
995-P, SECTOR-2.  
PANCHKULA
- 645 098155 MS. MATTA HASNEETA  
C/O MRS. KAMLESH MEHTA  
B-177 VIVEK VIHAR PHASE-1  
DELHI-110095
- 646 098163 MR. GABA INDRESH  
I-2 NAV BHARAT APARTMENT  
OPPDSITE B-1 MARKET  
PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 647 098165 MR. SARDA LAXMI KANT  
321 LAHORE APARTMENTS  
VASUNDHARA ENCLAVE  
DELHI-110096
- 648 098166 MR. MATTA RITESH  
46-D PKT-A  
SFS FLATS  
MAYUR ENCLAVE  
MAYUR VIHAR -III  
DELHI-110096
- 649 098187 MR. DHAWAN VIKAS  
H. NO 134/7  
D CM RAILWAY COLONY  
DELHI
- 650 098218 MR. MARWAH NIRPINDER SINGH  
3051/1 FIRST FLOOR  
CHUNA MANDI  
PAHAR GANJ  
NEW DELHI-110055
- 651 098258 MR. SHARMA RAJESH  
5/1 ASHOKA CHAMBERS  
B-5 PUSA ROAD  
NEW DELHI-110005
- 652 098292 MR. CHANDAR PRAKASH  
WZ-991, RANI BAGH  
SHAKUR BASTI  
DELHI-110034
- 653 098303 MS. BHASIN KIRTI  
K P M G  
PO BOX 3800  
DUBAI
- 654 098317 MR. ARORA PUNEET  
91-A, AYODHYA ENCLAVE  
PLOT NO.-30/2, SECTOR-13  
ROHINI, DELHI-110085
- 655 098364 MS. BANSAL HEMA  
119 POCKET 7 SECTOR 2  
ROHINI  
DELHI-110085
- 656 098369 MR. MITTAL JITENDER  
E-222 SHASTRI NAGAR  
SARAI ROHILLA  
DELHI-110052
- 657 098382 MS. B SREEPRIYA  
E 150 AMAR COLONY  
LAJPAT NAGAR IV  
NEW DELHI-110024
- 658 098411 MR. CHAWLA SAMEER  
C/D MR. P.N KAMRA  
25-H POCKET -4  
MAYUR VIHAR PHASE-1  
DELHI-110091
- 659 098420 MR. GUPTA MAHAVIR PARSAD  
M/S MAHAVIR MEGH RAJ & CO.  
120/B-4, SECTOR-7  
ROHINI  
DELHI-110085
- 660 098433 MR. SAHI MANISH KUMAR  
251, ARUNODAYA APARTMENTS  
H BLOCK, OPP. MAMTA MODEL SCHOOL  
VIKASPURI  
NEW DELHI-110018
- 661 098456 MR. TULI ANKUSH  
RANBAXY LABS  
10TH FLOOR, DEVIKA TOWERS  
6, NEHRU PLACE  
NEW DELHI-110019
- 662 098461 MS. ARORA POONAM KRISHANKUMAR  
1328 SECTOR -D POCKET -I  
VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 663 098495 MR. ROONGTA PRATEEK  
D2/2595, VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 664 098499 MR. V B GOPAL KRISHNA  
HOUSE NO 3 LIG  
HASTSAL UTTAM NAGAR  
NEW DELHI-110059
- 665 098546 MS. JHAMB SHEENAM  
ASSISTANT MANAGER  
G E CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES  
90-A SECTOR 18  
GURGAON-122002

- 666 098572 MR. HEMANT  
HOUSE NO 2021/18  
STREET NO 5  
RAMPUR MOHALLA  
HISAR-125001
- 667 098594 MR. GUPTA DEEPAK  
M/S JAIN SINGHAL & CO  
1738/55 AHINSA BHAWAN  
NAI WALA  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 668 098619 MR. JAIN GAURAV  
160 ARIHANT NAGAR  
PUNJABI BAGH  
NEW DELHI-110026
- 669 098638 MR. DAWAR RAJEEV  
97-A OLD GUPTA COLONY  
OPP KALYAN VIHAR  
DELHI-110009
- 670 098644 MR. MANGAL ASHU  
2/5044 SANT NAGAR  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 671 098661 MR. GUPTA ABHISHEK MOHAN  
PREM BHAWAN  
4144 PAHARI DHIRAJ  
SADAR BAZAR  
DELHI-110006
- 672 098676 MR. GUPTA MANISH  
WHITE HOUSE WARD NO. 5  
BRAHMAN WALA  
OPP. ARYA SAMAJ SEVA SADAN  
DIST. FARIDABAD  
BALLABGARH-121004
- 673 098678 MS. SINGHAL DEEPTI  
117A, CENTRAL AVENUE  
SAINIK FARMS  
NEW DELHI-110062
- 674 098719 MR. BHATIA SUMIT  
B-15/23 PHASE -I  
DLF CITY  
GURGAON-122002
- 675 098740 MR. ANAND SUMCHIT  
MANAGER  
ERIX ADVISORS  
GESCO CENTRE  
70, NEHRU PLACE  
NEW DELHI-110019
- 676 098757 MR. CHANDOK PRATEEK  
61/9 SECOND FLOOR  
OLD RAJINDER NAGAR  
NEW DELHI-110060
- 677 098776 MR. JAIRATH RAJNEESH KUMAR  
48, POCKET-B, SECTOR-G  
NEW MIG FLATS  
MAYUR VIHAR PHASE-III  
DELHI-110096
- 678 098788 MR. KHURANA PANKAJ  
1132 DR MUKHERJEE NAGAR  
DELHI-110009
- 679 098802 MR. ARORA VIKRAM JIT SINGH  
G-18, SECTOR-9,  
HARI NAGAR,  
JAIL ROAD  
NEW DELHI-110058
- 680 098857 MS. SRIVASTAVA VARTIKA  
M -98, IST FLOOR  
SAKET  
NEW DELHI-110017
- 681 098864 MR. RUNGTA ADARSH  
56-C BLOCK- L  
JANTA FLATS  
SAKET  
NEW DELHI-110017
- 682 098875 MR. JUNEJA RAJAN  
ICICI BANK LTD  
JAY BHARAT COMPLEX  
OPP KINGS HOTEL  
G T ROAD  
JALANDHAR-144001
- 683 098881 MR. GUPTA MANOJ KUMAR  
W-110, SECOND FLOOR  
UPPAL'S SOUTHEND  
SOUTH AVENUE  
SOHNA ROAD  
GURGAON-122000
- 684 098885 MR. ABHISHEK KUMAR  
C/O ALPHA BUILDTECH PVT LTD  
5, ARADHANA ENCLAVE  
SECTOR-13, R.K. PURAM  
NEW DELHI-110066
- 685 098891 MR. SAINI MANISH  
41-B POCKET 'L'  
SHEIKH SARI - II  
NEW DELHI-110017

- 686 098909 MS. VERMA MEETA  
A-58, ANAND VIHAR  
DELHI-110092
- 687 098915 MR. BABBAR SUNIL  
10-B. HIGHWAY APARTMENTS,  
1ST FLOOR,  
GAJIPUR  
DELHI-110096
- 688 098920 MR. GUPTA VINAYAK  
C-5/129, MILAN VIHAR APTS  
PLDT NO 72, 1 P EXTENSION  
PATPARGANJ  
DELHI-110092
- 689 098979 MR. VERMA VISHAL  
303 MANSAROVAR  
90 NEHRU PLACE  
NEW DELHI-110019
- 690 098983 MR. GUGLANI ANURAG  
DREAMLAND  
# 15, MALWA COLONY  
PATIALA-147001
- 691 099036 MR. GUPTA ANUJ  
C-IV- 1827  
CIVIL LINES  
JAGADHRI-135003
- 692 099133 MR. GUPTA NEERAJ  
HOUSE NO. 1996  
1ST FLOOR  
SECTOR - 16  
FARIDABAD-121002
- 693 099150 MR. SHARMA KAMAL  
2ND FLOOR  
G-47, JAGAT PURI  
DELHI-110051
- 694 099154 MR. PATNI NITESH  
E-33B, M.I.G. FLATS,  
MAYA PURI  
NEW DELHI-110064
- 695 099159 MR. JAIN SAURABH  
2289 GALI PAHAR WALI  
DHARAM PURA  
DELHI-110006
- 696 099179 MR. BHACHAWAT AMIT KUMAR  
B-53 A GANGOTRI APTS ALAKNANDA  
NEW DELHI-110019
- 697 099252 MR. BANSAL SANDEEP  
C-60, PRASHANT VIHAR  
ROHINI  
DELHI-110085
- 698 099266 MR. S SUBRAMANIAN  
162, POCKET-D  
MAYUR VIHAR PHASE-2  
DELHI-110091
- 699 099279 MR. SURESH KUMAR  
1280, SECTOR-34-C,  
CHANDIGARH-160022
- 700 099293 MR. SATPATHY DEBABRATA  
FINANCE OFFICER  
PETRONET LNG LTD  
1ST FLOOR, WORLD CENTRE, BABAR ROAD  
BARAKHAMBA LANE  
NEW DELHI-110001
- 701 099339 MR. BHUTANI PANKAJ  
153-B DDA FLATS (LIG)  
RAJOURI GARDEN EXTENSION  
NEW DELHI-110027
- 702 099342 MR. DIXIT RAJIT  
A-159 RAMA PARK  
NEW DELHI-110059
- 703 099346 MR. SINHA SULAY  
K P M G  
PO BOX 3800, DUBAI
- 704 099366 MR. MAHAJAN RAMAN  
40/22, LOWER GROUND FLOOR  
EAST PATEL NAGAR  
NEW DELHI-110008
- 705 099373 MS. GOYAL MANISHA  
A/75 NEAR OLD H.S.E.B OFFICE  
CHAWLA COLONY  
DT. FARIDABAD  
BALLABGARH-121004
- 706 099392 MR. SACHDEVA GAURAV  
R-186, GREATER KAILASH PART-1  
NEW DELHI-110048
- 707 099501 MR. ASHOK ARORA  
H NO 377 TIHAR  
P.O TILAK NAGAR  
NEW DELHI-110018
- 708 099510 MR. RAJENDER KUMAR  
3E/61, NIT FARIDABAD  
FARIDABAD-121001

- 709 099511 MR. ANIL KUMAR  
C-71(NEW-C213)  
STREET NO.8  
WEST VINOD NAGAR  
DELHI-110092
- 710 099543 MR. KASHYAP AMIT  
ARTHUR ANDERSEN & ASSOCIATES  
2ND FLOOR CAPITAL CDURT  
OLD PALME MARG  
NEW DELHI-110067
- 711 099580 MR. GOYAL SUMIT  
SHANTI KUNJ  
3-C NEW OFFICERS COLONY  
KHERI ROAD  
PATIALA-147001
- 712 099589 MR. MALHOTRA AMIT  
B-D/22 PITAM PURA  
VISHAKHA ENCLAVE  
DELHI-110034
- 713 099652 MR. GOEL AMAN  
C/O M/S SUNIL GOEL & ASSOCIATES  
8-A, KASHI HOUSE  
CONNAUGHT PLACE  
NEW DELHI-110001
- 714 099670 MR. PAWAN KUMAR  
113/14 ASHOK NAGAR  
NEAR GOHNA STAND  
ROHTAK
- 715 099731 MS. BHATIA SHIKHA  
B-3/68 JANAKPURI  
NEW DELHI-110058
- 716 099751 MR. SINGH GYAN SHANKER PRASAD  
3/2, GALI NO. 6 J EXTN.  
LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 717 099776 MS. MALHOTRA MEENAL  
1054 PAN MANDI  
SADAR BAZAR  
DELHI-110006
- 718 099816 MR. GOEL ATUL  
E-5, SHIVAJI ROAD  
ADARASH NAGAR EXTN.  
NEAR SHIV MANDIR  
DELHI-110033
- 719 099855 MR. MITTAL NITIN  
6805, NEW JANTA NAGAR  
DABA ROAD  
LUDHIANA-141001
- 720 099876 MR. BHATIA AMIT  
4616 ARYA PURA  
SUBZI MANDI  
DELHI-110007
- 721 099877 MR. JALAN VIVEK KUMAR  
PRICEWATERHOUSE COOPERS  
SAIDULAJAB  
OPP D BLOCK SAKET  
NEW DELHI-110030
- 722 099892 MR. ANEJA NIKHIL  
PRICE WATERHOUSE COOPERS  
PWC CENTRE  
SAIDULLAJAB M B ROAD  
OPPOSITE D BLOCK SAKET  
NEW DELHI-110030
- 723 099945 MS. JAIN PALLAVI  
DEVRAJ HOUSE  
A-1, BARI PARK  
NEAR MOTI MAHAL CINEMA  
JAIPUR-302016
- 724 099962 MR. ARORA ASHWANI  
HOUSE NO 313 SECTOR-7  
URBAN ESTATE  
GURGAON-122001
- 725 099963 MR. DHAKAL MAHESH SHARMA  
G P O BOX NO. 13813  
KATHMANDU
- 726 099975 MR. ANAND KULMOHAN SINGH  
33- GOPAL NAGAR  
TILAK NAGAR  
NEW DELHI-110018
- 727 099984 MR. SADANA AMIT RAJ  
13/363, GEETA COLONY  
DELHI-110031
- 728 099995 MS. BHARDWAJ POOJA  
HOUSE NO 166 SECTOR 8 A  
CHANDIGARH-160018
- 729 100063 MR. AGARWAL AMIT  
16 A/3 BAGH CHANDIWALAN  
MAIN MATHURA ROAD  
NIZAMUDDIN EAST  
NEW DELHI-110013
- 730 100582 MR. SEHGAL GAUTAM  
D-25/B SOUTH EXTN  
PART-II  
NEW DELHI-110049



- 731 102118 MR. KOHLI SUNDEEP SURINDER  
NO.44, MUNIRKA ENCLAVE  
OPP. VASANT VIHAR BUS DEPOT  
NEW DELHI-110067
- 732 105741 MR. RAVI SUDESHKUMAR ARORA  
C/2/2236 VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 733 106106 MR. NEKUMAL RAJANI SURESH  
C 7/37 LAWRENCE ROAD  
KESHAVPURAM  
DELHI-110035
- 734 107061 MR. SANJAY KUMAR SULTANIA  
POCKET C-1  
FLAT NO 1270  
VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 735 202464 MR. UTTAM RAO  
103 6TH BLOCK  
HERITAGE CITY  
GURGAON-122002
- 736 203526 MS. SRINIVASAN VIDHYA  
SUITE 1001 TAJ MAHAL HOTEL  
A T KEARNEY  
1 MANSINGH ROAD  
NEW DELHI-110011
- 737 206374 MR. BEHERA MONOJ KUMAR  
C/O ANIL MISHRA  
WORLDS WINDOW  
75 KHIRKI VILLAGE  
MALVIYA NAGAR  
NEW DELHI-110017
- 738 206919 MS. RUCHIE GUPTA  
GE INTERNATIONAL OPERATIONS CENTRE  
AIFACS BUILDING  
1, RAFI MARG  
NEW DELHI
- 739 207841 MR. SANJEEV P.  
G-89  
SAROJINI NAGAR  
NEW DELHI-110023
- 740 208345 MR. VIJAY G  
MANAGER - FINANCE  
HEXAWARE TECHNOLOGINES LTD  
BLDG # 152, BLOCK-A, SECTOR-3  
MILLENIUM BUSINESS PARK, TTC  
INDL AREA, NAHAPE  
NAVI MUMBAI-400710
- 741 211421 MR. SENTHIL KUMAR D  
P-152, 8TH MAIN, 12TH SECTOR  
LIC COLONY  
JEVAN BEMA NAGAR  
BANGALORE-560075
- 742 211586 MR. ARUN R  
ASSISTANT MANAGER  
ICICI BANK LTD, ICICI TOWERS  
NBCC PLACE, BISHAM PITAMAH MARG  
PRAGATI VIHAR  
NEW DELHI-110003
- 743 212292 MS. RENU AKHILESWARAN M  
FLAT NO 95, TOWER 12  
SUPREME ENCLAVE  
MAYUR VIHAR - PHASE I  
DELHI-110091
- 744 213628 MR. GANESH MAL BOTHRA  
4697/3, ANSARI ROAD, 2ND FLOOR  
21-A, DARYA GANJ  
NEW DELHI-110002
- 745 400046 MR. PAWAN KUMAR  
C/O MR. R S MAHESHWARI  
C-24, AHINSA VIHAR  
SECTOR-9,  
ROHINI  
DELHI-110085
- 746 400148 MRS. MITTAL SANGEETA  
371 PARDHAN MARG NIRANKARI COLONY  
DELHI-110009
- 747 400267 MS. BARDIYA MANISHA  
B-91 MANAVSTHALI APARTMENTS  
VASUNDHARA ENCLAVE  
NEW DELHI-110096
- 748 400589 MS. SINGH PRIYANKA  
GE CAPITAL  
GURGAON
- 749 402558 MS. TANDON SWATI  
C/O PRICEWATERHOUSE  
P-1, ADITYA VIHAR  
OPP. D BLOCK, SAKET  
SAIOULAJAB, MEHRAULI-BADARPUR ROAD  
NEW DELHI-110030
- 750 500011 MR. THAKUR SHRAVAN  
AMERICAN EXPRESS  
A-37, MOHAN CO-OP. INDUSTRIAL AREA  
MATHURA ROAD  
NEW DELHI-110044

- 751 500029 MR. SOGANI DEEPAK  
BJ-57(WEST)  
SHALIMAR BAGH  
NEW DELHI-110088
- 752 500033 MR. PURI ANUJ  
ASSTT. MANAGER  
AUDIT AG, ITC LTD  
ITC CENTRE  
4, RUSSELL STREET  
KOLKATA-700071
- 753 500050 MR. ADHIKARI RUDRA PRASAD SHARMA  
POST BOX NO. 2706,  
KATHMANDU.
- 754 500069 MR. AGRAWAL SUMIT  
A-25 1ST FLR  
AMRIT NAGAR  
SOUTH EXTN-I  
NEW DELHI-110003
- 755 500076 MS. HORA SHIKHA  
DESUTSCHE BANK  
DB HOUSE  
M SOMANI MARG  
FORT  
MUMBAI-400001
- 756 500084 MR. GOYAL MANISH  
808 RISHI NAGAR  
RANI BAGH  
DELHI-110034
- 757 500211 MR. KHAN NASIR IQBAL  
JAO - CA, DGMT, HP CIRCLE  
BLOCK-9, ROOM NO. 304  
S D A COMMERCIAL COMPLEX  
KUSUMPTI  
SHIMLA-171001
- 758 500253 MR. ARORA AJAY  
HOUSE NO 86  
SECTOR 5  
TRIKUTA NAGAR  
JAMMU TAWI-180012
- 759 500264 MR. MEHTA MANU  
4083, DURGAPURI  
HAIBOWAL KALAN  
LUDHIANA-141001
- 760 500317 MS. AGGARWAL NEHA  
55-C, POCKET-C  
SIDDHARTHA EXTENSION  
NEW DELHI-110014
- 761 500326 MR. PANDIT SANDIP KUMAR  
C/O MONTAGE ENTERPRISES (P) LTD.  
LANE NO.4, SIDCO INDL.COMPLEX  
BARI BRAHMANA  
JAMMU TAWI-181103
- 762 500331 MR. SUNIL KUMAR  
G-31, A RAM COLONY  
CHATTARPUR  
NEW DELHI-110030
- 763 500347 MR. JONEJA SAMEER  
D-90, SECTOR-18  
GURGAON-122015
- 764 500350 MR. JAKIBANJA SUNIL  
GATTHAGHAR  
MADHYAPUR THIMI  
MUNICIPALITY 15  
BHAKTAPUR
- 765 500366 MR. RANA GOPAL SINGH  
J-37, SECTOR-12  
NOIDA-201301
- 766 500389 MR. DEY SANJAY  
PKT A 13/15 A DDA  
KALKAJI EXT  
NEW DELHI-110019
- 767 500433 MR. MENDIRATTA KARAMJEET  
110, BAJAJ TOWERS,  
1ST FLOOR, JAIL ROAD,  
NEW DELHI-110058
- 768 500436 MS. JAIN ROHINI  
99, SURYA PARK  
ELECTRONIC CITY  
RING ROAD  
BANGALORE-560100
- 769 500459 MS. LEHAL AMANDEEP  
H NO 186 AKALI KAUR SINGH COLONY  
V.P.O. BHABAT  
DISTT ROPAR  
ROPAR-140105
- 770 500464 MR. SINGLA AJAY KUMAR  
121 ANAND NAGAR A EXT  
NEAR SPRING DALE  
PUBLIC SCHOOL  
PATIALA-147003
- 771 500514 MR. JAGJEET SINGH  
S-94, SCHOOL BLOCK  
SHKARPUR  
DELHI-110092

- 772 / 500558 MR. BATRA AMIT  
FLAT NO. 45  
A5B SFS FLATS  
PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 773 500571 MR. JAIN ASHISH  
G/D-158 PITAMPURA  
DELHI-110088
- 774 500592 MR. CHATURVEDI SANKALP  
C-1 CPWD  
STAFF ENQUIRY QRTS  
IARI, PUSA  
NEW DELHI-110012
- 775 500599 MR. RUSTAGI SACHIN  
RAGHUNATH SHARMA BUILDING  
HATHNI KI DHAR  
JATOG CANTT  
SHIMLA-1110045
- 776 500604 MS. AGGARWAL KAPILA  
48, BANK ENCLAVE  
LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 777 500613 MR. GUPTA SANJAY  
2010/27, RAKESH NAGAR  
JANTA COLONY  
ROHTAK-124001
- 778 500623 MS. PANDEY MEENA  
C/O NEPAL RASTRA BANK  
BANK SUPERVISION DEPARTMENT  
CENTRAL OFFICE  
BALUWATAR  
KATHMANDU
- 779 500699 MR. JAIN SUMIT  
PLOT NO. 96  
PRATAP NAGAR  
JAIL ROAD  
NEW DELHI-110064
- 780 500718 MR. GULATI MANJEET SINGH  
1G/7A N I T  
FARIDABAD-121001
- 781 500766 MR. SURFNDHU K GOVINDAN  
FINANCIAL CONTROLLER  
TRIMARK TRADING  
P O BOX 30020  
UNITED ARAB EMIRATES  
DUBAI
- 782 500788 MS. SHASHI BALA  
2, T C JAINA COMPLEX  
1ST FLOOR  
DARYAGANJ  
NETAJI SUBHASH MARG  
NEW DELHI-110002
- 783 500889 MR. GUPTA VIVEK  
H NO. - 30,  
SECTOR-11  
PANCHKULA-134109
- 784 500926 MS. HARIHARAN SUDHA  
SECTOR-D, POCKET-2  
HOUSE NO. 2245  
VASANT KUNJ  
NEW DELHI-110070
- 785 500933 MR. MADAAN MANOJ  
396 BHOLANATH NAGAR  
OPP GEETA BHAWAN  
SHAHDARA  
DELHI-110032
- 786 500955 MR. KAMALESH KUMAR KAMAL  
F-2943 NETAJEE NAGAR  
NEW DELHI-110023
- 787 500980 MR. KAKKAR ANIL  
V P O BARWALA  
RAIWALI ROAD  
PANCHKULA-134118
- 788 501110 MR. P V M SRIDHARAN  
G-3, NIRMALA VIHAR, 34/2, 4TH CROSS  
CHINNAPPA ROAD  
BEHIND SUPER SERVICE STATION  
KAMMANAHALLI MAIN ROAD  
BANGALORE-560084
- 789 501122 MR. SINGH SANJEEV KUMAR  
J 8 VIJAY CHOWK  
LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 790 501128 MR. JINDAL SUMIT  
NO. 3818 SECTOR -32 D  
CHANDIGARH-160047
- 791 501194 MR. BANSAL RAVI  
43, ASHIRWAD APARTMENT  
PLOT NO 74, I P EXTENTION  
DELHI-110092
- 792 501234 MR. THUKRAL NARINDER SINGH  
40/1367 D D A FLATS  
MADAN GIR  
NEW DELHI-110062

- 793 501275 MR. GOGIA SACHIN  
H.NO 459, JHEEL KURENJA  
DELHI-110051
- 794 501325 MR. KHARBANDA JASPREET SINGH  
C 196/1 MAYAPURI  
INDUSTRIAL AREA PH 2  
NEW DELHI-110028
- 795 501345 MS. AGNIHOTRI DEEPTI  
307 LAXMIBAI NAGAR  
NEW DELHI-110023
- 796 501401 MR. JAIN PARASH  
L-127  
LAXMI NAGAR  
NEAR JAGAT RAM PARK  
DELHI-110092
- 797 501426 MR. ARORA ROHIT  
B-198 WEST PATEL NAGAR  
NEW DELHI-110008
- 798 501434 MR. MEHTA TARUN  
FLAT NO 1334  
NEELKANTH APT  
ROHINI SECTOR 13  
DELHI-110085
- 799 501444 MR. NANDA PANKAJ  
M/S PANKAJ NANDA & ASSOCIATES  
NANDA HOUSE, MOHALLA MUGLA  
KARIAN ROAD,  
CHAMBA-176318
- 800 501590 MR. PODDAR PANKAJ  
FLAT NO Y-109 AGRASEN AWAS  
66, 1 P EXTN  
DELHI-110092
- 801 501616 MR. CHANDAN NEERAJ  
M/S NEERAJ CHANDAN & ASSOCIATES  
285, RAJA GARDEN COLONY  
KAPURTHALA ROAD  
120 FT ROAD  
JALANDHAR
- 802 501625 MR. SITARAM SIDDHARTH  
PW CENTRE  
SAIDULAJAB  
M B ROAD  
OPP D BLOCK SAKET  
NEW DELHI-110030
- 803 501629 MR. ASHISH KUMAR  
15/306  
LODHI COLONY,  
NEW DELHI-110003
- 804 501633 MR. BHANDARI AMIT  
H NO 3661  
SECTOR 46-C  
CHANDIGARH-160047
- 805 501645 MS. GUPTA BABITA  
B-9/117  
SECTOR 3  
ROHINI  
DELHI-110085
- 806 501655 MS. KWATRA MEENAKSHI  
FLAT NO. S-2, PLOT NO C-4, ECON APPTS  
RAMPRASTHA COLONY  
CHANDER NAGAR PQ  
GHAZIABAD-201011
- 807 501742 MS. AGARWAL PREETI  
CD-248 VISAKHA ENCLAVE PITAMPURA  
DELHI-110088
- 808 501764 MR. GOEL ANISH  
Y-22 HAUZ KHAS  
NEW DELHI-110016
- 809 501800 MR. TIWARI OM SHANKAR  
FLAT NO 24 POCKET D 7  
SECTOR 15  
ROHINI  
DELHI-110085
- 810 501833 MR. GROVER JASVINDER SINGH  
51/1 FIRST FLOOR  
OLD RAJINDER NAGAR  
NEW DELHI-110060
- 811 501839 MR. KOHLI VIVEKANAND  
8, SALISBURY SQUARE  
U K  
LONDON
- 812 501841 MS. GUPTA NIDHI  
FLAT NO.2, NEW MODEL APTS  
PLOT NO. 31, SECTOR-13  
ROHINI  
DELHI-110085
- 813 501863 MR. RAJ KUMAR  
GF-100, SUSHANT VYAPAR KENDRA  
SUSHANT LCK-1  
GURGAON-122002
- 814 501875 MR. BIRLA ASHWINI  
JALAN CEMPAKA PUTHIH TENGAH XVI  
H NO.3, (INDONESIA)  
10520  
JAKARTA

- 815 501935 MR. KOSHAL YOGESH  
L-4, KALKAJI  
NEW DELHI-110019
- 816 501994 MR. JHA PRABIN KUMAR  
C/O JOSHI & BHANDARY  
1160, DILLIBAZAR SAOK  
KOSHI COMPOUND  
OILLIBAZAR  
KATHMANDU
- 817 502033 MR. AGGARWAL SAMEER  
E-125 MASJIO MOTH  
GREATER KAILASH 3  
NEW DELHI-110048
- 818 502066 MS. BHASIN TANU  
2044/6, CHUNA MANDI  
PAHARGANJ  
NEW DELHI-110055
- 819 502084 MS. DUTT JAYA  
CITY BANK N A  
1ST FLOOR  
RAMNORD HOUSE  
DR A B ROAD, WORLI  
MUMBAI-400018
- 820 502097 MS. BHARGAVA PRIYANKA  
S.B. BILLIMORIA & CO  
MCT HOUSE, ONE OKHLA CENTRE  
OKHLA INSTITUTIONAL AREA  
NEW DELHI-110025
- 821 502098 MR. SHUKLA AUSANG  
H-1, STUDENT VILLAGE-II  
INDIAN SCHOOL OF BUSINESS  
GACHIBOWLI  
HYDERABAD-500019
- 822 502124 MR. GHAI VISHAL  
T R CHADHA & CO  
B 30  
D. KUTHIALA BUILDING  
CONNAUGHT PLACE  
NEW DELHI-110031
- 823 502134 MR. AGARWAL RITESH  
D-173, SECOND FLOOR  
SAKET  
NEW DELHI-110017
- 824 502143 MR. AGARWAL SIDDHARTH  
PRICE WATERHOUSE COOPERS  
PW CENTRE  
SAIDULAJAB  
M B ROAD OPP D BLOCK SAKET  
NEW DELHI-110030
- 825 502144 MR. RUNGTA VINAY KUMAR VISHWMBHERLAL  
33/2 OLD RAJINDER NAGAR  
2ND FLOOR NEAR GURUOWARA  
NEW DELHI-110060
- 826 502168 MR. SANJAY KUMAR  
A-75, CHAWLA COLONY  
BALLABGARH-121004
- 827 502174 MR. HANOA NITIN  
R-29 MOOEL TOWN  
DELHI-110009
- 828 502177 MR. NAYAK GANGA DHAR  
PLOT NO. 1765 A/3 GALI NO. 5  
RAJEEV NAGAR  
NEAR SECTOR 14  
GURGAON-122001
- 829 502183 MS. JAIN PRERANA  
ERNST & YDUNG  
2ND FLOOR CAPITAL COURT  
LSC PHASE 3  
OLOF PALME MARG MUNIRKA  
NEW DELHI-110067
- 830 502191 MR. Y JAYSHANKAR  
ABB LTO  
32, INDUSTRIAL AREA  
N.I.T.  
FARIDABAD-121001
- 831 502194 MR. CHAWLA NISHITH  
1068 SECTOR 19 B  
CHANDIGARH-160019
- 832 502202 MR. WADHWA GAURAV  
FLAT NO 75  
JAI LAXMI APARTMENTS  
PLOT NO 59 I.P.EXTN  
DELHI-110092
- 833 502210 MR. SHAH RAJEEV  
43 DIPNI APPARTMENTS  
ROAD NO 44  
PITAM PURA  
DELHI-110034
- 834 502212 MR. GARG VIPLUL  
274 RPS DDA FLATS  
MANSAROVER PARK  
SHAHDARA  
DELHI-110032
- 835 502229 MR. KHANNA SUVEER  
KPMG, 4.B DLF CORPORATE PARK  
DLF CITY PHASE 3  
GURGAON-122002

- 835 502239 MR. JAIN UTTAM KUMAR  
C/O APOLLO TYRES LTD  
7 INSTITUTIONAL AREA  
SECTOR 32  
GURGAON-122001
- 837 502264 MR. SHAMSHER SINGH  
C/O SRIKANT  
A 312 DDA FLATS  
GOVINDPURI EXTN  
KALKAJI  
NEW DELHI-110019
- 838 502328 MR. PANDEY PRAVIN  
B 40 B.K. DUTT COLONY  
KARBLA  
NEW DELHI-110003
- 839 502391 MR. KHANAL SANTOSH KUMAR  
KUMARI GUEST HOUSE  
DURBAR SQUARE  
KATHMANDU
- 840 502397 MR. BIRBHAN  
SHOP NO. 22, NEW GRAIN MARKET  
ELLANABAD  
SIRSA-125055
- 841 502424 MR. NAREDI NITIN  
G-1405, CHITTARANJAN PARK  
SECOND FLOOR  
NEW DELHI-110019
- 842 502431 MR. DANG MAYANK  
307 SATYA MANSION A-1 A-2 RANJIT NAGAR  
NEW DELHI-110008
- 843 502495 MR. ATUL KUMAR  
C 56 GALI NO 8  
RAJGARH COLONY  
DELHI-110031
- 844 502509 MR. VIRENDRA SINGH  
F-64, STREET NO. 7  
MANGAL BAZAR ROAD  
LAXMI NAGAR  
DELHI-110092
- 845 502535 MR. KHARKWAL GAGAN KUMAR  
C/O SH J P BAURAI  
15-B, PARVATIYA VIHAR  
B-6, VASUNDRA ENCLAVE  
DELHI-110096
- 846 502579 MR. TIWARI ASHISH KUMAR  
583, SARASWATI VIHAR  
GURGAON-122001
- 847 502610 MS. SMRITI  
FLAT NO 77  
BLOCK BG -1  
PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 848 502690 MR. AMIT KUMAR  
860 POCKET 3  
DWARKA SECTOR 19  
NEW DELHI-110045
- 849 502705 MR. RATHORE SUMIT  
503/2 MILLENNIUM APT  
PLOT NO 2  
DWARKA SECTOR 9  
NEW DELHI-110045
- 850 502706 MR. GURNANI GIRISH  
C/O S.R. BATLIBOI & CO  
2ND FLOOR, THE CAPITAL COURT  
LSC PHASE III, OLOF PALME MARG  
MUNIRKA  
NEW DELHI-110067
- 851 502710 MS. SINGH PARUL PRIYA  
J9 LAJPAT NAGAR 3  
NEW DELHI-110024
- 852 502783 MR. AMIT KUMAR  
4-C DEEPA APARTMENTS  
10, 1 P EXTN  
DELHI-110092
- 853 502793 MR. MEHTA ADITYA  
S-247, GREATER KAILASH PART-2  
NEW DELHI-110048
- 854 502828 MR. KAPUR MRITUNJAY  
22, POORVI MARG  
VASANT VIHAR  
NEW DELHI-110057
- 855 502830 MR. TANDON ANUJ  
CD-10/F.D.D.A.FLATS,  
HARI NAGAR  
NEW DELHI-110064
- 856 502846 MR. SHRESTHA RADHESHYAM  
KUPONDDLE-10,  
LALIT PUR  
P O BOX NO. 20526  
KATHMANDU
- 857 502881 MR. NIJANAND KRISHNA RAJ  
C/D PARIMAL KONGARI  
C 445 C.R.PARK  
NEW DELHI-110019

- 858 502891 MS. GUPTA RACHNA  
INDIRA NIKETAN  
WORKING GIRLS HOSTEL  
SAROJINI NAGAR  
NEW DELHI-110023
- 859 502911 MR. JAIN AMIT  
81, SURYA NIKETAN  
DELHI-110092
- 860 502923 MR. SHARMA DINESH KUMAR  
64 BAHUBALI ENCLAVE  
I T EXTN  
DELHI-110092
- 861 502967 MR. ANSARI IMTIYAZ AHMAD  
46-B JOHRI FARM  
NOOR NAGAR EXT.  
JAMIA NAGAR  
NEW DELHI-110025
- 862 502978 MR. AGRAWAL ALOK  
1619/52 GALI NO 4  
ULDHANPUR (M 52)  
NAVEEN SHAHDARA  
DELHI-110032
- 863 502983 MR. BHALLA RAKESH  
459, SECTOR-10  
FARIDABAD-143001
- 864 503016 MS. BHAGAT SAVITA  
230, BHAI PARMANAND COLONY  
DELHI-110009
- 865 503067 MR. GURPREET SINGH  
A2B, 186A, PASCHIM VIHAR  
NEW DELHI-110063
- 866 503116 MR. SHARMA RAMAN  
H NO C 9 SECTOR 14  
CHANDIGARH-160014
- 867 503131 MS. BISHT YASHODA KUNDAN SINGH  
C/O. COL. B.S. ALMIYA  
707, HEIGHTS, SOUTH CITY-I  
GURGAON-122001
- 868 503182 MR. SARIN GAURAV  
4/66 W E A  
SARASWATI MARG  
KAROL BAGH  
NEW DELHI-110005
- 869 503221 MR. RASTOGI VISHAL  
205/1, SRI RAM NAGAR  
SHAHDARA  
DELHI-110032
- 870 503253 MS. NAYYAR AVANTIKA  
A-49, FIRST FLOOR  
EAST OF KAILASH  
NEW DELHI-110065
- 871 503255 MR. SHUKLA ANURAG  
1348 LODHI ROAD COMPLEX  
NEW DELHI-110003
- 872 503258 MR. VAID DEEPAK  
HOUSE ND. 42, PAWAN ENCLAVE  
NEAR VIVEK VIHAR  
OPP.SOAP FACTORY, FLORA  
JAMMU TAWI-180001
- 873 503285 MR. VIKRAM SINGH  
HOUSE NO. 895  
URBAN ESTATE PHASE-II  
NEAR M G N SCHOOL  
JALANDHAR-144001
- 874 503307 MS. KAPOOR SHALINI  
92-F, RAJPURA COLONY  
PATIALA-147001
- 875 503431 MR. M RAVI SHANKAR  
283 MIG FLAT  
PRASAD NAGAR  
NEW DELHI-110005
- 876 504125 MR. VADDI JAGANNATH  
C/O SANJAY GUPTA  
H 23 1ST STREET  
SHAKARPUR  
DELHI-110092

DR. ASHOK HALDIA  
Secy.

New Delhi-110002, the 27 September 2006

(Chartered Accountants)

No.1-CA(7)/(94)/2006: In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council at Bellary with effect from 8<sup>th</sup> September, 2006.

The Branch shall be known as Bellary Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Bellary City, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Bellary :

1. Donimalai
2. Gangavathi
3. Gotur Post
4. Guntakal
5. Hospet
6. Sandur
7. Suruguppa
8. Toranaqallu

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

DR. ASHOK HALDIA  
Secy.

No.1-CA(7)/(95)/2006: In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Western India Regional Council at Bharuch with effect from 8<sup>th</sup> September, 2006.

The Branch shall be known as Bharuch Branch of the Western India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Bharuch City, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Bharuch :

1. Ankleshwar
2. Dahej
3. Losamba
4. Jambusar

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Western India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

DR. ASHOK HALDIA  
Secy.



No.1-CA(7)/(96)/2006: In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Central India Regional Council at Gorakhpur with effect from 8<sup>th</sup> September, 2006.

The Branch shall be known as Gorakhpur Branch of the Central India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Gorakhpur City, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Gorakhpur:

1. Maharajganj
2. Sant Kabir Nagar
3. Deoria
4. Kushinagar

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

DR. ASHOK HALDIA  
Secy.

No.1-CA(7)/(97)/2006: In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council at Kakinada with effect from 8<sup>th</sup> September, 2006.

The Branch shall be known as Kakinada Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Kakinada City, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Kakinada:

1. Amalapuram
2. Chelluru
3. Gollaprolu
4. Indupalli
5. Jaggampetga
6. Korapa
7. Korumilli
8. Pedapalla
9. Peddapuram
10. Samalkot
11. Srungavaram
12. Vilasa

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

DR. ASHOK HALDIA  
Secy.

Kolkata-700071, the 27th September 2006

## (Chartered Accountants)

3ECA/5/2/2004-05 : with reference to this Institute's Notification Nos. dated, 4CA(1)/27/1976-77 dated 5 Mar 1977, 3ECA(4)/12/1983-84 dated 31 Mar 1984, 3ECA(4)/3/1985-86 dated 30 Sept 1985, 3ECA(4)/11/86-87 dated 31 Mar 1987, 3ECA (4)/6/1988-89 dated 24 Feb 1989, 3ECA (4)/3/97-98 dated 31 Mar 1998, 3ECA (4)/3/1998-99 dated 12 May, 1999, 3ECA/4/2/1999-2000 dated 11 April, 2000, 3ECA/4/3/2000-01 dated 22 Feb, 2001, 3ECA/4/3/2001-02, dated 12 Aug, 2002 and 3ECA/4/2/2003-04 dated 8 September, 2004 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:-

S. No.	MRN	Member Name & Address	Restore				
				10.	050920	Mr. Santra Joydeb ACA 28 Ghosh Para Makhla - 712 245	14/10/2004
				11.	052111	Mr. Dasgupta Sumit ACA 15A/1 Baishnabghata Road Kolkata - 700 047	03/11/2004
				12.	052375	Mr. Gupta Chhangoo Lal FCA 7/3 Rifle Range Road Kolkata - 700 019	17/03/2005
				13.	052661	Mr. Gupta Sudip ACA KPMG PO. Box PC 112 Ruwi 0 Sultanate of Oman	25/02/2005
				14.	052976	Mr. Khashtgir Pradip ACA 2 Lake View Raod Kolkata - 700 029	23/12/2004
				15.	053906	Mr. Bhattacharya Bidyut Prakas ACA C/O Bijali Kanta Bhattacharya Anandam Housing Complex Flat No. 317 7 K.B. Sarani (Mali Road) Kolkata - 700 080	05/11/2004
				16.	054050	Mr. Ghosh Tapash Kumar ACA 8/4 B.T. Road Kolkata - 700 002	22/03/2005
				17.	054173	Mr. Banerjee Surajit ACA P-106 Lake Terrace 1st Floor Kolkata - 700 029	05/11/2004
				18.	054728	Mr. Maitra Gautam ACA Flat No. BB-11 Shantinath Apt. Opp : Vejalpur Bus Stop Vejalpur Ahmedabad - 380 051	27/01/2005
				19.	055334	Mr. Das Shibu ACA C/O Goldstar Financial Services Pvt. Ltd. 12th Floor "Kanchana" 7/1 Russell Street Kolkata - 700 071	27/01/2005
				20.	055767	Mr. Mohanty Niranjan FCA AT : Maria Bazar P.O. : Buxi Bazar Cuttack - 753 001	14/03/2005
				21.	056363	Ms. Sarcar Sanghamitra ACA Sr. Manager Birla Management Corporation Ltd. Aditya Birla Group 311 WTC Barakhamba Lane New Delhi - 110 001	07/02/2005
				22.	057359	Mr. Agrawal Manoj Kumar ACA 32 Sukhwani Paradise Shanta Apte Road Off : Bhau Patil Road Bopodi Range Hills Pune - 411 020	03/01/2005
1.	011034	Mr. Ahmed Ziauddin FCA C/O Webel Bhaban Block EP / GP Sector - V, Bidhan Nagar Kolkata - 700 091	22/03/2005				
2.	012372	Mr. Sarbadhikari Asit Ranjan FCA HIG Duplex - 1 Sailashree Vihar Bhubaneswar - 751 021	10/12/2004				
3.	016676	Mr. Pradhan Prakas Chandra ACA C/O Partha Basu Vill : Dhalua PO : Panchasayar 24 Parganas (South) Kolkata - 700 094	29/09/2004				
4.	033914	Mr. Bhandari Shailendra ACA 365 Holland Road # 07-03 Allsworth Park Singapore - 278 634	20/12/2004				
5.	050020	Mr. Dash Suresh Chandra ACA Plot No. N-3/19 IRC Village Nayapalli Bhubaneswar - 751 015	11/10/2004				
6.	050123	Mr. Dalan Bijay Kumar FCA 44-B Syed Amir Ali Avenue Kolkata - 700 017	02/12/2004				
7.	050311	Mr. Sinha Amitava ACA AE-606 Sector I Salt Lake City Kolkata - 700 064	30/11/2004				
8.	050315	Mr. Sureka Ashok Kumar FCA 9 India Exchange Place 6th Floor Kolkata - 700 001	29/12/2004				
9.	050862	Mr. Ray Prajnan ACA 4C Hemchhaya Iron Side Road Kolkata - 700 019	19/11/2004				

23.	057578	Mr. Choudhury Prasanna ACA C/O Laldash & Co. 98 Sahid Nagar Bhubaneswar - 751 007	23/12/2004	29.	059680	Mr. Sehgal Manish ACA Plot No. 62 Saket Enclave ECIL Post Kapra Municipality Secunderabad Hyderabad - 500 062	18/10/2004
24.	057623	Mr. Khandelwal Vikash ACA Block A Flat 501 36 Palm Avenue Kolkata - 700 019	11/10/2004	30.	060726	Mr. Garg Uttam Kumar ACA Agrawal Bhawan Vaishno Devi Mandir Lane AT/PO : Khetraipur Sambalpur - 468 003	30/09/2004
25.	058095	Mr. Drolia Sameer ACA C/O Arun Kumar Poddar Flat No. 201 Block-C Rabindra Nagar Complex Shalimar Howrah - 711 103	07/01/2005	31.	060787	Mr. Yadav Prashant Kumar ACA Stock Holding Corporation of India Ltd. Room No. 291 Jaipur Stock Exchange Building Jawaharlal Nehru Road Malvia Nagar Jaipur - 302 017	01/12/2004
26.	058503	Mr. Manot Sunil ACA C/O Umashankar Prasad Near Custom House Raxaul - 845305	29/09/2004	32.	060817	Mr. Sengupta Rik ACA 816 Naskarhat Road Kolkata - 700 039	09/03/2005
27.	058851	Mr. Patro Prasanta Kumar ACA C/O Anup Mishra B/233 Ekta Housing Society Near Leela Kempinskie Moral Naka Andheri Mumbai - 400 059	13/10/2004	33.	060980	Mr. Lundia Yogesh ACA C/O Shri Om Prakash Lundia 32B/2 Rafi Ahmed Kidwai Road Off Jessore Road Kolkata - 700 055	29/03/2005
28.	059496	Mr. Ghosh Sudip Ranjan ACA HE 19/10/Sachindra Lal Sarani Pravat Apartment 3rd Floor Baguihati Joramandir Goutam Para Kolkata - 700 059	25/02/2005	34.	061673	Mr. Mukherjee Rabi Jyoti ACA Shiloah Investments Ltd. Mega Plaza Block A 3rd Floor, P.O. Box : 2501 Kisumu Kenya 0 East Africa	22/11/2004

ASHOK HALDIA  
Secy.

Chennai-600 034, the 4th October 2006

## (Chartered Accountants)

3SCA(5)/1/2004-2005 : With reference to this Institute's Notification Nos. 3SCA(4)/4/2003-2004 dated 23<sup>rd</sup> August 2004, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from 22/12/2003, the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
1	002995	MR. VENUGOPAL A ACA 'PRABHAVA' 417/9 IV 'A' CROSS YELAHANKA SATELLITE TOWN BANGALORE-560064	9	014434	MR. SUBRAMANIAN T S FCA C-27 OFFICERS QUARTERS BEML NAGAR KOLAR GOLD FIELDS-563115
2	003375	MR. SABNE DATTATRAYA GANESH FCA FLAT NO. 203 KAVERI SHIKHAR APTS 3-4-526/16 BARKATPURA HYDERABAD-500027	10	014462	MR. VENKATARAMAN ARUNACHALA ACA FLAT NO F2, E-44 FLATS NO 93-A, KRISHNAMACHARY NAGAR ALAPAKKAM CHENNAI-600116
3	004802	MR. GANAPATHY P R FCA NEW NO 41 (OLD NO 16) GANGAI AMMAN KOIL STREET CHENNAI-600094	11	014986	MR. RAMAN V K FCA NEW NO 38 SOUTH USMAN ROAD T NAGAR CHENNAI-600017
4	005671	MR. JAYARAM HARI FCA SREE XLII/1521-B OPP: LINK MANOR APPT OLD RAILWAY STATION ROAD KOCHI-682018	12	015294	MR. THANGAVELU M FCA FLAT NO G-3, JAINS ANURAAG NEW NO. 32 (OLD NO 19) ARCOT MUDALI STREET T NAGAR CHENNAI-600017
5	006591	MR. PRAHALLADA RAO S K FCA NO 157, FIRST FLOOR ST PATRICKS COMPLEX BRIGADE ROAD BANGALORE-560025	13	015616	MR. JAYABALAN V FCA 17 POOMBUHAR STREET 1 FLOOR ERODE-638001
6	009926	MR. GOPALAKRISHNAN P V ACA GROUP INTERNAL AUDIT MANAGER NEEL KAMAL GROUP POST BOX 2409 DUBAI U.A.E	14	016589	MR. RAMANI J ACA FLAT NO C-17, 4TH FLOOR NELSON CHAMBERS 115 NELSON MANICKKAM ROAD AMINJIKARAI CHENNAI-600029
7	010125	MR. SRIRAMULU RAMANATHAN ARCOT ACA C/O THE BHARATH AUTOMOBILES 14 J C ROAD BANGALORE-560002	15	016751	MR. RADHAKRISHNAN M ACA ROYAL HORISON LLC POST BOX 8095 DUBAI U.A.E
8	012123	MR. CHAKRAPANI P S FCA H NO:300 COAL QUARTERS SAHAKARA NAGAR BANGALORE-560092	16	018019	MR. DHARMARAJA AYYAR S FCA RAJBHAVAN TEMPLE ROAD CALICUT DISTRICT RAMANATTUKARA-673633
			17	018386	MR. BALASUBRAMANIAN M ACA 21 FOURTH STREET TATABAD COIMBATORE-641012

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
18	018539	MR. SAMBAMOORTHY B ACA FLAT NO.2 AKILA APARTMENTS DR V S IYER STREET RANGANAGAR SRIRANGAM TIRUCHIRAPALLI-620006	28	019968	MR. SRINIVASA RAGHAVAN B K FCA PRESIDENT (FINANCE) PRIME TEXTILES LIMITED P B 154 GANDHI NAGAR PO TIRUPUR-641603
19	018554	MR. VIJAYARAGHAVAN R FCA P O BOX # 1122 BOROKO NATIONAL CAPITAL DISTRICT PORT MORESBY PAPAU NEW GUINEA	29	020047	MR. VAIDYANATHAN S ACA NEW NO 12 (OLD NO 34/1) V KRISHNASWAMY AVENUE MYLAPORE CHENNAI-600004
20	018665	MR. SURYA VARA PRASAD VARAHABHATLA FCA FLAT NO.102, I FLOOR, RAAGA AVENUE BEHIND SAI RANGA 70 MM THEATRE MIYAPUR HYDERABAD-500050	30	020250	MR. MUTHURAM K ACA 5, M G R STREET CHOLAVARAM NAGAR CHROMEPET CHENNAI-600044
21	018818	MR. VIVEKANANDHAN S FCA F-8, 120 HIG APARTMENTS 11TH AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI-600083	31	020397	MR. THIRUNAVUKKARASU K FCA SECOND FLOOR D NO.60, GOVINDAN STREET SALEM-636001
22	018945	MR. PADMANABHAN M A ACA DEPUTY CHIEF ACCOUNTS OFFICER ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION LTD CUDDAPAH ZONE CUDDAPAH-516001	32	020471	MR. KULASEKHARA VARMA FCA FINANCE MANAGER (PROJECTS) DUBAI INTERNATIONAL REAL ESTATE P O BOX 29000 DUBAI U.A.E
23	019211	MR. RAMANI P A ACA JL TIRTAYASA IV/19 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN INDONESIA	33	020516	MR. MADHU SUDHAN P ACA 89 BRANWOOD DRIVE WEST WANOR NEW JERSY-07059, U.S.A
24	019247	MR. ELANGO VAN A R FCA DI, SBI OFFICERS QUARTERS 15 RACE COURSE ROAD COIMBATORE-641018	34	020525	MR. ISSAC GEORGE A ACA DIRECTOR FINANCE GVK INDUSTRIES LIMITED 'PAIGAH HOUSE' 156-159 SARDAR PATEL ROAD SECUNDERABAD-500003
25	019296	MR. JAYARAMAN S ACA FLAT NO 34, DOOR NO 209 ST.NO 2, BALARAM NAGAR SAFILGUDA HYDERABAD-500047	35	020764	MR. SRIVATHSAN C S FCA 17-A, T K NAMBI STREET KANCHEEPURAM-631503
26	019454	MR. THOMAS K J FCA KOSSERIL HOUSE CIVIL LINE ROAD PALARIVATTOM KOCHI-682025	36	020868	MR. NATARAJAN K FCA FLAT NO.312 KANCHAN TOWERS RAJARAJESWARIPURAM NEAR SWAMI THEATRE GUNTUR-522006
27	019806	MR. VENKATARAMANI S ACA FLAT NO A-3, SAI SWAGATH APTS NEW NO 13 (OLD NO 6) SARANGAPANI STREET T NAGAR CHENNAI-600017	37	021111	MR. RAGHURAMAN S FCA 1520 GLASTONBURY DRIVE PLANO T X-75075 U.S.A
			38	021274	MR. GOVINDARAJAN S ACA 49/255A ANANDA NILAYAM PARAYIL ROAD ELAMAKKARA KOCHI-682026

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
39	021443	MR. MAHESH G FCA FINANCE DIRECTOR FRESENIUS MEDICAL CARE PTY LTD LEVEL 17, 61 LAVENDER STREET MILSONS POINT NEW SOUTH WALES-2061 AUSTRALIA	49	022270	MR. ALAGIYA MANAVALAN R ACA MANAGER - CREDIT ING VYSYA BANK LTD C R M D, 2ND FLOOR 22 M G ROAD BANGALORE-560001
40	021482	MS. UMA MAHESH S ACA C3-102 F BHEL TOWNSHIP TIRUCHIRAPALLI-620014	50	022278	MR. POPURI SRI RAMANAGABHUSANA RAO FCA 1-93/2 PRABHAT NAGAR CHAITANYAPURI DILSUKHNAGAR HYDERABAD-500029
41	021483	MR. VEERESHAM G FCA D NO.1-2-597/24/3 II FLOOR NEAR KATTAMAISAMMA TEMPLE LOWER TANKBUND ROAD DOMALGUDA HYDERABAD-500029	51	022328	MR. JOHN J PUTHIYIDOM FCA XXVII/554 PALAI ROAD THODUPUZHA-685585
42	021596	MR. SUNDARAM K M FCA C-28 ANNA NAGAR EAST CHENNAI-600102	52	022480	MR. CHELLATHAMBI S FCA F-3 AMARAVATHI ROAD BLOCK 16 NEYVELI-607801
43	021640	MR. SEKAR M FCA 486 8TH CROSS 10TH MAIN JEEVAN BIMA NAGAR BANGALORE-560075	53	022526	MR. RAVINDRANATH V FCA PLEASANT APARTMENTS 14/45 TAYLORS ROAD KILPAUK CHENNAI-600010
44	021691	MR. RAGHUNATHAN J FCA (OLD NO 60) NEW NO 14 KAMARAJ AVENUE FIRST STREET ADYAR CHENNAI-600020	54	022690	MR. HARINARAYANAN B FCA 12 TAGORE STREET 'BALU ILLAM' MAHALINGAPURAM POLLACHI-642002
45	021770	MR. SAMPAT PRAKASH FCA MANAGING DIRECTOR BEARING POINT INC 711 LOUISIANA STREET HOUSTON TEXAS-77002, U.S.A	55	022805	MR. KOPPAR H R FCA H NO 111-B, 24TH CROSS 2ND BLOCK RAJAJINAGAR BANGALORE-560010
46	021779	MR. MUKHTAR ALI SAJANLAL ACA FINANCIAL ANALYST BOODAI TRADING CO LTD P O BOX 42371 70654 SHUWAIKH KUWAIT	56	022816	MR. RAVINDRANATH RATHO ACA SR.GENERAL MANAGER SIK STEEL PLANT LTD PLOT NO 75, NEW MLA & MPS COLONY ROAD NO 10-C, JUBILEE HILLS HYDERABAD-500033
47	022229	MR. KRITHIVASAN K ACA VICE PRESIDENT INTERNAL AUDIT ARAB BANKING CORPORATION P O BOX 5698 MANAMA BAHRAIN	57	023063	MR. SASI KUMAR A FCA SENIOR AUDITOR AGN MAK GHAZALI LLC P B NO.5755 MUSCAT SULTANATE OF OMAN
48	022259	MR. AHAMMED KABEER T H FCA THAIMADAM 18/495 DESIA KAVALA B M C POST THRIKKAKKARA KÖCHI-682021	58	023379	MR. KUMAR S ACA MANAGING DIRECTOR LIFESTYLE INTERNATIONAL (P) LTD NO 84 TTK ROAD ALWARPET CHENNAI-600018
			59	023392	MR. SHIVA KUMAR C V FCA 801 POONAMALLEE HIGH ROAD ARUMBAKKAM CHENNAI-600106

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
60	023407	MR. RAMASUBRAMANIAN G ACA C-165, SRIVATSA GARDEN METTUPALAYAM ROAD THUDIYALUR COIMBATORE-641034	72	025077	MR. KRISHNAN S FCA TOTAL P O BOX 9803 DOHA QATAR
61	023576	MR. RAJARAJAN T. ACA 24 VENKATESWARA NAGAR FIRST STREET, G V FLATS SALIGRAMAM CHENNAI-600093	73	025082	MR. DEVENDER RAO G ACA FLAT NO A-201 DATTASAI APARTMENTS BESIDES YASHODA HOSPITAL RAJBHAVAN ROAD SOMAJIGUDA HYDERABAD-500482
62	023638	MR. AMMANGI U G FCA 1938 KADOLKAR GALLI BELGAUM-590002	74	025089	MR. MANJUNATH B A FCA NO 106 R T STREET BANGALORE-560053
63	023748	MR. ARAMVALARTHAN S FCA ONE SCHOOL AVENUE IDUKKI DISTRICT PULLIKANAM P O-685503	75	025187	MR. VENKATESWARA SRIDHAR L N P ACA NEW NO. 159, (OLD NO 23-B) IST FLOOR VANNIER STREET TRUSTPURAM CHENNAI-600094
64	023911	MR. NAGESWARAN A FCA 136 NEHRU STREET RAM NAGAR COIMBATORE-641009	76	025380	MR. PAULPANDI JEYASINGH L ACA M6/G4 SOORYA FLATS TIRUVALLUVAR NAGAR THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041
65	024064	MR. TIRUMAL KUMAR B AGA FLAT NO 205 PLOT NO 14-15 SRI SAI RAM TOWERS JAYAPRAKASH NAGAR COLONY YELLAREDDYGUDA HYDERABAD-500073	77	025841	MS. PRAMILA JAIN FCA SF-6 GOLDEN ENCLAVE 184 POONAMALLEE HIGH ROAD KILPAUK CHENNAI-600010
66	024427	MR. ASHOK V S ACA FINANCIAL CONTROLLER SOUTHCOMM(EA) LTD 800 MATAKA ROAD, UPANGA DAR ES SALAAM TANZANIA	78	025974	MS. SANDHYA N ACA MANAGER C/O EXPRESS PRINTING SERVICES P O BOX 10263 DUBAI U.A.E
67	024782	MR. VARADARAJAN S ACA PARKSIDE APARTMENTS 9B/9, VENKATANARAYANA ROAD T NAGAR CHENNAI-600017	79	026269	MR. MOHAN K R ACA NO 99 MOHAN RAM NAGAR (BACK OF KANCHEEPURAM CO-OP.BANK) MOGAPPAIR CHENNAI-600037
68	024868	MR. SHANMUGAM K M FCA NO 9 MARTHANDAPURAM 2ND STREET PUDUKKOTTAI-622001	80	026535	MR. KANNAN D FCA VIKAS PLAZA SHOP NO 6 FIRST FLOOR 37-C TAMBARAM VELACHERY MAIN ROAD VIJAYANAGAR VELACHERY CHENNAI-600042
69	024888	MR. RAJAN SUBRAMANIAN FCA 69, T.T.K. ROAD ALWARPET CHENNAI-600018	81	026745	MR. VASU A M FCA # 162/Y THIRD MAIN ROAD 7TH BLOCK FOURTH PHASE BSK III STAGE BANGALORE-560085
70	024959	MR. MALOLAN P N ACA 1600 GROUND FLOOR IST 'A' CROSS 3RD MAIN BANGALORE-560040	82	026862	MR. BHASKARA RAMA MURTY Y V FCA 13-2/14 GUPTA GARDENS RAMANTHAPUR HYDERABAD-500013
71	025011	MS. JAYALAKSHMI GOPALA KRISHANAN ACA 304, SKY HIGH TOWER SHANKAR LANE, ORLEM MALAD WEST MUMBAI - 400064.			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
83	027196	MR. SURESH C S FCA NEW NO.9 (OLD NO.5/1) THIRD TRUST CROSS STREET MANDAVALIPAKKAM CHENNAI-600028	93	028169	MR. RAVINDRAN R ACA PRINCIPAL CONSULTANT APPSHOP SOLUTIONS (P) INDIA LTD 8TH FLOOR, HMG BUILDING RESIDENCY ROAD BANGALORE
84	027303	MR. MURALI N ACA FINANCE MANAGER KHORFAKKAN QUARRY CO LLC P O BOX NO 10967 KHORPAKKAN SHARJAH U.A.E	94	028275	MR. RAMESH K ACA NEW NO.10 (OLD NO 8) XI STREET TANSI NAGAR VELACHERY CHENNAI-600042
85	027383	MR. SRIKANTH PARTHASARATHY FCA PLOT NO 18 VENKATESWARA NAGAR OPP: TNP JUNIOR COLLEGE NEAR A S RAO NAGAR HYDERABAD-500062	95	028292	MR. GEORGE G ACA HEAD OF CORPORATE FINANCIAL SERVICES GRINDLAYS QATAR BANK P B NO 2001 DOHA STATE OF QATAR
86	027532	MR. BALACHANDRAN NAIR S FCA FINANCE AND ADMIN MANAGER SNITTA FREIGHT & LOGISTICS (LLC) PO BOX 8845, LIBERTY BUILDING AL GARHOUD ROAD (OPP:DUBAI GREEK GOLF CLUB) DUBAI U.A.E	96	028316	MR. PREMRAJ B ACA "PREM-SUDHA" OPP: SUNDARI APARTMENTS SHIV BAGH MAIN ROAD KADRI MANGALORE-575002
87	027626	MR. NARASIMHA REDDY M FCA 124 FIRST FLOOR 4TH CROSS LALBAGH ROAD A C GARDEN BANGALORE-560027	97	028343	MR. JAGADISWARA RAO P FCA FLAT NO 6 SREENIVASA APARTMENTS RAJ BHAVAN ROAD SOMAJIGUDA HYDERABAD-500082
88	027663	MR. SREEKANTH SWAMINATHAN FCA NO.74 (OLD NO.83) 1 FLOOR DR.RANGACHARI ROAD CHENNAI-600004	98	028412	MR. VIJAYABHASKAR K ACA 10407 TORRELLE DR CHARLOTTE CHARLOTTE-28277 U.S.A
89	028056	MR. THEJUS P R FCA 1 FLOOR SAHITYA PARISHAD BUILDINGS HOSPITAL ROAD KOCHI-682011	99	028457	MR. SWAROOP ANAND R S T FCA M - 16C KRUPA COLONY ASHOK NAGAR CHENNAI-600083
90	028109	MR. KRISHNA G V FCA NO.17, 1 FLOOR SREEPURAM SESHADRIPURAM BANGALORE-560020	100	028504	MR. VIJAYA SEK HAR REDDY M ACA P O BOX NO 46278 GABORONE BOTSWANA
91	028114	MR. SRIKANTH N ACA 10A COOLONG TAN BINH DISTRICT HO CHI MINH CITY VIETNAM	101	028693	MR. CHIVUKULA SATYANARAYANA FCA 7-5-113 PANDURANGAPURAM NEAR R K BEACH VISAKHAPATNAM-530003
92	028137	MR. ANIL KUMAR K N FCA 1 FLOOR SAHITYA PARISHAD BUILDINGS HOSPITAL ROAD KOCHI-682011	102	028775	MR. SANTHOSH KUMAR U K ACA FINANCE & ADMN. MANAGER GULF ROCKS CO K S C P O BOX 1981 SAFAT-13020 KUWAIT



S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
103	028784	MR. VENKATESH V FCA 29 DEVADI STREET MYLAPORE CHENNAI-600004	114	029799	MR. CHILAKAMMARI APPALA CHARYULU FCA 94 LIC COLONY OPP INDIRA PARK HYDERABAD-500029
104	028832	MR. SRIDHAR V ACA NO 122, 6TH CROSS R K LAYOUT PADMANABHA NAGAR BANGALORE-560070	115	029842	MR. DEEPAK KEDIA FCA 23 III FLOOR MAHARAJA BUILDING SHANTHAPPA LANE S P ROAD CROSS BANGALORE-560002
105	028844	MS. SHOBHA SWAMINATHAN ACA C/O. K P M G FAKHRO P O BOX 710 MANAMA BAHRAIN	116	029868	MR. RAVI K ACA CONTROLEUR DE GESTION C/O METAL IVOIRE SA, RUE DE LA POINTE AUX FUMEURS VRIDI-ABIDJAN 01 BP 4315 ABIDJAN 01 COTE DIVOIRE WEST AFRICA
106	029300	MR. VARADHARAJAN N ACA 10/3 EAST TANK SQUARE STREET TRIPPLICANE CHENNAI-600005	117	029920	MR. SURYA PRAKASH G FCA # 11-99/1, NEAR I B CHOWRASTHA OLD BEET BAZAAR MANCHERIAL-504208
107	029372	MR. BALA PRASAD GANTI ACA FINANCIAL CONTROLLER GULF CONSUMER CORPORATION P O BOX 11089 122 12TH FLOOR SHERATON TOWERS MANAMA BAHRAIN	118	029954	MS. JEYASHREE K ACA 273, 11TH 'B' CROSS 14TH MAIN, II PHASE J P NAGAR BANGALORE-560078
108	029406	MR. SRINAGESH RAMABHOTLA ACA FLAT NO 101, PLOT 'E' 10 & 11 MADHURANAGAR HYDERABAD-500038	119	032044	MR. PARAMESWARAN V ACA CONTROLLER - TREASURY UNITED BREWERIES (HOLDINGS) LTD V B ANCHORAGE 100/1, RICHMOND ROAD BANGALORE-560025
109	029430	MR. PUVVALLA GURUMURTHY ACA DY GENERAL MANAGER-ACCOUNTS YOKOGAWA INDIA LTD PLOT NO.96 ELECTRONICS CITY COMPLEX III CROSS, HOSUR ROAD BANGALORE-560100	120	038574	MR. SRIDHAR RAMAMOORTI ACA ASST.DIRECTOR OF THOUGHT LEADERSHIP GLOBAL INVESTIGATIONS & DISPUTE ADVISORY ERNST & YOUNG, SEARS TOWERS 233 SOUTH WACKER DRIVE, CHICAGO ILLINOIS-60606-6301 U.S.A
110	029587	MS. KAMALA K ACA NO 452, FIRST MAIN III CROSS AMS LAYOUT VIDYARANYAPURA BANGALORE-560097	121	039248	MR. GOVINDARAJAN P FCA NEW NO.3 (OLD NO.5/1) RAJAGOPALAN I STREET VALMIKI NAGAR THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041
111	029673	MR. BADARINARAYANA VOOLLA ACA B 52 STEEL AND MINES COMPLEX SRINAGAR COLONY HYDERABAD-500873	122	040984	MR. RAMAKRISHNAN V ACA MANAGER-BUDGETING & MIS AL FAISALIAH GROUP P B NO.16460 RIYADH-11464 SAUDI ARABIA
112	029694	MR. SARMA V V S S FCA C/O SESHIAH INCOME TAX OFFICER(R) 69-17-19 SBI OFFICERS COLONY RAJENDRA NAGAR KAKINADA-533003	123	042563	MR. RAMESH K N ACA P O BOX 9353 CENTURION-0046 SOUTH AFRICA-1685
113	029698	MR. MADIREDDI RADHA KRISHNA FCA 1-9-252/6/A/G-7 RAM NAGAR HYDERABAD-500020			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
124	042830	MR. SRIDHARAN R FCA 14 ANNAPOORNA APARTMENTS 4- 17TH STREET NANGANALLUR CHENNAI-600061	136	060305	MR. SINGHANIA VISHNU KUMAR FCA C/O RAJ SHREE PURAB CABIN ROAD KHAGARIA
125	043663	MR. JAISHANKAR NATARAJAN FCA P O BOX 26649 DUBAI U.A.E	137	060452	MR. SARAOGI AMIT KUMAR, ACA CHARTERED ACCOUNTANT 63, RADHA BAZAR STREET 3RD FLOOR, ROOM NO. 17 & 18 KOLKATTA - 700 001
126	043779	MR. BALAJI L ACA NO 264 'ASHIRWAD' 8TH MAIN J P NAGAR IIIRD PHASE BANGALORE-560079	138	076049	MR. AGRAWAL SHAILESH KUMAR ACA A-806 PURVA HEIGHTS BANNERGATTA ROAD BILLEKAHALLI BANGALORE-560076
127	043795	MS. RAMA BALAJI ACA # 243 SWARNASANDRA COLONY SUGAR TOWN POST MANDYA	139	077404	MR. GANDHI GHANSHYAM ACA H NO. 363, BLOCK B - 16 KENDRIYAVIHAR, 92, MAHAKALI CAVES ROAD, ANDHERI (EAST) MUMBAI - 400093
128	044677	MR. MURALI S ACA ACCOUNTS MANAGER GEMS - VARKEY GROUP P B NO 8607 DUBAI, U.A.E	140	078011	MR. AGRAWAL PRABODH ACA TATA COFFEE LIMITED 201 OXFORD PLAZA 9-1-129/1 S D ROAD SECUNDERABAD-500003
129	052609	MR. MUKESH GANG FCA FLAT NO 102, SESHU VILLA 1-2-593/7, GAGAN MAHAL COLONY HYDERABAD-500029	41	078239	MS. MALPANI NAMRATA ACA 101 VAIBHAV KUNJ 4-2-1069, RAMKOTE HYDERABAD-500001
130	053946	MR. SIPANI SHYAM SUNDAR, FCA CHARTERED ACCOUNTANT PARAMESHWARY BUILDING (4TH FLOOR) CHHATRIBARI ROAD, GUWAHATI - 781001	142	080398	MR. AJAY BHATNAGAR FCA ANDHRA BANK PLOT NO. 74, SECTOR, 17 VASHI, NAVI MUMBAI
131	054004	MS. ALAMELU BALASUBRAMANIAN ACA FLAT NO. 3 'SAIRAMS' FIRST FLOOR 6 NANDANAM EXTN 4TH STREET NANDANAM CHENNAI-600035	143	083602	MR. RAMANI J V FCA PALM SPRINGS APARTMENTS 7 GOI, 16TH MAIN 7 C CROSS, 4-B BLOCK KORAMANGALA BANGALORE-560034
132	056200	MR. SUNDAR S ACA FLAT NO.12 SNEHA ENCLAVE STREET NO.4 WEST MARREDPALLY SECUNDERABAD-500026	144	088561	MR. LAKSHMI NARAYANAN D ACA PLOT NO.1332 20TH MAIN ROAD ANNANAGAR WEST CHENNAI-600040
133	056629	MR. VENUGOPALAN L ACA PLOT NO.250 NO.1 ANNAI MARY I STREET VINAYAKANAGAR KAMARAJAPURAM ANAKAPUTHUR CHENNAI-600070	145	089408	MR. SAMEER SHARMA FCA NO.2 100 FEET ROAD TANSI NAGAR VELACHERY CHENNAI-600042
134	057113	MR. KRISHNAN SADANANDAN FCA PURASSERI HOUSE ERNAKULAM DISTRICT KEZHILLAM-683541	146	093291	MR. GANAPATHIRAJU KOWSALYADEVI ACA 3650, KANEFF CRESCENT, SUITE 2103, MISSISSAUGA, ONTARIO - L5A 4A1 CANADA.
135	059882	MR. SENGUPTA SOUMEN ACA 34/1 SBH COLONY SREENAGAR COLONY HYDERABAD-500783			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
147	200070	MR. MONSIE THOMAS MATHEW ACA FINANCIAL CONTROLLER PAN AFRIC COMMODITIES LTD. P O BOX 24157 KAMPALA UGANDA	158	201187	MR. CHIDAMBARA RAO KOTTA FCA D/NO 48-10-42 1ST FLOOR SRINAGAR OPP: R T C COMPLEX VISAKHAPATNAM-530016
148	200400	MS. AUDREY MILLER FCA C-1 EUCALPTUS APTS AMRUTA VALLEY ROAD NO.12 BANJARA HILLS HYDERABAD-500034	159	201495	MR. KALYANARAMAN R ACA NO.10/11 ISHWARYA APARTMENTS 12TH STREET 2ND MAIN ROAD NANGANALLUR CHENNAI-600061
149	200401	MR. BALAJI G V FCA 4/2 VAIKAKARAN STREET VEPERY CHENNAI-600007	160	201553	MR. IRSHAD AHMED PASHA K ACA ACCOUNTANT UNITED TRANSFORMERS ELECTRIC CO P O BOX 385 RIYADH-11383, KSA
150	200650	MR. SUNDAR A RODRIGUEZ FCA 7 THIRD LANE OLD KUYAVARPALAYAM MADURAI-625009	161	201566	MR. VENKATARAMAN G ACA 11 MAIN STREET SRINIVASA NAGAR CHITLAPAKKAM CHENNAI-600064
151	200713	MR. PETER DEEPAK CASTELINO ACA SENIOR MANAGER DELOITTE & TOUCHE 1750, TYSONS BOULEVARD MCLEAN VIRGINIA-22102 U.S.A	162	201595	MR. RAVI SHANKAR B K ACA # 52 SRIVATHSA 35TH MAIN BTM LAYOUT II STAGE BANGALORE-560068
152	200721	MR. BASKAR E ACA NO 6/9 GANDHI NAGAR 4TH STREET GANDHI NAGAR POST TIRUPUR-641603	163	201614	MS. CHITRA L ACA TEAM LEADER - FINANCE WABCO STANDARD TRANE SA P O BOX 5810 SHARIAH, UAE
153	200906	MR. SELVA RATHA KRISHNAN C ACA GOLD & SILVER TRADING CO. FIRST FLOOR, SRIDHAR COMPLEX 123/3 TOWN RAILWAY STATION ROAD SALEM-636001	164	201627	MR. RAGHUVVEERA KAMATH ACA 29/20, GOLDEN NEST FLAT # 203, OFF HOSUR ROAD ADUGODI BANGALORE-560030
154	200925	MR. RAVICHANDRAN N R ACA GENERAL MANAGER (FINANCE) THAI EPNCY AND ALLIED PRODUCTS LTD I-S ROAD, IEAT MAPTHAPUT, A.MUANG CRAYUNG THAILAND	165	201702	MS. PRABHA DURAIRAJAN ACA NO.120 CHAMBERS ROAD NANDANAM CHENNAI-600035
155	200941	MR. SREEDHAR L FCA INTERNAL AUDITOR ROCKY REAL ESTATES LLC P O BOX NO 2375 DUBAI, U.A.E	166	201811	MR. TANKASALI SHAMRAJ HEMADREPPA ACA NO. 115 6TH MAIN M C LAYOUT BEHIND GAYATHRI HOSPITAL VIJAY NAGAR BANGALORE-560040
156	200960	MR. GOVINDARAJAN S FCA 1, FIRST CROSS STREET BRINDAVAN EXTN. WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	167	202158	MR. SUBRAMANIA SURESH P P FCA 236, 'MAHALAKSHMI MANDIRA' DOSHI HOUSING 39 JUSTICE RATHINAVEL PANDIAN ST MOGAPPAIR CHENNAI-600107
157	200965	MR. CHAKARAPANI S ACA MANAGER - FINANCE THE INDIA CEMENTS LTD 827, ANNA SALAI CHENNAI-600002	168	202221	MR. SRINIVAS SISTALA FCA FINANCE MANAGER NOVOPAN INDUSTRIES LTD., 1-10-60/3 SURYODAYA BEGUMPET HYDERABAD-500016

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
169	202282	MR. VARADARAJAN T K ACA DOOR NO.29 18TH AVENUE FLAT NO.4 I FLOOR ASHOK NAGAR CHENNAI-600083	179	203356	MR. VIJAYA KUMAR M ACA SENIOR MANAGER - FINANCE MPHISIS BFL LIMITED 139/1 HOSUR ROAD KORAMANGALA BANGALORE-560095
170	202333	MR. NATARAJAN NARAYANASWAMY ACA NEW NO R-1 (OLD NO R-64) 12TH STREET ANNA NAGAR WEST CHENNAI-600040	180	203450	MR. RAVICHANDRAN T FCA NO 66, FIRST MAIN ROAD FIRST FLOOR NANGANALLUR CHENNAI-600061
171	202472	MR. VENKATESHA BABU T ACA FINANCE MANAGER ZIMBABWE SHIPPING HOLDINGS LIMITED T/A SAFMARINE ZIMBABWE 5TH FLOOR, RED BRIDGE EAST GATE, 3RD STREET P O BOX 2089 HARARE ZIMBABWE	181	203511	MR. GANAPATHY V ACA C/O MR V ESWARAN F-5, SRI SAIRAM VILLA NO 1, KAVERI STREET SALIGRAMAM CHENNAI-600093
172	202504	MR. JOSEPH M M FCA ST.GEORGE BUILDING PULICKALKAVALA P O KOTTAYAM DISTRICT VAZHOOOR-686515	182	203530	MR. VISWANATHA REDDY M ACA FINANCE MANAGER POKARNA LTD 105, I FLOOR, SURYA TOWERS S P ROAD SECUNDERABAD-500003
173	202912	MR. GOPALA KRISHNAN N FCA FLAT # 2, GROUND FLOOR AMAR APARTMENTS TEACHERS COLONY EAST MARREDPALLY SECUNDERABAD-500026	183	203547	MR. RADHAKRISHNAN R FCA NEW NO 8, KENNEDY SECOND STREET MYLAPORE CHENNAI-600004
174	202945	MR. RAVI SHANKAR G V ACA NO.1931 'ANJANADRI' 20TH MAIN 5TH CROSS J P NAGAR II PHASE BANGALORE-560078	184	203683	MR. SURESH BABU A ACA 3A SEASHELLS APARTMENTS 10 BEACH ROAD KALASHETHRA COLONY BESANT NAGAR CHENNAI-600090
175	202985	MR. SUNDARA RAJAN P B FCA NO3, 7TH STREET SANTHI NAGAR CHENNAI-600088	185	203920	MR. HARIKRISHNAN T V FCA 'NANDANAM' VEEYAPURAM ROAD NEAR TOWN HALL JUNCTION HARIPAD P O-690514
176	202994	MR. BALAJI MAHASHABDHE K FCA NO 90-A III CROSS LIC COLONY III BLOCK JAYANAGAR BANGALORE-560011	186	204093	MR. RAGHU KUMAR CHUNDI FCA 11-3-2, E-5 PRIYARIVIERA APTS VET. HOSPITAL ROAD RAMARAO PET KAKINADA-533004
177	203003	MR. SELVAMANI K P L FCA FINANCE MANAGER MEGA GARMENT INDUSTRIES EP2 KENYA LTD P O BOX 41673 MOMBASA KENYA	187	204188	MR. PETER CLAVER SALDANHA FCA 9 MICO APARTMENTS 8-10 KENSINGTON ROAD BANGALORE-560042
178	203186	MR. ASHOK KUMAR SURANA FCA FLAT NO 102, 'NAVYA NEST' APARTMENTS 27TH MAIN, 3RD CROSS ASHWINI LAYOUT EIJIPURA (NEXT TO BETHEL CHURCH) BANGALORE-560047	188	204405	MR. BHALAAJI M ACA MANAGER - GFIC ORACLE INDIA PRIVATE LTD BANNERGHATTA ROAD BANGALORE-560076
			189	204458	MR. CHINNAPPA GOWDA B FCA NO.210 II FLOOR COMMERCE HOUSE CUNNINGHAM ROAD BANGALORE-560052

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
190	204464	MR. IMMANUEL CLEMENTS C FCA FIRST FLOOR NO:5 KUMBHAT COMPLEX 700 POONAMALLEE HIGH ROAD AMINJIKARAI CHENNAI-600029	201	205082	MR. BALAJI R FCA VALIDATION AUDITOR / CONSULTANT ARBOUR GROUP LLC SUITE 2020 500 WEST MONROE STREET CHICAGO ILLINOIS-60661 U.S.A
191	204521	MS. SUSEELA KATTA FCA FLAT NO:102 SIVASAI PRAMUKHA NILAYAM H NO:2-73/1 ROAD NO:9 SAINAGAR CHAITANYAPURI HYDERABAD-500060	202	205134	MR. RAMKUMAR A P ACA MANAGER COSTING & PRICING TYCO ELECTRONICS CORPN. INDIA (P) LTD 'TE PARK' 228 DODDENAKUNDI 2ND PHASE INDUSTRIAL AREA, WHITEFIELD ROAD BANGALORE-560048
192	204540	MR. SUDARSHAN RAO K ACA H NO 3-2-827/8 'SANTOSHI NIVAS' CHAPPAL BAZAAR KACHIGUDA HYDERABAD-500027	203	205175	MS. PRASANNA K ACA NO 20, NORTH USMAN ROAD B - BLOCK T NAGAR CHENNAI-600017
193	204619	MR. NAGARAJAN P ACA P O BOX 7275 DUBAI U.A.E	204	205258	MR. KRISHNAMOORTHY G S ACA 32/5 MAHADEVAN STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033
194	204634	MR. BALACHANDAR M J ACA 16 DR M V JAYARAMAN ROAD VASANTHANAGAR BANGALORE-560052	205	205517	MR. ARUNKUMAR NATH ACA MANAGER -FINANCE INDIAN RAYON & INDUSTRIES LTD MADURA GARMENTS DIVISION 60/1 SRI NARAYANA BUILDING UNIVERSAL COMPOUND KODI CHIKKANAHALLI ROAD BOMMANAHALLI BANGALORE-560068
195	204680	MR. SRIDHAR S ACA 13 SANTHANAKRISHNA STREET NEHRU NAGAR CHENNAI-600044	206	205630	MR. JAYACHANDRAN V ACA FLAT NO. 06, PRASHANT APARTMENT PLOT NO. 41, I.P.EXTENSION PATPANGUNJ NEW DELHI - 110092
196	204807	MS. PRIYA KRISHNA SRINIVASAN ACA 27 VYASAR STREET T NAGAR CHENNAI-600017	207	205663	MR. GANESH T ACA MANAGER -FINANCE BANK MUSCAT - FINANCE DIVISION P O BOX 134 POSTAL CODE 112 RUWI SULTANATE OF OMAN
197	204921	MS. REVATHI KUMAR ACA PLOT NO 6, 13TH MAIN ROAD 5TH CROSS STREET VIJAYANAGAR VELACHERY CHENNAI-600042	208	205759	MR. RAMA KRISHNA B V ACA NO 32, 'SUMUKHA' 1ST CROSS, 4TH MAIN VENKATAMMA RAMAIAH COLONY HMT MAIN ROAD,MATHIKERI BANGALORE-560054
198	204939	MR. MAHALINGAM M ACA NO 4/228, GANDHI STREET MA NAGAR CHENNAI-600052	209	205792	MR. NARASIMHA SHENOY K ACA S-305, MAGAN SILVER HILL NO 80 NAIDU'S LAYOUT CHIKKALASANDRA BANASHANKARI 3RD STAGE BANGALORE-560061
199	204960	MR. SWAMINATHAN R ACA 45, SRINIVASA IYER STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	210	205823	MR. AJAY AGARWAL ACA R-45 GOLDEN ENCLAVE AIRPORT ROAD BANGALORE-560017
200	205020	MR. DAYAKAR REDDY P FCA 23/ 827- 3 SECOND FLOOR UPSTAIR SMILE DENTAL HOSPITAL RAMESHREDDY NAGAR NELLORE-524003			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
211	205825	MR. LALIT KUMAR RAKHECHA ACA C/O. SOFTLINE SALES CORPORATION ROYAL COMPLEX II FLOOR NEW NO.232, PYCROFTS ROAD ROYAPETTAH (NEAR BY CLOCK TOWER) CHENNAI-600014	222	206519	MR. GOPALA KRISHNAN K FCA NEW NO.30 (OLD NO.15) PULLA AVENUE SHENOY NAGAR CHENNAI-600030
212	205894	MR. ANAND BALAKRISHNAN ACA CONSULTANT INFOSYS TECHNOLOGIES LTD. SR.NO.210 MANIKONDA VILLAGE LINGAMPALLY RANGA REDDY DISTRICT HYDERABAD-500019	223	206617	MS. VALLI V S FCA T-1 RAOS BALAJI APTS BHARADWAJA STREET EAST TAMBARAM CHENNAI-600059
213	205909	MR. VENKATASUBRAMANIAN R ACA NO 2, GANDHI STREET CHITLAPAKKAM TAMBARAM CHENNAI-600064	224	206621	MR. RAMANUJAN N ACA FINANCE MANAGER REZAYA TRADING CO LTD P O BOX 90 AL KHOBAR-31952 SAUDI ARABIA
214	205969	MR. PRAKASH K ACA 101, 102 BLOCK VI SKYLINE CITY APARTMENT P O NAGARBHARI BANGALORE-560072	225	206635	MR. VENKATA NARASIMHA SASTRY R FCA 102 ABJITEJA ESTATE H NO 334/2RT D NO 10-2-289/12/32 P S NAGAR MASAB TANK HYDERABAD-500057
215	206001	MR. VENKATA SAI PRASAD KOPPOLU ACA VENKATA SAI NILAYAM PLOT # 159 VASANTH NAGAR COLONY NEXT TO JNTU, KPHB HYDERABAD-500072	226	206638	MR. SURAVARAPU SRINIVAS FCA 811 RAGHAVA RATNA TOWERS CHIRAGE ALI LANE ABIDS HYDERABAD-500001
216	206072	MR. BINOY MOHAN ACA CERULEAN INFORMATION TECHNOLOGY PVT LTD 374 1ST CROSS SARJAPUR ROAD 3RD BLOCK KORAMANGALA BANGALORE-560034	227	206713	MR. GEEVANA SUBBA RAO GUPTA T ACA 19-D NAVEEN APARTMENTS STATE BANK COLONY TIRUPUR-641602
217	206220	MR. BHUPATHIRAJU RAMA GOPAL ACA 4308 AVALON CT OKLAHOMA CITY OKLAHOMA-OK-73120 U.S.A	228	206767	MR. SUBASH V ACA DY GENERAL MANAGER - FINANCE IBM GLOBAL SERVICES INDIA PVT LTD 3RD FLOOR, EMBASSY GULF LINKS OFF. KORAMANGALA INDIRANAGAR RING RD BANGALORE-560071
218	206273	MR. SREENIVASAN N S ACA A/11 MIN APARTMENTS NEW NO 45 (OLD NO 18) NEW BOAG ROAD T NAGAR CHENNAI-600017	229	206806	MR. ANURAAG SAXENA ACA CHARTERED ACCOUNTANT C/o. SHRI G. KRISHANMURTHY MIG - 36, LAWSONS BAY COLONY PEDDA WALTAIR, VISAKHAPATNAM - 530017
219	206324	MR. SANJEEV A FCA 1004 A-WING, 10TH FLOOR MITTAL TOWERS M G ROAD BANGALORE-560001	230	206919	MS. RUCHIEGUPTA ACA GE INTERNATIONAL OPERATIONS CENTRE AIFACS BUILDING, 1 RAFI MARG NEW DELHI
220	206326	MR. VISHAL JAIN R ACA NO 9D 1ST LANE KARNEESWARA KOIL STREET CHENNAI-600004	231	206922	MS. SUDHA BALACHANDRAN ACA 54, C R LAYOUT J P NAGAR BANGALORE-560078
221	206504	MR. SAI GANESH K ACA DEPUTY MANAGER-FINANCE FORD INDIA LIMITED VIA S P KOIL POST CHENGALPATTU-603204			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
232	206956	MS. ASHWINI DILIP APTE ACA 29/20 GOLDEN NEST FLAT # 203 ADUGODI BANGALORE-560030	244	207445	MR. KARTHIK N ACA MANAGER -FINANCE & ACCOUNTS WIPRO TECHNOLOGIES DODDA KANNELLI SARJAPUR ROAD BANGALORE-560035
233	206957	MR. SAMBA SIVA RAO S FCA FLAT NO:Q-26 I FLOOR BHARANI COMPLEX MINISTER ROAD SECUNDERABAD-500003	245	207502	MR. MANISUNDARAM S V ACA D-107/C SANGEETHA COLONY K K NAGAR CHENNAI-600078
234	206996	MS. PEMMARAJU SARADA DEVI ACA PLOT NO. 778 VASANT NAGAR HYDERABAD-500072	246	207517	MS. LALITHA R ACA NO.29, 18TH AVENUE KANAKAVALLI APARTMENTS FLAT NO.4 1ST FLOOR ASHOK NAGAR CHENNAI-600083
235	207008	MR. RAJEEV CHATTERJEE FCA SONEVA FUSHI RESORT & SIX SENSES SPA C/O. BUNNY HOLDINGS (BVI) LTD. 4/3 FAAMUDHEYRI MAGU, MALE REPUBLIC OF MALDIVES	247	207518	MR. GOPI RAJ S ACA L-67 7TH MAIN ROAD SECTOR X JEEVAN BHIMA NAGAR BANGALORE-560075
236	207047	MR. KATHIRAVAN M ACA NEW NO. 8 (OLD NO. 10) III CROSS STREET DR SEETHAPATHI NAGAR VELACHERY CHENNAI-600042	248	207580	MS. LAVANYA V R ACA MANAGEMENT ACCOUNTANT M/S GULF WARRANTIES LTD P O BOX 5209 DUBAI U.A.E
237	207075	MR. IMMADI RAVI KUMAR ACA I-37 PRABHAT NAGAR CHAITANYAPURI HYDERABAD-500060	249	207605	MR. GEORGE RESHMIN KARAYATH ACA MANAGER- FINANCE & ADMINISTRATION MOL (UAE) LLC P O BOX 290 DUBAI U.A.E
238	207084	MR. HEMA PRAKASH REDDY K ACA NO. 401 1ST D MAIN DOMLUR LAYOUT BANGALORE-560071	250	207830	MR. NAGARAJAN S ACA FINANCE MANAGER POLYBIT INDUSTRIES LTD P O BOX 293 UMM AL QUWAIN U.A.E
239	207141	MR. KRISHNEN R C FCA PLOT NO.17 4TH CROSS STREET CHANDRASEKARAN AVENUE, THORAIPAKKAM CHENNAI-600096	251	207888	MR. SIVARAMAKRISHNAN T P ACA 88 2ND MAIN 5TH CROSS SARVABHOUMA NAGAR CHIKKALLASANDRA BANGALORE-560061
240	207418	MR. SAJIMON P A FCA # 101 PALACE VIEW APARTMENTS 1ST FLOOR 14 JAYAMAHAL ROAD BENSON TOWN BANGALORE-560046	252	207928	MR. RAVICHANDRAN S S FCA 24 GANGA NAGAR 1ST STREET II FLOOR AVANASHI ROAD TIRUPUR-641602
241	207428	MS. AARTHY R ACA 13 ASHOKA ROAD ALWARPET CHENNAI-600018	253	208040	MR. SRIRAM G ACA 146/2, LAKEVIEW ROAD WEST MAMBALAM CHENNAI-600033
242	207429	MR. SWAMINATHAN J ACA 7 SRI GANGA APTS. 108 ROYAPETTAH HIGH ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	254	208064	MR. KRISHNA KUMAR S ACA 5 RAMANUJAM STREET SRINIVASA NAGAR PERUNGULA THUR CHENNAI-600063
243	207432	MR. MUKUND K C ACA NEW NO 177 (OLD NO 87) KUTCHERY ROAD VINAYAKA NAGAR MYLAPORE CHENNAI-600004			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
255	208097	MR. BOGGARAPU VINODH KUMAR ACA PLOT NO 26 LAKSHMI NARAYAN NAGAR RING ROAD ANAKAPALLI-531001	266	208959	MR. GAJAPATHY P ACA NO 3 SECOND CROSS ROAD RAINBOW NAGAR PONDICHERRY-605011
256	208324	MS. NEELESH JAIN FCA W/O PRAKASH CHAND JAIN D-44/10 DRDO TOWNSHIP (LABQTRS) P O KANCHANBAGH HYDERABAD-500058	267	209034	MR. PRASHANT M SHAH ACA RITUAL APARTMENTS #25 II FLOOR 14TH A CROSS BEHIND CLUNY CONVENT SCHOOL MALLESHWARAM BANGALORE-560003
257	208507	MR. VIJAYA KUMAR SHAKAMURI ACA FLAT NO 104 MAHAMOOD APARTMENTS YOUSUFGUDA CHECK POST YOUSUFGUDA HYDERABAD-500045	268	209061	MR. SRINIVASAN S IYER ACA NO 1 DOUBLE STREET SHOLAVANDAN MADURAI-625214
258	208541	MR. GANDIKOTA VIDYADHAR ACA 900 WEST GROVE PKWY APT # 3014 TEMPE ARIZONA U.S.A	269	209110	MR. RAM PAVAN KUMAR MELAM FCA FLAT NO:303 SIDDU RESIDENCY 5-9-42/2 HILL FORT STREET NO.2 BASHEERBAGH, HYDERABAD-500063
259	208604	MR. MUBARAK ALI M K FCA P O BOX 3600 ABU DHABI, U.A.E	270	209137	MR. RAMACHANDRA PAI T V ACA NO. 7, 1ST CROSS ROAD NEHRU NAGAR BANGALORE-560020
260	208618	MR. BELLALA SURESH KUMAR ACA D NO 3373 2ND CROSS 7TH MAIN R P C LAYOUT VIJAYANAGAR 2ND STAGE BANGALORE-560040	271	209144	MR. RAJKUMAR P ACA WIREFORM A N THAILAND CO. LTD. NO.60/47 NAVANAKHORN INDUSTRIAL ESTATE STAGE 2 PHAHOLYOTHIN ROAD KLONG LUANG PATHUMTHAI THAILAND-12120
261	208764	MR. PRAVEEN KUMAR K ACA KIBOKO GROUP OF COMPANIES PLOT NO 2, BOMBO ROAD P O BOX NO 31376 KAMPALA UGANDA	272	209155	MR. SURESHKUMAR R ACA BLOCK 'B', FLAT 'C' SIVARANJANI APARTMENTS 57-B, KARTHIKAPURAM MADIPAKKAM CHENNAI-600091
262	208819	MR. SADASHIVA MARAKALA H FCA NO. 34 FIRST FLOOR 4TH CROSS, 3RD MAIN HANUMANTHANAGAR BANGALORE-560019	273	209228	MR. BALASUBRAMANIAN R ACA 75 DHANAPPA MUDALI STREET MADURAI-625001
263	208872	MR. VENKAT KESHAV PILLAI S ACA 3/79 MAHALAXMI CENTRAL STREET ERACHAKULAM NAGERCOIL-629902	274	209252	MS. ANANTHI AMARNATH ACA FA, 3RD BLOCK, JAINS ASHRAYA VEMBULIAMMAN KOIL STREET K K NAGAR (WEST) CHENNAI-600078
264	208904	MR. SATISH V ACA FINANCIAL ANALYST M/S HEWLETT PACKARD INDIA PVT LTD 24 SALARPURIA ARENA HOSUR MAIN ROAD, ADUGODI BANGALORE-560030	275	209285	MR. SABU C S ACA FINANCIAL CONTROLLER NILE PERCH FISHERIES LTD P O BOX 1753 MWANZA TANZANIA
265	208954	MR. NAGARAJAN R ACA F-15, K G PLAZA 41, G P ROAD CHENNAI-600002	276	209537	MR. SUDHAKAR R ACA NEW NO 11, (OLD NO 5/1) FIRST FLOOR WEST MAMBALAM CHENNAI-600033



S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
277	209694	MR. CHANDRASHEKAR UDUPA A FCA #34, 1ST FLOOR, 4TH CROSS 3RD MAIN, HANUMANTHANAGAR BANGALORE-560019	287	210454	MR. UDAYAPPAN SP ACA 455 VIVEKANANDA ROAD RAMNAGAR COIMBATORE-641009
278	209736	MS. DHANALAXMI G ACA A2-103 SOBHA OPAL 4 <sup>T</sup> BLOCK, 39TH CROSS JAYANAGAR BANGALORE-560041	288	210482	MR. RAVI KIRAN C ACA FLAT NO 302, PLOT NO 22 SREE SATYAM RESIDENCY JANAKPURI SECUNDERABAD-500009
279	209820	MR. SANKARANARAYANAN S ACA FINANCIAL ANALYST WABCO STANDARAD TRANE SA P O BOX 27279 SHARJAH U.A.E	289	210516	MR. GURUMURTHY R ACA 27 'RAGAM' 8TH MAIN (BETWEEN 9TH & 11TH CROSS) MALLESWARAM BANGALORE-560003
280	209881	MR. VASU DEVA RAO P ACA H NO 2-8-173, MUKARAMPURA (UPSTAIRS) FIRST FLOOR KARIMNAGAR-505001	290	210611	MR. SREENIVASULU R ACA COURT STREET NELLORE DISTRICT VENKATAGIRI-524132
281	209957	MS. MARIAMMA AJI GEORGE ACA C/O MR AJI GEORGE VARGHESE AL GURG ELECTRONICS (PROJECTS DIVISION) P O BOX 325 DUBAI U.A.E	291	210612	MR. KRISHNA KUMAR BANG ACA 1-3-176/4/C/15 GANDHI NAGAR HYDERABAD-500080
282	210197	MR. CHANDRAKANT VENKATESH RAIKAR ACA NO.2110 FIRST FLOOR 14TH MAIN ROAD, 9TH CROSS H A L THIRD STAGE KODIHALLI BANGALORE-560008	292	210697	MR. JAYACHANDRAN V R ACA INTERNAL AUDITOR LULU HYPERMARKET TRDG.CO.WLL P B NO 9763 DOHA, QATAR
283	210220	MR. NARASIMHA SRIVATSA PILLUTLA ACA ASST. MANAGER (F & A) SHAW WALLACE DISTILLERIES LTD. 73 - 1 SECTOR, GOVINDPURA INDUSTRIAL AREA, BHOPAL - 462023	293	210922	MR. SURYA PRAKASH B S ACA PLOT NO 39/40, DIGITAL PARK ELECTRONICS CITY, PHASE II HOSUR ROAD BANGALORE-560100
284	210309	MR. SATYANARAYANA BARU ACA G-101, SRISAI DATTA APARTMENTS SRINIVASA COLONY EAST AMEERPET HYDERABAD-500038	294	211140	MR. BALAJI V ACA SHREE B K RAGHAVAN A-28 CIL LAYOUT 1ST A MAIN ROAD RMV IIND STAGE BANGALORE-560094
285	210336	MR. NAGARAMBABU N ACA FLAT NO.4 KETAN APARTMENTS PLOT NO.7-1-29, LEELA NAGAR AMEERPET HYDERABAD-500016	295	211204	MR. DEEPANJAN BANDYOPADHYAY ACA 203, JYOTHI RESIDENCY 1ST CROSS VAGGADASAPURA BANGALORE-560093
286	210379	MS. HEMALATHA C ACA 31/2, DOOR NO G-3 RAMASAMY STREET RADHANAGAR CHROME PET CHENNAI-600044	296	211327	MS. PRIYA NAGARAJAN ACA 96-A, CASA PERNADU 3RD FLOOR, 15TH ROAD TPS III BANDRA (W) MUMBAI - 400051.
			297	211620	MR. VASUDEVA SHENOY M ACA FINANCE MANAGER MEGA PRODUCTS LIMITED 35 GIABAT HANOI VIETNAM
			298	211887	MR. SATH VEDHA NARAYANAN R ACA NEW NO 11 OLD NO 9 I FLOOR, SAMBASIVAM STREET T NAGAR CHENNAI-600017

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
299	212349	MR. AZEEJULLA SHAFI SHAIK ACA NEW NO.85 (OLD NO.42) DHEEN ESTATE III FLOOR, MOORE STREET PARRYS CHENNAI-600001	304	212578	MS. ARUNA RANGANATHAN ACA 75 CENTURY PLAZA 560-561 ANNA SALAI TEYNAMPET CHENNAI-600018
300	212448	MR. PAMAK RISHNA CHOWDARY M ACA VENIR R. VARA MANDALAM EAST GODAWARI DISTRICT RAMACHANDRAPURAM-533255	305	212583	MS. MAHALAKSHMI V S ACA T-1 THIRD FLOOR RAO'S BALAJI APTS BHARADWAJA STREET EAST TAMBARAM CHENNAI-600059
301	212454	MS. SAREENA SARA JACOB ACA ASSISTANT MANAGER CITI BANK 1 FLOOR CARDS PPU 2 CLUB HOUSE ROAD CHENNAI-600002	306	212835	MS. CARMEL CAROLINE ROYN ACA NO 9 KAMMANAHALLI THOMAS TOWN BANGALORE-560084
302	212496	MR. ARJUN SARATHY R S ACA NEW NO. 6/3 (OLD NO.35/3) NEELAKANDA MEHTA STREET T NAGAR CHENNAI-600017	307	212862	MS. NALINA RANKA ACA NO.32/1 SIRI 3RD CROSS, 10TH MAIN, GURURAJA LAYOUT 7TH BLOCK, 4TH PHASE BANASHANKARI 3RD STAGE BANGALORE-560085
303	212524	MR. RAJVI ANGH ACA 5A, BLOCK 1 KENCES BRINDAVAN APTS 135, POONAMALLEE HIGH ROAD KILPAUK CHENNAI-600010	308	212876	MR. MACHIRAJU RAMESH ACA PLOT NO 191 FLAT NO 301 SHIVAS KALYANI RESIDENCY KALYAN NAGAR VENTURE-3 HYDERABAD-500018
			309	212963	MR. SRINIVAS REDDY ACA TEAM LEADER -B P CHEMICALS IBM GLOBAL SERVICES (P) LTD 4TH FLOOR, 'EXPLORER' BLOCK I T P L, WHITEFIELD ROAD BANGALORE-560066

ASHOK HALDIA  
Secy.

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi-02, the September 2006

## AMENDMENT

No. A-12/11/1/98-Med.4.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 97 read with sub-section 2(A) of that section ESI Act, 1948 (34 of 1948) the recruitment regulations in the Gr. 'C' & 'D' (Paramedical) posts in ESI Corporation (published vide notification) No. 1(1)3/72-Estt.I (Vol. II) dt. 15.6.77 in Part III Section 4 of Gazette of India No. 27 dt. 2.7.77) are amended as under :—

## Column 14—Composition of DPC

Existing provision		Now substituted by	
1. Director (Medical) Delhi	— Chairman	Director/Medical Supdt.	— Chairman
2. Dy. Medical Supdt. (outside nominee from Central Govt. Hospital)	— Member	Dy. Medical Supdt. (outside nominee from Central Govt./ State Govt. Hospital)	— Member
3. Nursing Superintendent	— Member	Nursing Superintendent/ Principal of Nursing School/equivalent	

Director (Medical) Delhi would continue to act as chairman of DPC convened for considering promotion of Gr. C & D (Paramedical) staff posted in ESI Hospitals of Delhi including Noida.

R. I. SINGH  
Director General

The 8th September 2006

No. U-16/53/1/2004-A.P. Medi. III.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Hyderabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre	
1. Dr. Chiranjeevi Rao, MBBS (MS)	23.6.06 to 22.6.07	Sirpurkagaz	Nagar

DR. KAMLESH KALRA

The 18th September 2006

**No.U-16/53/2001/(Kerala) :** - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Kerala for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. R. Naveen Kumar	18.8.2006 to 17.8.2007	Trichur/ Palakkad

**DR. KAMLESH KALRA**  
Medical Commissioner

New Delhi, the 26th October 2006

No. N-15/13/14/17/1992-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> September, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely

**Centre Name**

**Areas Comprising the Revenue villages of**

Kelambakkam

1. Chemmancheri
2. Navaloor
3. Egattur
4. Kazhiputtur
5. Kelambakkam
6. Padur
7. Thaiyur
8. Edayankuppam
9. Alathur
10. Sathankuppam
11. Nedungundram
12. Rathinamangalam
13. Kolapakkam
14. Thirupporur

of Chengalpat Taluk in Kancheepuram District.

**M. SUNDARAMAN**  
Director (P&D)

No. N-15/13/2/1/2006-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> September, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Assam Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Assam namely

Areas under Doomdooma falls within Doomdooma town including Revenue Villages:-

Doomdooma pathergaon, Hansora T.E. 20/156 O.R.S, Hansora T.E. 15/12/No, N.L.R., Hansora T.E. & No. L.C., Borhapjan Village. Mulan Pathar, Kehanguri, Sukanguri. 109/111 No. Grant. 2 No. Chotahapjan, Chokuriting, Badlabheta, Manuhkhowa, Athengia, Goipani, Nagaon, No-1, Rongajan, Photikjan, Beeshkopie 73 F.S., Beesakopie 8 No. L.C., Ouguri, Beesakopie, Tipuk, 101, No FS. Assomia, Baliyan, Boimukhia Gaon, Beesakopie 72 F.S. in the Doomdooma area.

Under Mouza – Tingrai, Doomdooma, Hapjan.

**M.SUNDARARAMAN**  
**DIRECTOR (P&D)**

No. N-15/13/14/8/2003-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> September, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely

**Centre Name**  
Kancheepuram Areas

**Areas Comprising the Revenue villages of**

1. Municipal limits of Kancheepuram Municipality
2. Enathur
3. Konerikuppam
4. Sirukaveripakkam
5. Orikkai
6. Vedal
7. Siruvedal
8. Attuputhur
9. Singadivakkam
10. Melambi
11. Thimmasamudram
12. Kilambi
13. Paranathur
14. Karai
15. Aryambakkam
16. Nasarathpet
17. Netteri
18. Achukattu
19. Salabogam
20. Putheri
21. Killadipur
22. Melkadipur
23. Mangalbadi
24. Eriyoy
25. Thenambakkam
26. Chinnayarkulam
27. Kottaikaval
28. Velingapattadai
29. Sevilmedu
30. Vaiyaavoor
31. Nathampettai
32. Arapanacheri
33. Muthialpettai
34. Ayyanpettai
35. Valluvapakkam
36. Kaliyanur
37. Olaiyur

**M.SUNDARARAMAN**  
**DIRECTOR (P&D)**

The 30th October 2006

No. N-15/13/11/8/2006-P&D.— : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> November 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :-

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	Dhudianwal	130	Kapurthala	Kapurthala
2.	Barindpur	95	Kapurthala	Kapurthala
3.	Bhule	132	Kapurthala	Kapurthala
4.	Husanpur	123	Kapurthala	Kapurthala
5.	Sadowal	155	Kapurthala	Kapurthala
6.	Gosal	158	Kapurthala	Kapurthala
7.	Burewal	159	Kapurthala	Kapurthala
8.	Pakhowal	160	Kapurthala	Kapurthala
9.	Lodhi Bhullan	125	Kapurthala	Kapurthala
10.	Rasulpur Sisli	127	Kapurthala	Kapurthala
11.	Jalpur Bhulan	126	Kapurthala	Kapurthala
12.	Sadowal Bhulan	124	Kapurthala	Kapurthala
13.	Jalibri	91	Kapurthala	Kapurthala
14.	Bibri	96	Kapurthala	Kapurthala

M. SUNDARARAMAN  
Director (P&D)

No. N-15/13/11/7/2006-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> November 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :-

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	Chhota Jola	179	Derabassi	Patiala
2.	Jola Kalan	180	Derabassi	Patiala
3.	Humayunpur	166	Derabassi	Patiala
4.	Humayunpur Tirambli	165	Derabassi	Patiala

M. SUNDARARAMAN  
Director (P&D)





ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2004-2005 (A) MAINTENANCE GRANT ACCOUNT	
The 16th October 2006	
EXPENDITURE	INCOME
Rs.	Rs.
AMOUNT	AMOUNT
Rs.	Rs.
<b>1. ADMINISTRATION</b>	<b>1. ENDOWMENTS AND GRANTS</b>
SALARIES 200486198	INCOME FROM INVESTMENTS 15870328
OTHER CHARGES 9036742	GRANTS
COMMON SERVICES & GENERAL CHARGES 18581118	UNIVERSITY GRANTS 1758777000
2. ACADEMIC DEPARTMENTS	COMMISSION 1774647328
(a) FACULTIES	2. FEE FROM STUDENTS
SALARIES 603796764	ACADEMIC 60761451
OTHER CHARGES 42527596	EXAMINATIONS 2768233
(b) COLLEGES	OTHER FEES 1320414
SALARIES 39057267	HOSTELS 3819444
OTHER CHARGES 2059953	
41117220	68669542

1	2	3	4	5	6
(c) <u>GENERAL EDUCATION CENTRE</u>	<u>SALARIES</u>	1793043			
	<u>OTHER CHARGES</u>	256378	2049421		
(d) <u>CAREER PLANNING CENTRE &amp; PROF. COURSES</u>	<u>SALARIES</u>	2225171		2542647	
	<u>OTHER CHARGES</u>	1246325	3471496	1483330	4026177
3. <u>EXAMINATIONS</u>	<u>SALARIES</u>	14380059			
	<u>OTHER CHARGES</u>	28346275	42726434		97032
4. <u>M. A. LIBRARY</u>	<u>SALARIES</u>	19608827			
	<u>OTHER CHARGES</u>	17372503	36981330		495896
5. <u>STUDENTS FACILITIES</u>	<u>SALARIES</u>	12825379			
	<u>OTHER CHARGES</u>	1858003	14683382		7812953
6. <u>FELLOWSHIPS &amp; SCHOLARSHIPS</u>		6330084			
7. <u>HOSTELS</u>	<u>SALARIES</u>	113548763			
	<u>OTHER CHARGES</u>	1994989	115543752		

1	2	3	4	5	6
8. <u>PUBLICATIONS</u>	SALARIES	1324596	<u>7. MISCELLANEOUS</u>		7086841
OTHER CHARGES	858238	2183534	MISCELLANEOUS	BUS CHARGES, RECOVERIES	
9. <u>OTHER DEPARTMENTS</u>	SALARIES	66008422	<u>8. SCHOOLS</u>	EMPLOYMENT APPL. FEE, ETC.	
OTHER CHARGES	44409239	110418361	FEE FROM STUDENTS	406584	
10. <u>AUXILIARY SERVICES</u>	SALARIES	14510427	HOSTELS	14640	
OTHER CHARGES	60694043	75204470	MISCELLANEOUS	1167322	1538553
11. <u>MISCELLANEOUS</u>	SALARIES	152350	<u>9. MEDICAL COLLEGE HOSPITAL</u>		
OTHER CHARGES	87658249	87810599	MISCELLANEOUS RECEIPTS	337304	
LEAVE SALARY	10164876	10164876			
PAYMENT TO CONSULTANT	39560	39560			
BONUS FOR DAILY WAGERS	808672	808672			
HONORARIUM FOR EXTRA DUTY/GUEST FACULTY	4397929	4397929			

1	2	3	4	5	6
12. SCHOOLS SALARIES	68059300				
OTHER CHARGES	3709747	71769047			
13. RETIREMENT BENEFITS		293066949			
14. MEDICAL COLLEGE HOSPITAL SALARIES	124221878				
OTHER CHARGES	13064728	137286606			
TOTAL INCOME :				1864761626	
EXCESS OF EXPENDITURE OVER RECEIPT				65720514	
GRAND TOTAL :		1930482140			1930482140

  
 (S A H Kazmi)  
 Finance Officer

  
 (Yasmin Gul Beg)  
 Deputy Finance Officer  
 Accounts

Excess expenditure of Rs. 6,57,20,514 met against the credit opening balance of Rs. 6,69,68,075. Net credit is Rs.12.48 lakhs as exhibited on page no. 187.

<u>INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2004-2005</u> <u>(B) DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT</u>		INCOME	AMOUNT Rs.
EXPENDITURE	AMOUNT Rs.	INCOME	AMOUNT Rs.
DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH.		GRANT IN AID FROM UNIVERSITY GRANTS COMMISSION/GOVERNMENT OF INDIA FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH.	
<u>X PLAN SCHEMES</u>		X PLAN SCHEMES	44087000
SALARIES & ALLOWANCES	17242851	SPECIAL DEVELOPMENT SCHEMES	15994729
OTHER CHARGES	671932	GRANT IN AID FOR MISCELLANEOUS SCHEMES FROM UNIVERSITY GRANTS COMMISSION/GOVERNMENT OF INDIA AND UTTAR PRADESH GOVERNMENT	24384604
<u>SPECIAL DEVELOPMENT SCHEMES</u>			
SALARIES & ALLOWANCES	3628246		
SCHOLARSHIP & FELLOWSHIP	942856		
OTHER CHARGES	11426601		
	15997703		

EXPENDITURE	AMOUNT Rs.	INCOME	AMOUNT Rs.
<u>MISCELLANEOUS SCHEMES</u>			
SEMINAR / SYMPOSIUM / WORKSHOP / CONFERANCES.	733001		
TRAVEL	832780		
UNASSIGNED GRANT	835294		
OTHER CHARGES	<u>17259938</u> 19661013		
TOTAL :	<u>53573499</u>		
EXCESS OF RECEIPT OVER EXPENDITURE	30892834		
GRAND TOTAL :	<u>84466333</u>	GRAND TOTAL :	<u>84466333</u>
	Deputy Finance Officer (S/Ink)		(S A H Kazmi) Finance Officer

<b>ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY. BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2005</b>	
LIABILITIES	ASSETS
AMOUNT Rs.	AMOUNT Rs.
<b><u>GENERAL FUND ACCOUNT</u></b>	<b>INVESTMENTS ( VARIOUS ACCOUNTS )</b>
<b><u>PERMANENT ENDOWMENTS</u></b>	<b>FIXED DEPOSITS &amp; GOVERNMENT SECURITIES</b>
CAPITALISED VALUE OF THE DONATION RECEIVED AND INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 7 OF THE A.M.U. ACT. OF 1920 AS AMENDED	1393127753
3000000	488293498
<b><u>PERMANENT RESERVE FUND</u></b>	<b>EQUIPMENT</b>
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS RECEIVED	628692522
6200956	<b>VEHICLE</b>
<b><u>SPECIAL FLOATING RESERVE FUND</u></b>	4250936
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS AND GRANTS	8448623
1040221	<b>BOOKS</b>
<b><u>FLOATING RESERVE FUND</u></b>	99831715
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS ETC.	<b>BALANCE OF DEPRECIATION FUND</b>
388591	572507
	<b>MISCELLANEOUS DEBIT BALANCE</b>
	<b>PERMANENT ADVANCES</b>
	34688

1	2	3	4	5	6
<u>TRUST FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS ETC.	4381685		MISCELLANEOUS DEBIT BALANCES AS PER ANNEXURE NO. 4		2692271
UN-UTILISED INTEREST OF THE FUND	<del>2425186</del> 2425186	6806871	SAVING BANK ACCOUNT (CAPITALISED VALUE OF SHORT TERM DEPOSIT)		58739122
MISCELLANEOUS FUNDS			<u>DEVELOPMENT GRANTS ACCOUNTS</u>		
CAPITALISED VALUE OF DEPRECIATION FUND		3542138	GOVERNMENT OF INDIA'S SCHEME IN UNANI MEDICINE AT A.K. TIBBIYA COLLEGE	42398	
BUILDING FUND	12325534		GOVT. OF INDIA'S SCHEME OF LITERARY RESEARCH UNIT AT A.K. TIBBIYA COLLEGE	23602	
ENGINEERING COLLEGE FUND	943845		U. P. GOVT. POST PARTUM PROGRAMME	7291436	
WOMEN'S COLLEGE FUND	<del>235602</del> 235602	13292939	HIFZAN-E-SEHAT / MOALJAT & KULLIYAT, A.K. TIBBIYA COLLEGE	2094565	
<u>CURRENT EXPENSES FUND</u>			INTER FUND ADVANCES	5236738	14688739
INTEREST ON UNIVERSITY CONTRIBUTION TOWARDS PROVIDENT FUND EARMARKED FOR CONSTRUCTION OF STAFF QUARTERS		69716448			
<u>MISCELLANEOUS CREDITS BALANCES</u>					
STUDENTS AID FUND	2060340				



1	2	3	4	5	6
			<b>DEPOSIT ACCOUNT</b>		
COMPULSORY GROUP INSURANCE SCHEME/DEPOSIT LINKED SCHEME	69310		N. I. H. MALARIA SCHEME IN COLLABORATION WITH UNIVERSITY OF HAWAI U. S. A.	24617	
REVOLVING FUND FOR PUBLICATION OF BOOKS IN HISTORY DEPARTMENTS	552592		MISCELLANEOUS DEBIT BALANCE	21212	
COMPULSORY DEPOSIT SCHEME	8164		GRANT UNDER PL-480 SCHEME	8331	54160
CAPITALISED VALUE OF DEVELOPMENT CHARGES	35163795		<b>MEDICAL COLLEGE FUND</b>		
CORPUS FUND	185811799		INTER FUND ADVANCES	69154	
TEHZIBUL AKHLAQ	374156		ADVANCE FOR MEDICAL STUDENTS	4843	73997
RECOVERIES SUSPENSE AS PER ANNEXURE 4	10131472		<b>SCHOLARSHIP ACCOUNT</b>		
U.G.C. INCENTIVE FOR ADDITIONAL RESOURCES	1290328		BACKWARD CLASS STUDENTS SCHOLARSHIP (U. P. GOVT.)		68970
INTER FUND ADVANCES	<del>83983050</del>	319445006			
NET EXCESS OF RECEIPT OVER EXPENDITURE IN MAINTENANCE GRANT ACCOUNT (66968075-65720514)					
SPECIAL REPAIR		1247561			
ARREAR OF NON TEACHING STAFF		382336			
		930795			

1	2	3	4	5	6
COLLABORATION ARRANGEMENT CHARGES FOR DUBAI CENTRE	2057177		<u>CLOSING BALANCES</u>		
UN-INTERRUPTED POWER SUPPLY	2000000		MAINTENANCE GRANT ACCOUNT		266343774
NEW PENSION SCHEME	2000000		<u>CHAIR IN RURAL ECONOMICS</u>		
SPECIAL ASSISTANCE FOR WATER SUPPLY & SEWERAGE OF STAFF COLONIES & DEPTT.	6573000		STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		2956
REPAIR OF UNIVERSITY BUILDINGS	9000000		<u>DEPOSIT ACCOUNT</u>		
<u>DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT</u> CAPITALISED VALUE OF THE GRANT RECEIVED FROM THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR :- BUILDING	360416371		STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		93583125
BOOKS	101649804		<u>PROVIDENT FUND ACCOUNTS</u>		5449
EQUIPMENTS	626814529		ALLAHABAD BANK, A.M.U. BRANCH	24444	
FURNITURE	7639487		POST OFFICE, SAVING BANK	2258	26702
RECOVERIES SUSPENSES (AS PER ANNEXURE TO STATEMENT NO. 4)	2898961		<u>MEDICAL COLLEGE FUNDS</u>		
NET EXCESS OF RECEIPT OVER EXPENDITURE AS PER INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT (30892834-7281743)	23611091		STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		197497

1	2	3	4	5	6
INTEREST ON INVESTMENTS	31026456		<u>Dr. WALI MOHD WAQF</u>		
UPGRADATION D/O TASHREEH .WA-MUNAFEUL AZA, A.K. TIBBIYA COLLEGE	119		<u>ALAL-AULAD ACCOUNT</u>	STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH	234122
UPGRADATION D/O AMRAZ-E- NISWA A. K. TIBBIYA COLLEGE	351		<u>GOLDEN JUBILEE FUND</u>	STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH	26075
SUSPENSE ACCOUNT	7616	1154064785	<u>PERMANENT ISLAMIC SOLIDARITY FUND</u>		
<u>DEVELOPMENT GRANT SCHOLARSHIP ACCOUNT</u>			SYNDICATE BANK, A.M.U. EXTENSION COUNTER		135211
DEPOSIT ACCOUNT OF THE GRANTS RECEIVED FROM THE COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH	3794596		<u>BIBI FATIMA WAQF</u>	STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH	76036
DEPOSIT ACCOUNT OF THE GRANT RECEIVED FOR SCHOLARSHIP FROM VARIOUS AGENCIES (MISC. SCHEME)	2620049		<u>SCHOLARSHIP ACCOUNTS</u>	ALLAHABAD BANK, A.M.U. BRANCH	2929140
EXCESS OF RECEIPT OVER EXPENDITURE	391676	6806321	SCHOLARSHIP ACCOUNT (BACKWARD CLASS STUDENTS) (U. P. GOVT.)		74572

1	2	3	4	5	6
<u>DEPOSIT ACCOUNTS</u>			<u>DEVELOPMENT GRANT</u>		
CAPITALISED VALUE OF THE			<u>SCHOLARSHIP ACCOUNT</u>		6806321
GRANTS AND DONATIONS			STATE BANK OF INDIA,		
RECEIVED FROM :-			A.M.U. BRANCH		
FORD FOUNDATION	2194321		A.M.U. STUDENTS		
KUWAIT GOVERNMENT	100000		<u>WELFARE FUND</u>		
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN	113000		STATE BANK OF INDIA,		4611291
SHAH SAUD DONATION	1199275		A.M.U. BRANCH		
CONSTRUCTION OF 100 ROOMS	1039103		<u>A.M.U. DEVELOPMENT</u>		
DONATION FROM HAJI			<u>CORPUS FUND</u>		
IBRAHIM ISMAIL	109841		STATE BANK OF INDIA,		1523246
ENHANCED INCOME FROM			A.M.U. BRANCH		
N.R.I. CONTRIBUTION FOR			<u>REVOLVING FUND OF HOUSE</u>		
ADMISSION TO M. B. B. S.	12944273		<u>BUILDING ADVANCE TO THE</u>		
DENTAL COLLEGE	30873769		STAFF		
HAJI SAUD ABDUL AZIZ			STATE BANK OF INDIA		7024072
AL-BABTAIN FOR			A.M.U. BRANCH		
CONSTRUCTION OF SCHOOL	1034581				

1	2	3	4	5	6
Dr. HASAN KAMAL (FOR MODIFICATION AND CONSTRUCTION OF UNION SCHOOL BUILDING)	1532302				
DONATION FROM SHAKTI RAJS	50000				
DONATION FROM H.E.M.OBAID	200000				
DONATION FROM U. A. E. FOR OPENING OF NEW COURSES ( FOR ENGG. COLLEGE )	3379102				
DONATION FROM HOLINESS SYEDNA BURHANUDDIN FOR S. T. HIGH SCHOOL	785422				
CAPITAL FOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY :-					
DONATION FROM DAWAKHANA TIBBIYA COLLEGE	3335067				
DONATION FROM Dr. SHANKAR DAYAL SHARMA (PRESIDENT OF INDIA) FOR GOLD MEDAL	15000				

1	2	3	4	5	6
Mr. ISHRAT HUSAIN USMANI FOR SCHOLARSHIP	22800				
LATE Mr. MOHD AMJAD ALI FOR PURCHASE OF LIBRARY BOOKS	625707				
DONATION FROM S. FAROOQ (ZAKAT FUND)	264856				
Mr. SABIH AHMAD KAMALI	180503				
JAMMU & KASHMIR GOVERNMENT	696820				
AWARD IN THE NAME OF SOHAIL AHMAD	2296				
DONATION FROM AFSARI BEGUM	1579534				
DONATION FROM USHA K. BAVEJA	23528				
DONATION FROM KHURSHIED ALAM KHAN	8000				
DONATION FROM SAIEDULLAH KHAN FOR DENTAL COLLEGE	192103				

1	2	3	4	5	6
DONATION FROM S. R. ALI ZAIDI	286331				
DONATION FROM OLD BOYS ASSOCIATION, KANPUR	53020				
UNIVERSITY GUEST HOUSE (FOOD CHARGES)	716268				
DONATION FROM DAWAKHANA TIBBIYA COLLEGE & S. S. MART	330876				
P. N. KAULA	219532				
BOYS FUND, CITY HIGH SCHOOL	5067847				
GIRLS FUND A M. U. GIRLS HIGH SCHOOL	7473150				
CITY GIRLS HIGH SCHOOL	4049271				
DEVELOPMENT CHARGES FOR SPECIAL WARD, J. N. M. C. HOSPITAL	18712671				
BOOK BANK ENGG. COLLEGE AND TECHNOLOGY	2887065				

1	2	3	4	5	6
<b>MISCELLANEOUS GRANTS &amp; DEPOSIT</b>					
PROJECT NO.644 DEPTT. OF BIOTECHNOLOGY UNDER Dr. SALAHUDDIN SIDDIQUI	1276				
STUDIES ON MINOR FOREST OIL SEED UNDER Dr. S. M. OSMAN, DEPTT. OF CHEMISTRY	22954				
SECURITY DEPOSIT	11976671				
VICE-CHANCELLOR'S FUND	35399275				
REVOLVING FUND DEPTT. OF RADIO DIAGNOSIS	32067226				
DONATION FROM JUMA-AL-MAJID ESTABLISHMENT (DUBAI)	107954				
DONATION FROM KIRIK R SMITH BEQUEST OF Dr. ALFRAD C GRAFIL	259187				
DONATION FROM GIRLS HOSTEL AMU ALUMNI DUBAI UAE	2457338				
DONATION FROM ABDUL WASEF FOR Prof. NAZIR AHMAD	60000				
DONATION FROM KALIM KWAJA V.P. ASSOC. OF INDIAN MUSLIM OF AMERICA	60000				





1	2	3	4	5	6
DONATION OF GIFTED BOOKS TO M. A. LIBRARY	1012984				
DONATION FROM Dr. N.C. SAXENA	10000				
DONATION FROM NOORUL HASAN EDUCATIONAL RESEARCH	1244400				
Dr. GEETA BAJAJ GOLD MEDAL FOR M.B.B.S. STUDENTS BY M.L. BAJAJ	60000				
BOOK BANK FOR A. K. TIBBIYA COLLEGE	96764				
TEACHER'S WELFARE FUND	2336907				
REVOLVING FUND, CFC ARTISAN SCHEME, UNIVERSITY POLY.	1051993				
B. ARCHITECTURE FUND	149190				
ICAR IX PLAN GRANT FOR CONS. OF GIRLS HOSTEL (AGRICULTURE)	6129016				
DONATION FOR SCHOOL STUDENT MBBS CASH AWARD BY H. S. LAKHTAKIA	30000				
WOMEN'S COLLEGE CRECHE BUILDING	205541				

1	2	3	4	5	6
E-S KHADIM HUSAIN NAQVI FOR S HASAN QASIM MEMORIAL GOLD MEDAL	65000				
SABIR HUSAIN	5000				
DONATION FROM CONSTRUCTION OF NEW HALL	1267732				
Prof. K.A.NIZAMI FOR QURANIC STUDIES	1116949				
REVOLVING FUND FOR IOL (INS. OF OPHTHALMOLOGY)	280653				
REVOLVING FUND FOR RADIO THERAPY	5935626				
RENOVATION OF SHAJI HOUSE (INS. OF AGRICULTURE)	1181395				
MISCELLANEOUS CREDIT BALANCES AS PER ANNEXURE TO STATEMENT NO. 4	20029128				
LOANS & ADVANCES AS PER STATEMENT NO. 4	21172637	248090030			
<b>PROVIDENT FUND ACCOUNT</b>					
PROVIDENT FUND	1120183638				

1	2	3	4	5	6
REFUNDABLE RECEIPT	255527				
INTER FUND ADVANCES	1943279	1122382444			
<u>MEDICAL COLLEGE FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION AND RECEIPTS	925673	6184324			
<u>Dr. WALLI MOHD WAQF FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION	118971	1044644			
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE					
<u>GOLDEN JUBILEE FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION	3998632				
<u>SHEIKH ZAYED INSTITUTE OF PETROLEUM AND TECHNOLOGY</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION RECEIVED	651833	4650465			
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE					

1	2	3	4	5	6
<u>PERMANENT ISLAMIC SOLIDARITY FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF THE DONATION	1190820				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	<u>4610</u>	1195430			
<u>BIBI FATIMA WAQF</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION	125785				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	<u>2340</u>	128125			
<u>STATE BANK OF INDIA. ENDOWMENT FOR SETTING UP A CHAIR IN RURAL ECONOMICS</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION		2956			
<u>A.M.U. REVOLVING FUND FOR HOUSE BUILDING ADVANCE</u>					
CAPITALISED VALUE OF THE AMOUNT RECEIVED FROM U.G.C. / TRANSFERRED FROM DEPOSIT ACCOUNT / RECOVERIES	28120611				

1	2	3	4	5	6
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	26041124	54161735			
<u>SCHOLARSHIP ACCOUNTS</u>					
CAPITALISED VALUE OF THE SCHOLARSHIP	1414290				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	1514850	2929140			
<u>A.M.U. DEY. CORPUS FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF THE DONATION	4114684				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	18762	4133446			
<u>SCHOLARSHIP ACCOUNTS (BACKWARD CLASS STUDENTS) (U.P. GOVT.)</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION RECEIVED		143542			
<u>STUDENTS WELFARE FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION RECEIVED	17389274				

1	2	3	4	5	6
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	3636903	21026177			
<u>CLOSING BALANCE</u>					
SHEKH ZAID INSTITUTE OF PETROLEUM & TECHNOLOGY		38696			
M.U. DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT		4965888			
PROVIDENT FUND ACCOUNT S.B. ACCOUNT & CURRENT ACCOUNT		3327928			
<b>GRAND TOTAL :</b>		<b>3083169290</b>	<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>3083169290</b>	
				 ( S. A. H. Khatun ) Finance Officer	
				 ( Yasmin Beg ) Deputy Finance Officer (Accounts)	

Audit Certificate

I have examined the Income and Expenditure Account for the year ended 31 March, 2005 and the Balance Sheet as on 31 March, 2005 of the Aligarh Muslim University, Aligarh. I have obtained all the information and explanations that I have required and, subject to the observations in the appended Audit Report. I certify, as a result of my audit, that in my opinion, these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of Aligarh Muslim University, Aligarh according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organization.

Place: Allahabad

Date: 14.06.2006

Sd/- ELLIGIBLE  
Principal Accountant General  
(Civil Audit), Uttar Pradesh

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  
BAHADURSHAH ZAFAR MARG

New Delhi-110 002, the 5th October 2006

No. F. 1-10/2004 (CPP-II)Pt.-III.

In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 22 of the UGC Act, 1956 (3 of 1956) as modified upto Dec., 1985 and in continuation of Notification No.1-52/97(CPP-II) published in the Gazette of India on 31-01-2004, the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby **de-specifies** the following degrees which were published in Gazette of India for the purposes of the said section.

S.No.	Abbreviation of Degrees	Explanation of Degree
1.	AMBS	Ayurvedacharya Bachelor of Medicine and Surgery
2.	B.S.Sc.	Bachelor of Sanitary Science
3.	Bhasha Parveena	Bhasha Parveena
4.	BPP	Bachelor of Physical Planning
5.	BT	Bachelor of Training
6.	D.Ay.M.	Doctor of Ayurvedic Medicine
7.	DHV	Doctor of Hygiene
8.	Granthalaya	Granthalaya

Dr. T. R. KEM  
Secy.